



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 29—अक्टूबर 5, 2007 (आश्विन 7, 1929)  
No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 29—OCTOBER 5, 2007 (ASVINA 7, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .....	917	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .....	963	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश .....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .....	3	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .....	4507
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ...	1465	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस .....	669
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ .....	*	भाग III—खण्ड-4—विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं .....	11087
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट .....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस ....	645
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) .....	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण .....	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं .....	*		

\*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

## CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	917	than the Administration of Union Territories).....	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	963	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .....	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	3	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .....	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence.....	1465	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .....	4507
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs.....	669
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations .....	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners.....	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills.....	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies.....	11087
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).....	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .....	645
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi.....	*

\*Folios not received.

## भाग I—खण्ड 1

## [PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]  
**[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]**

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 अगस्त 2007

सं. 148-प्रेज/2007--राष्ट्रपति स्वतंत्रता दिवस, 2007 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:--

श्री के.आर. नंदन

अपर पुलिस-महानिदेशक

हैदराबाद

आंध्र प्रदेश

श्री ए.के. खान

महानिदेशक, अग्नि शमन सेवा

हैदराबाद

आंध्र प्रदेश

श्री जस्टी वेंकट रामुडू

अपर पुलिस-महानिदेशक

हैदराबाद

आंध्र प्रदेश

श्री अधरपुराणु राम किशन राव

पुलिस उप अधीक्षक

भ्रष्टाचार-रोधी ब्यूरो, हैदराबाद

आंध्र प्रदेश

श्री राजकुमार राजेन्द्र सिंह

पुलिस उप अधीक्षक

पुलिस मुख्यालय

अरुणाचल प्रदेश

श्री अमरीक सिंह निम्ब्रान

पुलिस महानिरीक्षक

रेलवे, पटना

बिहार

श्री सुरेश कुमार भारद्वाज

पुलिस-महानिरीक्षक

पटना

बिहार

श्री गिरिधारी नायक

पुलिस-महानिरीक्षक

सीएएफ

छत्तीसगढ़

श्री प्रदीप नारायण तिवारी

उप पुलिस महानिरीक्षक

पुलिस मुख्यालय, रायपुर

छत्तीसगढ़

श्री वी. रंगनाथन

पुलिस उपायुक्त

दिल्ली

श्री बी.एस. बरार

पुलिस महानिदेशक

पणजी

गोवा

श्री पी.पी. पांडे

पुलिस महानिरीक्षक

वडोदरा

गुजरात

श्री गोपाल भीमराव होसुर  
संयुक्त पुलिस आयुक्त  
बेंगलूर सिटी  
कर्नाटक

श्री सुधीर गनपत दभाडे  
अपर पुलिस अधीक्षक  
खामगांव, बुलढाना  
महाराष्ट्र

श्री सम्पतथट्टई रमेश  
अपर पुलिस महानिदेशक एवं कारागार महानिरीक्षक  
बेंगलूर  
कर्नाटक

श्री वाई. जॉयकुमार सिंह  
पुलिस महानिदेशक  
इम्फाल  
मणिपुर

श्री जीवन कुमार वेंकटराव गांवकर  
पुलिस महानिरीक्षक  
कर्नाटक

श्री नगेन्द्र प्रसाद नायक  
पुलिस निरीक्षक  
टाउन पुलिस थाना, बोलनगर  
उड़ीसा

श्री के. एस. बालासुब्रमणियन  
अपर पुलिस महानिदेशक  
सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो  
तिरुवनंतपुरम  
केरल

श्री सदासिबा रथ  
अपर पुलिस अधीक्षक  
सतर्कता निदेशालय,  
कटक  
उड़ीसा

श्री ऋषि कुमार शुक्ला  
पुलिस महानिरीक्षक  
एस.बी.आई.ई.ओ., भोपाल  
मध्य प्रदेश

श्री शशि कान्त  
अपर पुलिस महानिदेशक  
पंजाब

श्री अनिल पुरुषोत्तम ठेरे  
आयुक्त और अपर पुलिस महानिदेशक  
एसआईडी, एम.एस. मुम्बई  
महाराष्ट्र

श्री जगदीश सिंह कहलों  
पुलिस-अधीक्षक  
फ़ीरोज़पुर  
पंजाब

श्री सतीश खेमचन्द माथुर  
संयुक्त पुलिस आयुक्त  
यातायात शाखा, मुम्बई  
महाराष्ट्र

श्री कन्हैयालाल बैरवा  
अपर पुलिस-महानिदेशक  
जयपुर  
राजस्थान

श्री जसवंत संपतराम  
अपर पुलिस-महानिदेशक  
भ्रष्टाचार-रोधी ब्यूरो, जयपुर  
राजस्थान

श्री उमेश जोशी  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
भ्रष्टाचार-रोधी ब्यूरो  
राजस्थान

डॉ. महबूब आलम  
पुलिस महानिरीक्षक  
तमिलनाडु

श्री हिम्मत सिंह  
पुलिस महानिरीक्षक  
लखनऊ  
उत्तर प्रदेश

श्री राघवेन्द्र सिंह  
पुलिस उप अधीक्षक  
जिला कानपुर सिटी  
उत्तर प्रदेश

श्री करूणाकर राव  
पुलिस उप अधीक्षक  
जिला-सिद्धार्थ नगर  
उत्तर प्रदेश

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी  
कमांडेंट  
४० बटालियन पीएसी हरिद्वार  
उत्तराखंड

श्री वेम्मेलिल वर्की थाम्बी  
अपर पुलिस महानिदेशक  
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
कोलकाता पश्चिम बंगाल

श्री परमजीत सिंह ढिल्लों  
उप महानिरीक्षक  
बल मुख्यालय, नई दिल्ली  
सीमा सुरक्षा बल

श्री रवीन्द्र सिंह पँवार  
उप महानिरीक्षक  
बल मुख्यालय, नई दिल्ली  
सीमा सुरक्षा बल

श्री वाई. वाई. हन्डाल  
उप महानिरीक्षक  
सैक्टर मुख्यालय, श्रीनगर  
(जम्मू एवं कश्मीर)  
सीमा सुरक्षा बल

श्री सुखदेव सिंह चीमा  
सूबेदार मेजर  
20 बटालियन, कठुआ, जम्मू  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री सैय्यद सिराजुद्दीन अली खान  
अपर उप महानिरीक्षक  
हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री सुभाष गोस्वामी  
महानिरीक्षक  
ई/एस साल्ट लेक, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री चन्द्र मोहन बख्शी  
उप महानिरीक्षक  
टेलीगांव, पुणे  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री ई. नारायणन  
पुलिस अधीक्षक  
बी.एस. एवं एफ.सी. मुम्बई  
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री धर्मवीर सिंह यादव  
अपर उप महानिरीक्षक  
महानिदेशालय  
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री छत्तर सिंह पार्चा  
संयुक्त निदेशक  
गृह मंत्रालय

श्री नन्द लाल  
अपर उप महानिरीक्षक  
महानिदेशालय  
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री नंद किशोर दास  
सहायक निदेशक  
गृह मंत्रालय

श्री अनुराग शर्मा  
महानिरीक्षक एवं निदेशक  
एन.आई.एस.ए. हैदराबाद  
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री श्रीनिवासन रामदास  
सहायक निदेशक  
गृह मंत्रालय

श्री सुधीर प्रताप सिंह  
महानिरीक्षक  
नार्थ सेक्टर, नई दिल्ली  
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री अशोक कुमार बरारू  
उप केन्द्रीय आसूचना अधिकारी  
गृह मंत्रालय

श्री थॉमस जॉन  
अपर पुलिस अधीक्षक  
बी.एस. एवं एफ.सी. बेंगलूर  
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री अवतार सिंह  
उप केन्द्रीय आसूचना अधिकारी  
गृह मंत्रालय

श्री थॉमस जॉन  
अपर पुलिस अधीक्षक  
बी.एस. एवं एफ.सी. बेंगलूर  
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री दलजीत सिंह बिन्दा  
सहायक निदेशक  
गृह मंत्रालय

श्री रजनी रंजन सहाय  
पुलिस अधीक्षक  
एस.सी.आर.-II/नई दिल्ली  
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री सत्य नारायण शर्मा  
उप केन्द्रीय आसूचना अधिकारी  
गृह मंत्रालय

श्री प्रताप सिंह ठाकुर  
सहायक कमांडेंट  
24वीं बटालियन गंगाटोक  
सशस्त्र सीमा बल

श्री शाइक महबूब बाशा  
पुलिस उप अधीक्षक  
अनंतपुर क्षेत्र  
आंध्र प्रदेश

श्री प्रभु शरण सिंह  
उप निरीक्षक  
6 बटालियन/आरपीएसएफ  
रेल मंत्रालय

श्री कोट्टि वेंकट सत्यनारायण  
एसौल्ट कमांडर/पुलिस उप अधीक्षक  
ग्रेहूड्स, हैदराबाद  
आंध्र प्रदेश

2. ये पुरस्कार विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्रदान किये जाने को शासित करने वाले नियमों के नियम 4 (ii) के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं।

बरुण मित्रा  
संयुक्त सचिव

श्री येनामडाला तुलसी राम प्रसाद  
निरीक्षक  
केन्द्रीय अपराध स्टेशन, हैदराबाद  
आंध्र प्रदेश

सं. 149-प्रेज/2007--राष्ट्रपति स्वतंत्रता दिवस, 2007 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:--

श्री सी. वी. आनन्द  
पुलिस आयुक्त  
विजयवाड़ा  
आंध्र प्रदेश

श्री पोटेलोल्ला यूगेन्द्र रेड्डी  
डिप्टी एसौल्ट कमांडर/निरीक्षक  
ग्रेहूड्स  
आंध्र प्रदेश

श्री जे. भास्कर राव  
सर्किल निरीक्षक  
हैदराबाद  
आंध्र प्रदेश

श्री मोहम्मद अहसान रेज़ा  
पुलिस उपमहानिरीक्षक  
एलूरू रेंज  
आंध्र प्रदेश

श्री कारानम महेन्द्र पटरुडु  
मुख्य विधि अनुदेशक  
पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज  
आंध्र प्रदेश

श्री अरावेल्ली वेंकटेश्वर राव  
अपर पुलिस अधीक्षक  
नालगोंडा  
आंध्र प्रदेश

श्री कोव्वुरी सूर्य भास्कर रेड्डी  
निरीक्षक  
एसीबी मुख्यालय हैदराबाद  
आंध्र प्रदेश

श्री बांदला जनार्दन  
सहायक उप-निरीक्षक  
डीसीआरबी, सीटीआर  
आंध्र प्रदेश

श्री प्रवीन चंद्र सैकिया  
कमांडेंट, दूसरी एपीटीएफ बटालियन  
लम्डिंग, नागांव  
असम

श्री सैयद एजाज अहमद  
आर्म्ड रिजर्व उप-निरीक्षक  
विशेष ड्यूटी हैदराबाद  
आंध्र प्रदेश

श्री सुब्र जोयति हजारिका  
कमांडेंट  
माकुम, तिनसुकिया  
असम

श्री कांते राजा  
हैड कांस्टेबल  
डी.एस.बी. करीमनगर  
आंध्र प्रदेश

श्री प्रसन्ना मेधी  
सहायक उप-निरीक्षक  
सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोध-गुवाहाटी  
असम

श्री आनंद मंडल  
उप-निरीक्षक  
लुमला पुलिस थाना  
अरुणाचल प्रदेश

श्री संजॉय कुमार दास  
हवलदार  
छठी एपी बटालियन  
असम

श्री शाहजहां अली  
उप-निरीक्षक  
पीटीसी सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर  
अरुणाचल प्रदेश

श्री नाजिफ अहमद  
हवलदार  
खाजुअबील, दारंग,  
असम

श्री दिलीप कुमार बोराह  
पुलिस महानिरीक्षक  
गुवाहाटी  
असम



श्री लाखीधर बोरदोलोई  
हवलदार  
असम कमांडो बटालियन मुख्यालय, मंडाकटा  
गुवाहाटी  
असम

श्री बालिन्द्र कुमार नाथ  
कांस्टेबल (ऑपरेटर)  
एपीआरओ, मुख्यालय, उलुबाड़ी, गुवाहाटी  
असम

श्री भाबेन गोगोई  
कांस्टेबल (प्रचालक)  
ए.पी.आर.ओ. प्र.का.  
उलुबाड़ी, गुवाहाटी  
असम

श्री फणिधर बर्मन  
कांस्टेबल  
सिटी पुलिस रिजर्व, गुवाहाटी  
असम

श्रीमती मंजू झा  
पुलिस अधीक्षक  
सतर्कता विभाग, अन्वेषण ब्यूरो, पटना  
बिहार

श्री गोपाल पासवान  
पुलिस उप अधीक्षक  
पटना  
बिहार

श्री बशीर अहमद खान  
हवलदार  
सीआईडी, पटना  
बिहार

श्री मोहम्मद इब्रार  
कांस्टेबल  
आरओ विशेष शाखा, पटना  
बिहार

श्री रतन प्रसाद कर्ण  
कांस्टेबल  
सीआईडी, पटना  
बिहार

श्री अमर नाथ उपाध्याय  
पुलिस महानिरीक्षक  
सरगुजा रेंज, अंबिकापुर,  
छत्तीसगढ़

श्री पारसनाथ  
कंपनी कमांडर  
तीसरी बटालियन, सीएफ, रायपुर  
छत्तीसगढ़

श्री थानु राम बंजारा  
हैड कांस्टेबल  
कंकेर  
छत्तीसगढ़

श्री दलजीत सिंह  
हैड कांस्टेबल  
10वीं बटालियन, सीएफ, सरगुजा  
छत्तीसगढ़

श्री सुदर्शन साहू  
सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल  
9वीं बटालियन डीडब्ल्यूए  
छत्तीसगढ़

श्री हरीश चंद्र जोशी  
सहायक पुलिस आयुक्त  
लाजपत नगर  
दिल्ली

श्रीमती इंद्रा शर्मा  
महिला निरीक्षक (कार्यकारी)  
सी.ए.डब्ल्यू सेल, नानकपुरा  
दिल्ली

श्री जसपाल सिंह  
निरीक्षक (कार्यकारी)  
सुरक्षा यूनिट  
दिल्ली

श्री सुरेन्द्र कुमार  
निरीक्षक (कार्यकारी)  
एसएचओ/रोहिणी, उत्तर-पश्चिम जिला  
दिल्ली

श्री हिम्मत राम  
उप-निरीक्षक  
पुलिस नियंत्रण कक्ष  
दिल्ली

श्री रमेश चंद  
उप-निरीक्षक  
8वीं बटालियन, डीएपी  
दिल्ली

श्री चंद्र नारायण झा  
सुरक्षा यूनिट  
दिल्ली

श्री आजाद सिंह दहिया  
उप-निरीक्षक  
अपराध एवं रेलवे  
दिल्ली

श्री रामजी लाल शर्मा  
उप-निरीक्षक  
विशेष सैल (एसबी)  
दिल्ली

श्री राम निवास  
सहायक उप-निरीक्षक  
पुलिस नियंत्रण कक्ष  
दिल्ली

श्री इकपाल सिंह  
सहायक उप-निरीक्षक  
दक्षिणी जिला  
दिल्ली

श्री वेद पाल सिंह  
सहायक उप-निरीक्षक  
सुरक्षा यूनिट  
दिल्ली

श्री वीरसिंहभाई कालूभाई अमालियर  
पुलिस उप अधीक्षक  
सहायक पुलिस कमांडर, 'एफ' प्रभाग  
अहमदाबाद सिटी  
गुजरात

श्री सुभाषचंद्र गुणवंतराय रावल  
निरीक्षक  
एलसीबी जूनागढ़, जिला  
गुजरात

श्री दिलीपकुमार कपिलराय वैष्णव  
निरीक्षक  
मणिनगर पुलिस थाना  
अहमदाबाद सिटी  
गुजरात

श्री बलदेवसिंह चंदनसिंह सोलंकी  
निरीक्षक  
सरदार नगर पुलिस थाना  
अहमदाबाद सिटी  
गुजरात

श्री करमशिभाई हरजिभाई देसाई  
निरीक्षक  
सरखेज पुलिस थाना  
अहमदाबाद ग्रामीण जिला,  
गुजरात

श्री दीपक कुमार शांतिलाल व्यास  
निरीक्षक  
एसीबी (फील्ड) मुख्यालय, अहमदाबाद  
गुजरात

श्री करसनभाई जीवनभाई जादव  
निरीक्षक  
भ्रष्टाचार-निरोध ब्यूरो, भुज  
गुजरात

श्री सुगनचंद रघुनाथजी कलाल  
सहायक उप निरीक्षक  
एस.आर.पी.जी.आर.-IX  
गुजरात

श्री भाईलालभाई विठ्ठलभाई जादव  
सहायक उप-निरीक्षक  
रीडर ब्रांच, पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, पश्चिमी  
रेलवे वडोदरा  
गुजरात

श्री शामजीभाई कलाभाई चौहान  
सहायक उप निरीक्षक  
पुलिस मुख्यालय  
गुजरात

श्री बजरंगदास सूरजदास गोंडालिया  
सहायक उप निरीक्षक  
एस.आर.पी.एफ. जी.आर.-11, वीएवी (सूरत)  
गुजरात

श्री चंदूजी गुलाबजी सोलंकी  
हैड कांस्टेबल  
ईको कॉल मेहसाना  
गुजरात

श्री लियाकतअलीखाँ कामूखाँ पठान  
हैड कांस्टेबल  
वसद पुलिस थाना, जिला आनंद  
गुजरात

श्री रमेशचंद्र मणिलाल पटेल  
हैड कांस्टेबल  
वडोदरा  
गुजरात

श्री सज्जन पाल सिंह  
सहायक उप-निरीक्षक  
पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय/रोहतक  
हरियाणा

श्री मुख्तियारहुसैन इस्माइल शेख  
कांस्टेबल  
एस.आर.पी.एफ. जी.आर.-11, वी.ए.वी. (सूरत)  
गुजरात

श्री राजिन्दर कुमार  
सहायक उप-निरीक्षक  
एस.वी.बी. अंबाला  
हरियाणा

श्री राजेन्द्र कुमार केशरीसिंह राठौड़  
कांस्टेबल  
एस.आर.पी.एफ. जी.आर.-XI वीएवी (सूरत)  
गुजरात

श्री सोहन लाल  
सहायक उप-निरीक्षक  
हिसार  
हरियाणा

श्री कांजिभाई रतनभाई परमार  
कांस्टेबल  
एस.आर.पी.एफ. जी.आर.-X, वालिया (भरूच)  
गुजरात

श्री रघुबीर सिंह,  
सहायक उप-निरीक्षक  
हिसार  
हरियाणा

श्री अनिल कुमार  
पुलिस उप अधीक्षक  
दूरसंचार पंचकूला  
हरियाणा

श्री सतबीर सिंह  
हैड कांस्टेबल  
महानिरीक्षक का कार्यालय/गुड़गांव  
हरियाणा

श्री जयवीर सिंह  
उप-निरीक्षक  
एच.पी.ए. एम.बी.एन.  
हरियाणा

श्री विपुल शुक्ला  
पुलिस उप अधीक्षक  
कोयलकारो  
झारखंड

श्री लेख राम  
उप-निरीक्षक  
एच.पी.ए. एम.बी.एन.  
हरियाणा

श्री गणेश बहादुर गुरूंग  
हवलदार  
जेएपी (1) दोरांडा, रांची  
झारखंड

श्री नरेश कुमार प्रधान  
हवलदार  
जे.ए.पी. (1) दोरांडा, रांची  
झारखंड

श्री गोरख बहादुर गिरी  
हवलदार  
जे.ए.पी. (1) दोरांडा, रांची  
झारखंड

श्री श्याम भगत नेगी  
पुलिस उपमहानिरीक्षक  
शिमला  
हिमाचल प्रदेश

श्री केशो राम  
निरीक्षक  
पी.एस.एस.वी. एवं ए.सी.बी. शिमला  
हिमाचल प्रदेश

श्री रमेश चंद चौहान  
निरीक्षक  
सी.आई.डी. यूनिट शिमला  
हिमाचल प्रदेश

श्री राम देव  
सहायक उप-निरीक्षक  
मंडी जिला  
हिमाचल प्रदेश

श्री एम एस शेख  
कमांडेंट  
जे.के.ए.पी. 11वीं एस.ई.सी., बटालियन ए.पी.सी. हुमहुमा  
जम्मू एवं कश्मीर

श्री अब्दुल हामिद शेख  
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  
कमांडेंट आईआर -नौवीं ए.पी.सी. बटमाल  
जम्मू एवं कश्मीर

श्री मनोहर सिंह  
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  
जिला डोडा  
जम्मू एवं कश्मीर

श्री अब्दुल हामिद भट  
पुलिस अधीक्षक  
कश्मीर  
जम्मू एवं कश्मीर

श्री एजाज रसूल गनई  
निरीक्षक  
एस.एस.जी. (मुख्यालय)  
जम्मू एवं कश्मीर

श्री राधा शाम एब्रोल  
निदेशक अभियोजन  
पी. एच. क्यू.  
जम्मू एवं कश्मीर

श्री बशीर अहमद  
निरीक्षक (सीडीआई)  
एस. के. पी. ए. ऊधमपुर  
जम्मू एवं कश्मीर

श्री फारुख अहमद काठवाड़ी  
उप निदेशक अभियोजन  
जम्मू एवं कश्मीर

श्री दिनेश कुमार  
उप निरीक्षक  
जम्मू एवं कश्मीर सी.आई.डी. सैल  
जम्मू एवं कश्मीर

श्री अम्बन्ना हनुमंतप्पा चिप्पर  
उप पुलिस अधीक्षक  
डी.सी. आर.बी.  
कर्नाटक

डॉ. राजवीर प्रताप शर्मा  
पुलिस महानिरीक्षक  
दक्षिणी रेंज  
कर्नाटक

श्री एम. बी. मल्लिकार्जुन स्वामी  
सहायक पुलिस आयुक्त  
पूर्वी यातायात, उप प्रभाग  
बेंगलौर सिटी  
कर्नाटक

श्री रत्नाकर सालुके  
पुलिस अधीक्षक  
राज्य आसूचना, बेंगलौर  
कर्नाटक

श्री सिद्धारामप्पा वीरभद्रप्पा गुलेड  
सहायक पुलिस आयुक्त  
दक्षिणी उप प्रभाग, हुबली  
कर्नाटक

श्री एस. रंगास्वामी नायक  
पुलिस अधीक्षक  
के.एल.ए.  
कर्नाटक

श्री कृष्णदास रविन्द्र प्रसाद  
सहायक पुलिस आयुक्त  
ऑडुगोडी उप प्रभाग, बेंगलौर सिटी  
कर्नाटक

श्री कनागलु नंजप्पा योगप्पा  
पुलिस अधीक्षक  
सी.ओ.डी. बेंगलौर  
कर्नाटक

डॉ. डी. नारायणस्वामी  
सहायक पुलिस आयुक्त  
जयनगर उप प्रभाग, बेंगलौर सिटी  
कर्नाटक

श्री दोमासांद्रा मुनियप्पा कृष्णमराजु  
अपर पुलिस अधीक्षक  
मांड्या  
कर्नाटक

श्री गौड़ा बासवन्नमंजुनाथ  
सर्किल पुलिस निरीक्षक  
तिपतुर ग्रामीण सर्किल, तुमकूर जिला  
कर्नाटक

श्री सोमनाहल्ली रामासिंहैया फणीन्द्रसिंह  
अपर पुलिस अधीक्षक  
चिकमंगलूर  
कर्नाटक

श्री अय्यन हैली बीरा गौड़ा राजेन्द्र कुमार  
पुलिस निरीक्षक  
बनासवाड़ी पुलिस थाना  
बेंगलौर सिटी  
कर्नाटक

श्री सी देवी दासन  
पुलिस उप-निरीक्षक  
कर्नाटक

श्री नरसैया नरसिम्हामूर्ति  
हैड कांस्टेबल  
बी.डी.ए. सतर्कता, बेंगलौर  
कर्नाटक

श्री काईकना बोपैय्या नन्जप्पा  
पुलिस कांस्टेबल  
पहली बटालियन, केएसआरपी  
बेंगलौर  
कर्नाटक

श्री अनिल कांत  
पुलिस महानिरीक्षक  
एस.सी.आर.बी., तिरुवनंतपुरम  
केरल

श्री नीतिन अग्रवाल  
पुलिस उप महानिरीक्षक  
तिरुवनंतपुरम रेंज  
केरल

श्री एस अनंतकृष्णन्  
पुलिस उप महानिरीक्षक  
कन्नूर रेंज  
केरल

श्री के पदमकुमार  
पुलिस उप महानिरीक्षक  
तिरुवनंतपुरम सिटी  
केरल

श्री एम. पद्मानाभन  
पुलिस अधीक्षक  
अर्नाकुलम रूरल  
केरल

श्री वी. सुनील कुमार  
उप कमांडेंट  
केरल सशस्त्र पुलिस दूसरी बटालियन  
केरल

श्री ए. के. वेणुगोपाल  
उप पुलिस अधीक्षक  
डी.सी.आर.बी. रेलवे तिरुवनंतपुरम  
केरल

श्री पी.एन. उन्नीराजन  
उप पुलिस अधीक्षक  
विशेष शाखा, त्रिसूर  
केरल

श्री एम. वी. सुकुमारन  
सर्किल निरीक्षक  
पप्पानूर, कन्नूर  
केरल

श्री पुरुषोत्तम शर्मा  
पुलिस महानिरीक्षक  
भोपाल  
मध्य प्रदेश

श्री मिलिंद कनास्कर  
पुलिस उप महानिरीक्षक  
मध्य प्रदेश

श्री के. टी. वैफी  
पुलिस उप महानिरीक्षक  
इंदौर  
मध्य प्रदेश

श्री हीरालाल वैश्य  
हैड कांस्टेबल  
एस.बी.आई.ई.ओ. भोपाल  
मध्य प्रदेश

श्री दिलीप कुमार सिंह  
पुलिस अधीक्षक  
एसपीई, लोकायुक्त रीवा  
मध्य प्रदेश

श्री राजदेव द्विवेदी  
हैड कांस्टेबल  
आठवीं बटालियन, एस.ए.एफ. छिंदवाड़ा  
मध्य प्रदेश

श्री विजय कुमार मिश्रा  
अन्वेषण अधिकारी, विशेष शाखा  
भोपाल  
मध्य प्रदेश

श्री भगवती प्रसाद शर्मा  
हैड कांस्टेबल  
ग्वालियर  
मध्य प्रदेश

श्री संजीव देशपांडे  
कंपनी कमांडर  
32वीं बटालियन, एस.ए.एफ., उज्जैन  
मध्य प्रदेश

श्री लालजी मिश्रा  
कांस्टेबल  
थाना गोहालपुर, जबलपुर  
मध्य प्रदेश

श्री विजय सिंह पवार  
रिजर्व इंस्पेक्टर  
भोपाल  
मध्य प्रदेश

श्री सैफुद्दीन फारुखी  
कांस्टेबल  
शिवपुरी  
मध्य प्रदेश

श्री अब्दुल हमिद  
हैड कांस्टेबल  
भोपाल  
मध्य प्रदेश

श्री राजवीर सिंह यादव  
कांस्टेबल  
थाना माधोगंज ग्वालियर  
मध्य प्रदेश

श्री अलोइस एक्का  
हैड कांस्टेबल  
एस.पी.ई., मुख्यालय, लोकायुक्त, भोपाल  
मध्य प्रदेश

श्रीमती शोभा ओहाटकर  
पुलिस अधीक्षक  
ई.ओ.डब्ल्यू., सी.आई.डी. पुणे  
महाराष्ट्र



श्री बालासाहेब जेनभाउ शेखर  
पुलिस अधीक्षक  
ए.सी.बी., नासिक  
महाराष्ट्र

श्री प्रताप मुरलीधर पवार  
पुलिस उप-निरीक्षक  
हिंजवाड़ी पुलिस थाना, पुणे सिटी  
महाराष्ट्र

श्री सदाशिव लक्ष्मण पाटील  
सहायक पुलिस आयुक्त  
ए.टी.एस., मुम्बई  
महाराष्ट्र

श्री अयूब उस्मान सैय्यद  
सहायक उप-निरीक्षक  
पुलिस मुख्यालय, सोलापुर सिटी  
महाराष्ट्र

श्री गंगाजी पाटिलबुआ दाभाडे  
पुलिस निरीक्षक  
शाहुपुरी पुलिस थाना, कोल्हापुर  
महाराष्ट्र

श्री बालकृष्ण धर्म सोनावने  
सशस्त्र सहायक उप-निरीक्षक  
एस.आर.पी.एफ. जी.आर.-VI धुले  
महाराष्ट्र

श्री भरत रामाराव पाटील  
पुलिस निरीक्षक  
डक्कन पुलिस थाना, पुणे सिटी  
महाराष्ट्र

श्री प्रहलाद कादुबा चौधरी  
सशस्त्र सहायक उप-निरीक्षक  
एस.आर.पी.एफ. जी.आर.-VI धुले  
महाराष्ट्र

श्री शशिकांत दत्तात्रेय सर्वे  
पुलिस निरीक्षक  
गोरेगांव पुलिस थाना, मुम्बई सिटी  
महाराष्ट्र

श्री भगवत त्रिबंकर इंग्ले  
सशस्त्र सहायक उप-निरीक्षक  
एस.आर.पी.एफ. XI नवी मुम्बई  
महाराष्ट्र

श्री भीमदेव भालचन्द्र राठौड  
पुलिस निरीक्षक  
चारकोप पुलिस थाना, मुम्बई सिटी  
महाराष्ट्र

श्री बापू अप्पा कारडगे  
पुलिस हैड कांस्टेबल  
एल.सी.बी. कोल्हापुर  
महाराष्ट्र

श्री दशरथ दत्तात्रेय खुले  
सशस्त्र पुलिस उप-निरीक्षक  
एस.आर.पी.एफ. जी.आर.-XI, नवी मुम्बई  
महाराष्ट्र

श्री पोपट विठ्ठल कलामकर  
पुलिस हैड कांस्टेबल  
यरवदा पुलिस थाना, पुणे सिटी  
महाराष्ट्र

श्री संभाजी आनंद जाधव  
पुलिस हैड कांस्टेबल  
सी.आर. कल्याण ठाणे सिटी  
महाराष्ट्र

श्री अन्ना गंगाराम गोरे  
पुलिस हैड कांस्टेबल  
वाशी रेलवे पुलिस थाना, मुम्बई  
महाराष्ट्र

श्री सूर्यकान्त बालू तातकारे  
पुलिस हैड कांस्टेबल  
विशेष शाखा, सी.आई.डी., मुम्बई सिटी  
महाराष्ट्र

श्री प्रकाश एकनाथ जाधव  
पुलिस हैड कांस्टेबल  
एस.आर.पी.एफ. जी.आर.- II पुणे  
महाराष्ट्र

श्री अनिल याकोबा माकासरे  
पुलिस हैड कांस्टेबल  
विशेष शाखा, नासिक सिटी  
महाराष्ट्र

श्री चन्द्रकान्त निवरुत्तिराव कदम  
पुलिस हैड कांस्टेबल  
पुलिस मुख्यालय नंदेड़  
महाराष्ट्र

श्री शिवराम शंकर कदम  
पुलिस हैड कांस्टेबल  
कोथरुड पुलिस थाना, पुणे सिटी  
महाराष्ट्र

श्री कैलाश रामचन्द्र खाडसे  
पुलिस हैड कांस्टेबल  
एमटी अकोला  
महाराष्ट्र

श्री किशोर भीवाजी वेले  
पुलिस हैड कांस्टेबल  
कोलशखाडी पुलिस थाना, ठाणे सिटी  
महाराष्ट्र

श्री दत्तात्रेय जनार्दन पवार  
पुलिस हैड कांस्टेबल  
एस.आर.पी.एफ. जी.आर.V दौंड  
महाराष्ट्र

श्री जगदीश गणपतराव धर्मे  
पुलिस हैड कांस्टेबल  
आस्था पुलिस थाना, सांगली  
महाराष्ट्र

श्री सुभाष बाबूराव पाटील  
पुलिस हैड कांस्टेबल  
रामदास पीठ पुलिस थाना, अकोला  
महाराष्ट्र

श्री उदय सीताराम मोरे  
पुलिस हैड कांस्टेबल  
घाटकोपर पुलिस थाना, मुम्बई सिटी  
महाराष्ट्र

श्री प्रदीप धनजीराव जाधव  
पुलिस हैड कांस्टेबल  
अंबरनाथ पुलिस थाना, ठाणे, सिटी  
महाराष्ट्र

श्री आनंदराव गिरिधर पाटील  
पुलिस हैड कांस्टेबल  
अपराध शाखा, ठाणे सिटी  
महाराष्ट्र

श्री जोसफ लाल छौना  
प्रधानाचार्य  
पी.टी.सी., लुंगवेरह  
मिजोरम

श्री विष्णु शंकर एकवाडे  
पुलिस नायक  
एल.सी.बी. सिंधुदुर्ग  
महाराष्ट्र

श्री ललदुला पचुआऊ  
मुख्य डिल अनुदेशक  
पहली बटालियन एम.ए.पी.आइजोल  
मिजोरम

श्री दिलावर गुलाब शेख  
पुलिस नायक  
पनहाला पुलिस थाना, कोल्हापुर  
महाराष्ट्र

श्री पुरलेमजुंग जोगंपोंगनुंगसांग ए.ओ.  
पुलिस अधीक्षक  
कोहिमा  
नागालैंड

श्री पी. धनकुमार सिंह  
पुलिस अधीक्षक  
सी.आई.डी. (एस.बी.) इम्फाल  
मणिपुर

श्री झेकोत्सो मेरो  
कमांडेंट, चौथी एन.ए.पी.  
थिजामा  
नागालैंड

श्री थोकचोम कृष्णातोंबी सिंह  
निरीक्षक  
सी.डी.ओ. इम्फाल, पूर्वी जिला का कार्यालय  
मणिपुर

श्री देबासीस पाणिग्रही  
पुलिस उप महानिरीक्षक  
कटक  
उड़ीसा

श्री निनगम्बन सिंह सुभाष  
सशस्त्र शाखा निरीक्षक  
आई.एस.टी. एम.एल.पी. बी.एल., प्रशिक्षण केन्द्र  
मुख्यालय मावियों  
मेघालय

श्री प्रमोद कुमार मोहन्ती  
पुलिस उप-अधीक्षक  
सी.आई.डी., सी.बी., कटक  
उड़ीसा

श्री सोमेश्वर बासुमतारी  
हवलदार  
पी.टी.एस., शिलांग  
मेघालय

श्री सरत कुमार मोहपात्रा  
पुलिस निरीक्षक  
सतर्कता सैल, यूनिट कार्यालय, बी.जे.वी. नगर  
भुवनेश्वर  
उड़ीसा

श्री खगेश्वर गौड़ा  
सहायक कमांडेंट  
ओ.एस.ए.पी. छठी बटालियन, कटक  
उड़ीसा

श्री परमपाल सिंह सिद्धु  
पुलिस उप महानिरीक्षक  
जालंधर  
पंजाब

श्री दिलीप कुमार दास  
प्रभारी निरीक्षक  
टाऊन पी.एस. बालासौर  
उड़ीसा

श्री गुरदीप सिंह  
निरीक्षक  
अमृतसर  
पंजाब

श्री विष्णु पद दास  
रिजर्व इंस्पेक्टर  
पुरी  
उड़ीसा

श्री धर्मसिंह  
उप-निरीक्षक  
एम.टी.ओ., सी.पी.ओ.  
चंडीगढ़  
पंजाब

श्री प्रमोद कुमार रथ  
पुलिस निरीक्षक  
नालगोडाउन पुलिस थाना, कटक  
उड़ीसा

श्री सेवक सिंह  
उप-निरीक्षक  
पी.ए.पी., फिल्लौर  
पंजाब

श्री कृष्ण चन्द्र मिश्रा  
सहायक उप-निरीक्षक  
सतर्कता प्रभाग कार्यालय, संबलपुर  
अटुमेसिंघा, पीओ- सिंदूरपंक, एस.बी.पी.  
उड़ीसा

श्री सुखविन्द सिंह  
उप-निरीक्षक  
पहली सी.डी.ओ. बटालियन, पटियाला  
पंजाब

श्री समीर कुमार मोहन्ती  
कांस्टेबल  
सी.आई.डी., सी.वी. कटक  
उड़ीसा

श्री विजयपाल  
सहायक उप-निरीक्षक  
पी.ए.पी., फिल्लौर  
पंजाब

श्री गुरदेव सिंह सहोता  
पुलिस महानिरीक्षक  
जालंधर  
पंजाब

श्री दलजीत सिंह  
सहायक उप-निरीक्षक  
ओ.ए.एस.आई एस ए एस नगर  
पंजाब

श्रीमती राजविन्दर कौर  
सहायक उप निरीक्षक  
पुलिस लाइन, अमृतसर  
पंजाब

श्री संजय कुमार श्रोत्रिय  
अपर पुलिस-अधीक्षक  
ईस्ट जयपुर सिटी  
राजस्थान

श्री सुखविन्दर सिंह  
सहायक उप निरीक्षक  
सी.आई.डी. यूनिट, अमृतसर  
पंजाब

श्री ओम प्रकाश जांगिड  
उप पुलिस-अधीक्षक  
सर्कल ऑफिसर नैनवा, जिला बूंदी  
राजस्थान

श्री कारज सिंह  
हैड कांस्टेबल  
पुलिस थाना गिहड़बाहा  
पंजाब

श्री संग्राम सिंह  
उप पुलिस-अधीक्षक  
सर्कल ऑफिसर, अजमेर नोर्थ जिला, अजमेर  
राजस्थान

श्री बूटा सिंह  
हैड कांस्टेबल  
82 बटालियन पी.ए.पी., चंडीगढ़  
पंजाब

श्री शांतिलाल हिंगर  
उप-निरीक्षक (ऑपरेटर)  
पुलिस दूर संचार, उदयपुर  
राजस्थान

श्री जोगिन्दर पाल  
हैड कांस्टेबल  
पुलिस लाइन, बटाला  
पंजाब

श्री जगदीश सिंह नारूका  
सहायक उप-निरीक्षक  
अपराध शाखा, जिला करौली  
राजस्थान

श्री उमेश मिश्रा  
पुलिस महानिरीक्षक  
भ्रष्टाचार-रोधी ब्यूरो  
जयपुर  
राजस्थान

श्री हिन्दू सिंह राजपूत  
सहायक उप-निरीक्षक  
पुलिस लाइन जोधपुर सिटी,  
राजस्थान

श्री मांगी लाल जाट  
अपर पुलिस अधीक्षक  
कमांडेंट, पहली बटालियन आरएसी, जोधपुर  
राजस्थान

श्री हुकम चंद शर्मा  
सहायक उप-निरीक्षक  
ओ.पी. झील, पी.एस. बायना, जिला भरतपुर,  
राजस्थान

श्री सुभ राम यादव  
हैड कांस्टेबल  
चौथी बटालियन आर.ए.सी.  
चैलपुरा जयपुर  
राजस्थान

श्री बजरंग सिंह  
हैड कांस्टेबल  
दूसरी बटालियन, आर.ए.सी., कोटा  
राजस्थान

श्री करणा राम जाट  
हैड कांस्टेबल  
आर.पी.टी.सी., जोधपुर  
राजस्थान

श्री गोकुल लाल डांगी  
हैड कांस्टेबल  
पुलिस थाना प्रतापनगर, जिला उदयपुर  
राजस्थान

श्री अमर देव मीणा  
हैड कांस्टेबल  
एम.बी.सी. खेरवाड़ा, उदयपुर  
राजस्थान

श्री उत्तम सिंह  
कांस्टेबल  
चौथी बटालियन, आर.ए.सी., चैनपुरा, जयपुर  
राजस्थान

श्री एम. चिदंबरामासी  
पुलिस महानिरीक्षक  
सिविल सप्लाई, सी.आई.डी.  
चेन्नई  
तमिलनाडु

श्री प्रमोद कुमार  
पुलिस उप महानिरीक्षक  
रेलवे चेन्नई  
तमिलनाडु

श्री आभास कुमार  
पुलिस उप महानिरीक्षक  
तंजावूर  
तमिलनाडु

श्री एम. रवि  
उप महानिरीक्षक/संयुक्त पुलिस आयुक्त  
नार्थ जोन, चेन्नई सिटी  
तमिलनाडु

श्री करूणासागर  
उप पुलिस-महानिरीक्षक  
प्रशिक्षण-II चेन्नई  
तमिलनाडु

श्री आर. एस. नल्लसिवम  
पुलिस आयुक्त  
आसूचना अनुभाग, चेन्नई पुलिस  
तमिलनाडु

श्री वाई. जॉन. निकोलसन  
पुलिस अधीक्षक  
थुथुकुडी जिला  
तमिलनाडु

श्री थिरूमूर्ति सुंदरसेन  
पुलिस अधीक्षक  
कोयम्बटूर, वी. एंड ए.सी., वेस्टर्न रेंज  
तमिलनाडु

श्री ए. चोकाळिंगम  
उप पुलिस अधीक्षक  
इन सर्विस ट्रेनिंग, तिरुनेलवेली, सिटी  
तमिलनाडु

श्री पी जैकब मानिकराज  
उप पुलिस अधीक्षक  
वी एंड एसी धर्मपुरी  
तमिलनाडु

श्रीमती बी भानुमती  
महिला पुलिस निरीक्षक  
पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज, चेन्नई  
तमिलनाडु

श्री के राजामणि  
पुलिस निरीक्षक  
थिरुपापारमकुडरम, मदुरै जिला  
तमिलनाडु

श्री पेथू विजयन  
पुलिस निरीक्षक  
एसबीसीआईडी मुख्यालय, चेन्नई  
तमिलनाडु

श्री एन बालाकृष्णन  
पुलिस निरीक्षक  
टीएसपी छठी बटालियन, मदुरै  
तमिलनाडु

श्री सी राजा  
पुलिस निरीक्षक  
वी. एंड ए सी इरोड  
तमिलनाडु

श्री आर वेदारथिनम  
पुलिस निरीक्षक  
वी. एंड ए.सी., चेन्नई सिटी II  
तमिलनाडु

श्री जी. सांबानंदम  
पुलिस निरीक्षक  
वी. एंड ए.सी., एस.आई.सी., चेन्नई  
तमिलनाडु

श्री विष्णु किशोर डेब्बारामा  
पुलिस महानिरीक्षक  
टी.एस.आर. एंड ओ.पी.एस. अगरतला  
त्रिपुरा

श्री शिशिर कुमार साहा  
हैड कांस्टेबल, चालक ग्रेड-I  
कार्यालय एस.पी. पी.आर.ओ.सी.  
त्रिपुरा

श्री गुरबचन लाल  
पुलिस महानिरीक्षक  
बरेली जोन  
उत्तर प्रदेश

श्री बिजय कुमार मौर्य  
पुलिस उप महानिरीक्षक  
डी.जी.पी. मुख्यालय, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश

श्री प्रशांत कुमार-I  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
मेरठ रेंज, मेरठ  
उत्तर प्रदेश

श्री मनमोहन कुमार बाशल  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
सहारनपुर रेंज  
उत्तर प्रदेश

श्री अशोक कुमार राघव  
अपर पुलिस-अधीक्षक  
जिला मेरठ  
उत्तर प्रदेश

श्री राजीव रंजन वर्मा  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
इलाहाबाद रेंज  
उत्तर प्रदेश

श्री हेमंत कुमार मिश्रा  
उप पुलिस अधीक्षक  
आई.एस.बी.एफ. गौतमबुद्धनगर  
उत्तर प्रदेश

श्री आलोक शर्मा  
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  
नैनीताल (उत्तराखंड)  
उत्तर प्रदेश

श्री हरचंद सिंह  
उप पुलिस-अधीक्षक  
पी.सी.एल. लखनऊ  
उत्तर प्रदेश

श्री बृज भूषण  
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  
इलाहाबाद  
उत्तर प्रदेश

श्री कमल नारायण पांडे  
उप पुलिस अधीक्षक  
आई.एन.टी. मुख्यालय, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश

श्री राजीव कृष्ण  
कमांडेंट  
35वीं बटालियन, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश

श्री मोहम्मद इश्तियाक  
उप पुलिस-अधीक्षक  
जिला गोरखपुर  
उत्तर प्रदेश

श्री संदीप सालुंके  
निदेशक सुरक्षा  
लोक सभा  
उत्तर प्रदेश

श्री दिनेश कुमार सिसोदिया  
उप पुलिस-अधीक्षक  
जिला मथुरा  
उत्तर प्रदेश

श्री सदाफल यादव  
उप पुलिस-अधीक्षक  
जिला गाजीपुर  
उत्तर प्रदेश

श्री राजपाल सिंह सिरोही  
उप पुलिस-अधीक्षक  
जिला श्रावस्ती  
उत्तर प्रदेश



श्री कैलाश नाथ सिंह  
उप पुलिस अधीक्षक  
जिला मेरठ  
उत्तर प्रदेश

श्री वीरेन्द्र नाथ सिंह  
उप-निरीक्षक  
लखनऊ  
उत्तर प्रदेश

श्री दूधनाथ राम  
सहायक कमांडेंट (उप अधीक्षक)  
दूसरी बटालियन सीतापुर  
उत्तर प्रदेश

श्री कौशलेन्द्र नाथ शर्मा  
उप-निरीक्षक  
रायबरेली  
उत्तर प्रदेश

श्री मुन्नीलाल राम  
उप पुलिस अधीक्षक  
जिला हरदोई  
उत्तर प्रदेश

श्री कौशल कुमार  
सहायक उप-निरीक्षक  
यू.पी.पी.सी.एस., कानपुर  
उत्तर प्रदेश

श्री जोगराज सिंह  
पुलिस उप-अधीक्षक  
जिला बाराबंकी  
उत्तर प्रदेश

श्री पूर्ण चंद  
हैड कांस्टेबल  
आगरा  
उत्तर प्रदेश

श्री ज्ञान सिंह भदोरिया  
रिजर्व इंस्पेक्टर  
जालौन  
उत्तर प्रदेश

श्री महेन्द्र प्रताप शर्मा  
हैड कांस्टेबल  
गाजियाबाद  
उत्तर प्रदेश

श्री राम चेत यादव  
प्लाटून कमांडर  
35वीं बटालियन पी.ए.सी. लखनऊ  
उत्तर प्रदेश

श्री देव नारायण  
कांस्टेबल  
लखनऊ  
उत्तर प्रदेश

श्री भरत सिंह  
उप-निरीक्षक  
फ़ीरोज़ाबाद  
उत्तर प्रदेश

श्री निक्का राम  
कांस्टेबल  
23वीं बटालियन पी.ए.सी., मुरादाबाद  
उत्तर प्रदेश

श्री कृष्ण बहादुर सिंह  
कांस्टेबल  
लखनऊ  
उत्तर प्रदेश

श्री अचिन्तय कुमार बन्दोपाध्याय  
पुलिस उप-अधीक्षक  
सी.आई.डी.,  
पश्चिम बंगाल

श्री संत राम  
कांस्टेबल  
30वीं बटालियन पी.ए.सी., गोंडा  
उत्तर प्रदेश

श्री देबासीस दत्त  
पुलिस उप-अधीक्षक  
हुगली  
पश्चिम बंगाल

श्री ठाकुर सिंह अधिकारी  
कांस्टेबल  
27वीं बटालियन पी.ए.सी. सीतापुर  
उत्तर प्रदेश

श्री सुनील कुमार हलधर  
पुलिस निरीक्षक  
पश्चिम बंगाल

श्री भरत सिंह भंडारी  
पुलिस उप-अधीक्षक  
देहरादून  
उत्तराखंड

श्री दिलीप कुमार हजारी  
निरीक्षक (ए.वी.)  
स्टेट आर्म्ड पुलिस छठी बटालियन  
बाराकोपर  
नार्थ 24, परगना  
पश्चिम बंगाल

श्री जगन्नाथ प्रसाद जोशी  
कम्पनी कमांडर  
उद्यम सिंह नगर  
उत्तराखंड

श्री सुसान्त कुमार घोष  
पर्यवेक्षक प्रचालन-II  
पुलिस दूरसंचार मुख्यालय  
टॉलीगुंजे, कोलकाता, पश्चिम बंगाल

श्रीमती शकुंतला होतियाल  
निरीक्षक  
आसूचना मुख्यालय, देहरादून  
उत्तराखंड

श्री हुकम चंद रोका  
सहायक उप-निरीक्षक  
एस.ए.पी. 10वीं बटालियन, बेबग्राम, जलपाईगुड़ी  
पश्चिम बंगाल

श्री अनुज शर्मा  
पुलिस उप-महानिरीक्षक  
बुर्दवान रेंज चिनसुराह, हुगली  
पश्चिम बंगाल

श्री राम बहादुर गुरंग  
सशस्त्र रिजर्व सहायक उप-निरीक्षक  
डी.ए.पी. (एस.)  
पश्चिम बंगाल

श्री सुब्रत मुखर्जी  
कांस्टेबल  
हस्नाबाद पुलिस थाना  
पश्चिम बंगाल

श्री सक्ति पाडा सिद्धांता  
कांस्टेबल  
प्रवर्तन शाखा, भावानी भवन  
अलीपुर, कोलकाता-27  
पश्चिम बंगाल

श्री नेताई चन्द्र दलुई  
कांस्टेबल  
अलीपुर सदर न्यायालय  
पश्चिम बंगाल

श्री प्रशान्त कुमार दत्ता  
पुलिस चालक ग्रेड-I  
पुलिस दूरसंचार मुख्यालय  
टॉलीगुंजे, कोलकाता  
पश्चिम बंगाल

श्री प्रदीप कुमार चट्टोपाध्याय  
पुलिस उपायुक्त  
लालबाजार, कोलकाता  
पश्चिम बंगाल

श्री उपेन्द्र प्रसाद सिंह  
सहायक पुलिस आयुक्त  
बल मुख्यालय, कोलकाता  
पश्चिम बंगाल

श्री सोभन कुमार तिवारी  
पुलिस निरीक्षक  
रिजर्व बल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल

श्री एस के अब्दुरज्जाक  
पुलिस निरीक्षक  
चितपुर पुलिस थाना, एन.डी. कोलकाता  
पश्चिम बंगाल

श्री सुबिर्नाय दासगुप्ता  
पुलिस निरीक्षक  
विशेष शाखा, कोलकाता  
पश्चिम बंगाल

श्री स्वप्न कुमार बंधोपाध्याय  
उप निरीक्षक  
पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, कोलकाता  
पश्चिम बंगाल

श्री असित बरन दास  
उप-निरीक्षक  
सतर्कता आयोग, कोलकाता  
पश्चिम बंगाल

श्री राजकुमार चटर्जी  
कांस्टेबल  
सतर्कता आयोग, कोलकाता  
पश्चिम बंगाल

श्री तेजिन्दर सिंह  
सहायक उप-निरीक्षक  
एम.टी. अनुभाग  
चंडीगढ़

श्री के. दिवाकरन  
हैड कांस्टेबल  
पुलिस मुख्यालय कावारत्ती  
लक्षद्वीप

श्री पी. उन्नी  
हैड कांस्टेबल  
पुलिस मुख्यालय कावारत्ती  
लक्षद्वीप

श्री जितेन्द्र कुमार सिंह  
कमांडेंट  
25 बटालियन, छावला कैम्प, नई दिल्ली  
सीमा सुरक्षा बल

श्री थिरुवेंगादम रमन  
निरीक्षक  
पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय  
पुडुचेरी

श्री लखविन्दर सिंह बाल  
कमांडेंट  
सी.सु.ब. अकादमी, जिला ग्वालियर, म०प्र०  
सीमा सुरक्षा बल

श्री अरुमुगम सुब्रमणियन  
चालक ग्रेड-I  
एम.टी. अनुभाग  
पुडुचेरी

श्री रविन्द्र पाल सिंह मलिक  
कमांडेंट  
57 बटालियन  
दक्षिणी दीनाजपुर, पश्चिम बंगाल  
सीमा सुरक्षा बल

श्री मनोज कुमार छाबड़ा  
उप महानिरीक्षक  
एयर विंग  
सीमा सुरक्षा बल

डॉ. रिपु दमन चौहान  
कमांडेंट (चिकित्सा)  
चिकित्सीय निदेशालय, बल मुख्यालय, नई दिल्ली  
सीमा सुरक्षा बल

श्री राजेश कुमार भार्गव  
अपर उप महानिरीक्षक (जी)  
बल मुख्यालय, नई दिल्ली  
सीमा सुरक्षा बल

डॉ. अशोक कुमार दास  
कमांडेंट (चिकित्सा)  
जिला - गांधीनगर  
सीमा सुरक्षा बल

श्री रोमिन्दर प्रताप सिंह  
अपर उप महानिरीक्षक  
मुख्यालय पंजाब एफ.टी.आर., जालंधर कैट, पंजाब  
सीमा सुरक्षा बल

श्री अशोक कुमार  
कमांडेंट  
120 बटालियन, बाड़मेर, राजस्थान  
सीमा सुरक्षा बल

श्री प्रवीण राठौर  
कमांडेंट  
70 बटालियन, डाकघर रामगढ़, जिला जैसलमेर  
राजस्थान  
सीमा सुरक्षा बल

श्री श्याम लाल शर्मा  
कमांडेंट  
162 बटालियन, फ़ीरोजपुर, पंजाब  
सीमा सुरक्षा बल

श्री सुनील कपूर  
कमांडेंट  
99 बटालियन, फ़ीरोजपुर, पंजाब  
सीमा सुरक्षा बल

श्री हमीर सिंह भाटी  
सेकेन्ड-इन-कमांड  
श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर)  
सीमा सुरक्षा बल

श्री जयकृत सिंह रावत  
कमांडेंट (जी)  
बल मुख्यालय, नई दिल्ली  
सीमा सुरक्षा बल

श्री धर्मपाल टोकस  
सेकेन्ड-इन-कमांड  
138 बटालियन जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल  
सीमा सुरक्षा बल

श्री विरेन्द्र वैद  
कमांडेंट  
बल मुख्यालय, नई दिल्ली  
सीमा सुरक्षा बल

श्री टेरेन्स अश्ले गब्रियल  
उप कमांडेंट  
162 बटालियन, फ़ीरोजपुर, पंजाब  
सीमा सुरक्षा बल

श्री अनुरूद्ध अस्थाना  
कमांडेंट  
34 बटालियन, त्रिपुरा पश्चिम जिला,  
सीमा सुरक्षा बल

श्री नीलकान्त मण्डल  
उप कमांडेंट  
02 बटालियन, आलमबाजार, कोलकाता-35  
सीमा सुरक्षा बल

श्री राजेश्वर सिंह  
सेकेन्ड-इन-कमांड  
राजौरी (जम्मू एवं कश्मीर)  
सीमा सुरक्षा बल

श्री जागीर सिंह कहलौं  
उप कमांडेंट  
बल मुख्यालय, नई दिल्ली  
सीमा सुरक्षा बल

श्री चन्द्र केशव मिश्र  
सेकेन्ड-इन-कमांड  
63 बटालियन, मार्फत, 56 ए.पी.ओ.  
सीमा सुरक्षा बल

श्री राम स्वरूप जोशी  
सहायक कमांडेंट  
बल मुख्यालय, नई दिल्ली  
सीमा सुरक्षा बल

श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत  
सेकेन्ड-इन-कमांड  
मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल  
सीमा सुरक्षा बल

श्री कुन्दन सिंह रावत  
सहायक कमांडेंट  
09 बटालियन, नई दिल्ली  
सीमा सुरक्षा बल

श्री एन. एस. सतीश चन्द्र  
सहायक कमांडेंट  
बल मुख्यालय, नई दिल्ली  
सीमा सुरक्षा बल

श्री छाबी लाल थापा  
उप-निरीक्षक  
93 बटालियन करीमगंज, असम  
सीमा सुरक्षा बल

श्री केशर सिंह  
26 बटालियन, मार्फत 56 ए.पी.ओ.  
सीमा सुरक्षा बल

श्री पूरन चन्द्र पंत  
उप-निरीक्षक  
बल मुख्यालय, नई दिल्ली  
सीमा सुरक्षा बल

श्री अजीत सिंह  
निरीक्षक  
22 बटालियन त्रिपुरा (पश्चिम)  
सीमा सुरक्षा बल

श्री के. कुट्टन  
हैड कांस्टेबल  
64 बटालियन, जिला छाचर (असम)  
सीमा सुरक्षा बल

श्री कश्मीर सिंह  
निरीक्षक  
137 बटालियन, श्रीगंगानगर, राजस्थान  
सीमा सुरक्षा बल

श्री केशव सिंह  
हैड कांस्टेबल  
84 बटालियन, जैसलमेर, राजस्थान  
सीमा सुरक्षा बल

श्री सुनील मोहन  
निरीक्षक  
88 बटालियन, धुब्री जिला, असम  
सीमा सुरक्षा बल

श्री केदार नाथ शर्मा  
हैड कांस्टेबल  
59 बटालियन, त्रिपुरा पश्चिम  
सीमा सुरक्षा बल

श्री कुंछांडी बाबू  
निरीक्षक (पी.ए.)  
बल मुख्यालय, नई दिल्ली  
सीमा सुरक्षा बल

श्री धर्मू मिश्रा  
हैड कांस्टेबल  
84 बटालियन जैसलमेर, राजस्थान  
सीमा सुरक्षा बल

श्री पुथियाकुन्नेल जॉन थम्पी  
निरीक्षक (पी.ए.)  
बल मुख्यालय, नई दिल्ली  
सीमा सुरक्षा बल

श्री बास्कर विजय कुमार  
हैड कांस्टेबल  
56 बटालियन, न्यू तूरा जिला, मेघालय  
सीमा सुरक्षा बल

श्री भागीरथ सिंह  
हैड कांस्टेबल  
17 बटालियन, तूरा जिला, मेघालय  
सीमा सुरक्षा बल

श्री पूनम राम चौधरी  
हैड कांस्टेबल  
38 बटालियन तूरा, मेघालय  
सीमा सुरक्षा बल

श्री राम मेहर  
सफाई कर्मचारी  
31 बटालियन, पूर्वी खासी हिल्स, मेघालय  
सीमा सुरक्षा बल

श्री बृज मोहन  
रसोइया  
52 बटालियन, मार्फत् 56 ए.पी.ओ.  
सीमा सुरक्षा बल

श्री पुंडी मल्लाना गौड़  
पुलिस महानिरीक्षक  
एस/सेक्टर, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

डॉ. मोहम्मद साकिब  
उप महानिरीक्षक (चिकित्सा)  
सी.एच., भोपाल  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री कृष्णा मूर्ति अय्यर  
उप महानिरीक्षक  
श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर)  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री सतेन्द्र पाल सिंह  
अपर उप-महानिरीक्षक  
एम और एन सेक्टर मुख्यालय, इम्फाल (मणिपुर)  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री गुरेन्द्र जीत सिंह  
अपर उप-महानिरीक्षक  
श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर)  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री योगेन्द्र कुमार माथुर  
अपर उप-महानिरीक्षक  
जीसी, बन्तलाब  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री शैलेन्द्र कुमार  
अपर उप-महानिरीक्षक  
बल मुख्यालय, नई दिल्ली  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री दलीप सिंह  
कमांडेंट  
129 बटालियन, जम्मू  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री प्रताप राय सभरवाल  
कमांडेंट  
63 बटालियन, छत्तीसगढ़  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री बलबीर सिंह सांगवान  
कमांडेंट  
91 बटालियन, डोडा (जम्मू एवं कश्मीर)  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री अजय कुमार जैदू  
कमांडेंट  
24 बटालियन, बडगाम, श्रीनगर  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री जोगिन्दर सिंह राणा  
निरीक्षक  
20 बटालियन  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री अर्जुन सिंह झाला  
उप कमांडेंट  
135 बटालियन, गांधीनगर  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री एम. के. गोविन्दन नायर  
निरीक्षक/सीआरवाई  
तीसरी सिग्नल बटालियन  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री माया राम चाहर  
उप कमांडेंट  
172 बटालियन, श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर)  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री एम. सोमान  
निरीक्षक  
3 सिग्नल बटालियन, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री जगदीश प्रसाद पंधाल  
उप कमांडेंट  
जीसी, पुणे, महाराष्ट्र  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री सी. डी. थॉमस  
निरीक्षक/सी.आर.वाई.  
चौथा सिग्नल, नीमच (म०प्र०)  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्रीमती कृष्णा देवी  
सहायक कमांडेंट  
111 बटालियन, चंडीगढ़  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री गुरमीत सिंह  
निरीक्षक/सी.आर.वाई.  
तीसरी बटालियन, कोलकाता  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री अशोक कुमार दाश  
सहायक कमांडेंट  
4 बटालियन, स्माइलपुर जम्मू  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री बाबू लाल  
निरीक्षक  
122 बटालियन, श्रीनगर  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री शिव सिंह झाला  
सहायक कमांडेंट  
68 बटालियन, जम्मू  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री श्रीराम सिंह  
निरीक्षक  
आर.टी.सी.-V सोलन (हि०प्र०)  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल



श्री सुरेन्द्र सिंह  
निरीक्षक  
रांची (झारखंड)  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री अमर सिंह  
निरीक्षक  
105 बटालियन, कोयम्बटूर (तमिलनाडु)  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री रूमल सिंह  
उप-निरीक्षक  
26 बटालियन, बोकारो (झारखंड)  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री जय सिंह  
उप-निरीक्षक  
76 बटालियन, जम्मू  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री अजीज मोहम्मद  
उप-निरीक्षक  
163 बटालियन, श्रीनगर  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री मथुरा सिंह  
उप-निरीक्षक  
आईएसए, माऊंट आबू (राजस्थान)  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री कुन्ही रमन टी.वी.  
उप-निरीक्षक  
आरटीसी-II, आवाड़ी (तमिलनाडु)  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री महावीर सिंह  
उप-निरीक्षक  
158वीं बटालियन, श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर)  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री के. रमन कुट्टी  
उप-निरीक्षक  
30 बटालियन, बीजापुर (छत्तीसगढ़)  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री चन्द्रिका गिरि  
उप-निरीक्षक  
12 बटालियन, उचाथल (मणिपुर)  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री जगजीत सिंह  
उप-निरीक्षक  
जीसी, सिकन्दराबाद, आंध्र प्रदेश  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री सत्यनारायण राम  
हैड कांस्टेबल  
जी.सी., जालंधर (पंजाब)  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री राम सिंह  
हैड कांस्टेबल  
127 बटालियन, बवाना, नई दिल्ली  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री मोहम्मद रशीद  
हैड कांस्टेबल  
समूह केन्द्र, बन्तलाब  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री एस थंगामणि  
हैड कांस्टेबल  
सी.टी.सी.-II, कोयम्बटूर (तमिलनाडु)  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री दिलीप कुमार राय  
हैड कांस्टेबल  
आरटीसी-III, पल्लीपुरम (केरल)  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री जंगशेर सिंह  
हैड कांस्टेबल  
119 बटालियन, श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर)  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री बलीराम सिंह  
हैड कांस्टेबल  
हैदराबाद, (आंध्र प्रदेश)  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री सलाउद्दीन खान  
हैड कांस्टेबल  
45 बटालियन, मोतीहारी, बिहार  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री रूप राम  
हैड कांस्टेबल  
81 बटालियन, जम्मू  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री जमीत सिंह  
हैड कांस्टेबल  
128 बटालियन, इम्फाल, मणिपुर  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री मंजीत सिंह  
हैड कांस्टेबल  
50 बटालियन, श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर)  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री देवी प्रसाद राय  
कांस्टेबल  
21 बटालियन, पटना (बिहार)  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री नन्दू प्रसाद  
रसोइया  
जीसी-II, अजमेर (राजस्थान)  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री रमेश  
सफाई कर्मचारी  
जी.सी., ग्वालियर (म०प्र०)  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री के. प्रेमाराजन  
सूबेदार मेजर  
बल मुख्यालय, नई दिल्ली  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री चन्द्र शेखरन नायर  
सूबेदार मेजर  
बल मुख्यालय, नई दिल्ली  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री के. शशिधरन पिल्लै  
संयुक्त सहायक निदेशक  
बल मुख्यालय, नई दिल्ली  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री पारसो पाहिलाजानी  
लेखा अधिकारी  
जीसी-1 अजमेर (राजस्थान)  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री वेद प्रकाश  
सहायक कमांडेंट  
एस.एच.क्यू., शिमला  
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री सतपाल  
कमांडेंट  
एस पी टी बटालियन  
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री ज्ञान चंद  
निरीक्षक  
एसएचक्यू (बरेली)  
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस

श्री आस्टिन ऐपन  
कमांडेंट  
22 बटालियन  
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस

श्री अनिल कुमार  
अपर उप महानिरीक्षक  
एयरपोर्ट सेक्टर दिल्ली  
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री नरेन्द्र कुमार यदुवंशी  
मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
एस.एस. बटालियन  
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस

श्री देब दास साहा  
वरिष्ठ कमांडेंट  
एमपीटी गोवा  
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री राजेन्द्र प्रसाद जोशी  
कमांडेंट  
बल मुख्यालय  
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस

श्री के. चन्द्र कुमार  
कमांडेंट  
बी.टी.पी.एस. बोकारो  
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री देओ शर्मा  
उप कमांडेंट  
बल मुख्यालय, नई दिल्ली  
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस

श्री मोहम्मद यूनस खान  
सहायक कमांडेंट  
बल मुख्यालय, नई दिल्ली  
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री कृष्ण मुरारी मंगल  
सहायक कमांडेंट  
6 बटालियन, रामगढ़, हरियाणा  
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस

श्री रामसुख  
निरीक्षक  
एन.एस.सी.बी.आई.ए. कोलकाता  
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री गौतम राम मोरघड़े  
निरीक्षक  
मुम्बई एयरपोर्ट  
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री रघुनाथ सिंह  
हैड कांस्टेबल  
ओ एन जी सी नाजीरा  
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री तमल बंधोपाध्याय  
निरीक्षक  
नई दिल्ली  
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री बी शिवाशंकरा राजू  
हैड कांस्टेबल  
वी पी टी विजांग  
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री मेधापति नरसिम्हा मूर्ति  
निरीक्षक  
के.आर.टी.सी. मुण्डाली  
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री सिंधी तमिलारासन  
हैड कांस्टेबल  
के आर टी सी मुण्डली  
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री जनक सिंह  
निरीक्षक  
आर.टी.सी. बरवाहा  
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री सोबन सिंह बोरा  
हैड कांस्टेबल  
जी पी मुख्यालय मुम्बई  
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री राजेश कुमार  
निरीक्षक  
बल मुख्यालय, नई दिल्ली  
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री भूपाल राम  
कांस्टेबल  
पी टी पी एस पनकी  
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री मदन मोहन मुखोपाध्याय  
उप-निरीक्षक  
एन.ई.एस. मुख्यालय कोलकाता  
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री बलवंत सिंह  
सूबेदार  
त्रिपुरा  
असम राइफल्स

श्री रामलाल राणा  
हैड कांस्टेबल  
यूनिट आर.सी.एफ.एल. थाल  
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री पाल्ल सिंह  
सूबेदार/लिपिक  
बेटबागान, जिला-धालाई (त्रिपुरा)  
असम राइफल्स

श्री शिवराम सिंह यादव  
सूबेदार  
कंचनपुर (त्रिपुरा)  
असम राइफल्स

श्री अनिल पालटा  
उप महानिरीक्षक  
ए.सी.आर. कोलकाता  
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री बिशन दास  
सूबेदार  
जैरामपुर  
असम राइफल्स

श्री धरम चन्द जैन  
उप महानिरीक्षक  
ए सी-1/नई दिल्ली  
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री विवेकानन्द चौधरी  
अधीक्षक  
शिलांग  
असम राइफल्स

श्री सरवनसामी जगन्नाथन  
उप महानिरीक्षक  
बी.एस. एण्ड एफ सी मुम्बई  
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री बलवंत सिंह खाटी  
सूबेदार  
16 असम राइफल्स मणिपुर  
असम राइफल्स

श्री पीयूष आनंद  
उप महानिरीक्षक  
ईओIII/नई दिल्ली  
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री तरनी देब बर्मा  
सूबेदार  
16, असम राइफल्स मणिपुर  
असम राइफल्स

श्री सुब्रमोनी बाला शेषन  
पुलिस उप-अधीक्षक  
ई ओ यू-IX, नई दिल्ली  
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री भक्त बहादुर राणा  
सूबेदार  
थौबल (मणिपुर)  
असम राइफल्स

श्री शंकर भारद्वाज संकिसा  
पुलिस उप-अधीक्षक  
ए सी बी चेन्नई  
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री रामबहादुर गुरंग  
सूबेदार  
कुंजबन (अगरतला)  
असम राइफल्स

श्री नलिनी कांत पाठक  
पुलिस उप-अधीक्षक  
एम डी एम.ए., दिल्ली  
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री राजीव कुमार चड्ढा  
पलिस उप-अधीक्षक  
इण्टरपोल विंग, नई दिल्ली  
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री विजय कुमार शुक्ला  
निरीक्षक  
ई ओ यू-V, नई दिल्ली  
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री किशन सिंह नेगी  
निरीक्षक  
एस.सी.बी., दिल्ली  
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री अय्यास्वामी जोथी रामलिंगम  
निरीक्षक  
ई ओ डब्ल्यू, चेन्नई  
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री पूथियावीटिल इब्राहिम अब्दुल अजीज  
उप निरीक्षक  
ए.सी.बी. कोचीन  
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री मोहम्मद शमीउल्लाह  
सहायक उप निरीक्षक  
एसीयू-II, दिल्ली  
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री रामजी सिंह यादव  
सहायक उप निरीक्षक  
ए सी यू-I, दिल्ली  
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री बिनयानन्द झा  
उप निदेशक  
गृह मंत्रालय

श्री ए. सुनील अचाय  
उप निदेशक  
गृह मंत्रालय

श्री अमरेश पुजारी  
उप निदेशक  
गृह मंत्रालय

श्री मधुसूदन प्रसाद  
सहायक निदेशक  
गृह मंत्रालय

श्री नवल किशोर कपूर  
सहायक निदेशक  
गृह मंत्रालय

श्री दलीप कुमार राउत  
सहायक निदेशक  
गृह मंत्रालय

श्री राधा बल्लभ  
अनुभाग अधिकारी  
गृह मंत्रालय

श्री नटेरी श्रीधर  
उप केन्द्रीय आसूचना अधिकारी/टेक्निकल  
गृह मंत्रालय

श्री अजीत कुमार पाण्डेय  
उप केन्द्रीय आसूचना अधिकारी  
गृह मंत्रालय

श्री नमज्ञा शेरपा उप केन्द्रीय आसूचना अधिकारी गृह मंत्रालय	श्री नटराजन कालिदोस कनिष्ठ आसूचना अधिकारी-I/जी गृह मंत्रालय
श्री वाडाक्के वीटिल सोमशेखरन उप केन्द्रीय आसूचना अधिकारी गृह मंत्रालय	श्री मुलख राज डडवाल उच्च श्रेणी लिपिक गृह मंत्रालय
श्री सोन्टक हेन्जामंग वाइफेई उप केन्द्रीय आसूचना अधिकारी गृह मंत्रालय	श्री हरीश चन्द्र पाण्डेय उप महानिरीक्षक सशस्त्र सीमा बल
श्री गिरीश कुमार सोनी उप केन्द्रीय आसूचना अधिकारी गृह मंत्रालय	श्री शशि रंजन मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (एस जी) बल मुख्यालय, नई दिल्ली सशस्त्र सीमा बल
श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव सहायक केन्द्रीय आसूचना अधिकारी I/जी गृह मंत्रालय	श्री सागोल्लेसम येस्कूल सिंह कमांडेंट 37 वीं बटालियन मंगलदई सशस्त्र सीमा बल
श्री इशरत अली रिजवी सहायक केन्द्रीय आसूचना अधिकारी I/जी गृह मंत्रालय	श्री लाल सिंह ठाकुर सेकेण्ड इन-कमांडेंट 14 वीं बटालियन, जयनगर सशस्त्र सीमा बल
श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह सहायक केन्द्रीय आसूचना अधिकारी-I/जी गृह मंत्रालय	श्री धन सिंह सहायक कमांडेंट 11 वीं बटालियन गोरखपुर सशस्त्र सीमा बल
श्री कुन्नेल बेबी चेरियन सहायक केन्द्रीय आसूचना अधिकारी-II/जी गृह मंत्रालय	श्री समर कुमार नन्दी सहायक क्षेत्र अधिकारी (एम.ई.डी.) ए. ओ. ननपारा सशस्त्र सीमा बल
श्री गुनवंत सिंह सहायक केन्द्रीय आसूचना अधिकारी -II/जी गृह मंत्रालय	

श्री दीपक रंजन चक्रवर्ती  
अनुभाग अधिकारी  
बल मुख्यालय, नई दिल्ली  
सशस्त्र सीमा बल

श्री दीप राम  
क्षेत्र अधिकारी (आर्मीरर)  
टी.सी. सी.एस. डी एण्ड सलोनीबारी  
सशस्त्र सीमा बल

श्री बिमल कुमार मिश्रा  
उप-निरीक्षक  
30 वीं बटालियन कूच बिहार  
सशस्त्र सीमा बल

श्री राजिन्दर कुमार भूम्बला  
ग्रुप कमाण्डर  
13 एस.आर.जी., मानेसर  
राष्ट्रीय सुरक्षा गारद

श्री ए. जयचन्द्रन नायर  
सहायक कमांडर-1  
एच क्यू, डी. जी., सचिवालय  
राष्ट्रीय सुरक्षा गारद

श्री मनिधर झा  
सहायक महानिरीक्षक  
विशेष सुरक्षा दल

श्री पंकज कुमार  
सहायक महानिरीक्षक  
विशेष सुरक्षा दल

श्री बिमलेश कुमार  
वरिष्ठ सुरक्षा सहायक  
विशेष सुरक्षा दल

श्री सी एस सुरेन्द्र बाबू  
वरिष्ठ सुरक्षा सहायक  
विशेष सुरक्षा दल

श्री सुरेश प्रसाद चौधरी  
वरिष्ठ सुरक्षा सहायक  
विशेष सुरक्षा दल

श्री एम के सुदर्शन  
वरिष्ठ निजी सचिव  
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

श्री धनी राम  
अनुभाग अधिकारी  
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

श्री पूरन प्रकाश भाटिया  
अतिरिक्त सहायक निदेशक (सीआईपीएचईआर)  
मुख्यालय पुलिस बेतार (समन्वय निदेशालय)

श्री प्रेम चन्द शर्मा  
उप निदेशक  
मुख्यालय पुलिस बेतार (समन्वय निदेशालय)

श्री बिजेन्द्र सिंह  
कांस्टेबल  
राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो

श्री बी. अशोकन  
उप निरीक्षक  
सरदार बल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी



श्री बी. भास्कर रेड्डी  
हैड कांस्टेबल  
सरदार बल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी

श्री सुधीर चौधरी  
उप महानिरीक्षक  
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

श्री अनूप श्रीवास्तव  
उप महानिरीक्षक/आर.पी.एफ.  
नई दिल्ली  
रेल मंत्रालय

श्री विनोद कुमार ढाका  
मुख्य सुरक्षा आयुक्त  
कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड  
नवी मुम्बई  
रेल मंत्रालय

श्री जय नारायण मौर्य  
सहायक उप-निरीक्षक  
4 बटालियन आर पी एस एफ/एन जे पी  
रेल मंत्रालय

2. ये पुरस्कार सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक प्रदान किये जाने को शासित करने वाले नियमों के नियम 4 (ii) के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं।

बरुण मित्रा  
संयुक्त सचिव

सं. 150-प्रेज/2007--राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2007 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:--

श्री ज्ञानेन्द्र नाथ बेहेरा  
सहायक फायर ऑफिसर  
उड़ीसा

श्री भाग्यधर महापात्र  
स्टेशन ऑफिसर  
उड़ीसा

श्री देवी प्रसाद शुक्ला  
चीफ फायर ऑफिसर  
उत्तर प्रदेश

श्री शमीम  
निदेशक  
एन एफ एस सी  
गृह मंत्रालय

श्री बाबूलाल महाराजदीन यादव  
लीडिंग फायरमैन  
एन एफ एस सी  
गृह मंत्रालय

2. यह पुरस्कार विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमों के नियम 3 (ii) के तहत प्रदान किया जाता है।

बरुण मित्रा  
संयुक्त सचिव

सं. 151-प्रेज/2007--राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2007 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को सराहनीय सेवा के लिए अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:--

श्री नंजुण्डप्पा मयलावरम  
लीडिंग फायरमैन  
आन्ध्र प्रदेश

श्री मुनिरत्नम मुरथीगनुर  
फायरमैन  
आन्ध्र प्रदेश

श्री गोंस मोहमद  
फायरमैन  
आन्ध्र प्रदेश

श्री वदना बालपिचय्या  
झाईवर ऑपरेटर  
आन्ध्र प्रदेश

श्री घनश्याम चौधरी  
स्टेशन ऑफिसर  
असम

श्री करुणा चौधरी  
सब ऑफिसर  
असम

श्री गौतम भट्टाचार्य  
लीडिंग फायरमैन  
असम

श्री रामेन्द्र सिंह  
फायरमैन  
असम

श्री हफिजुद्दीन अहमद  
झाईवर  
असम

श्री वासुदेवन कुन्धुकृष्णन  
लीडिंग फायरमैन संख्या 2523  
केरल

श्री सत्यवलसलन पोन्नुनादर  
लीडिंग फायरमैन संख्या 2517  
केरल

श्री चंद्रशेखर मधुकर मोरे  
अधिक्षक  
महाराष्ट्र

श्री मोहम्मद मुनीर अलीयस युसुफ मोहम्मद गोरी-देसाई  
डिवीजनल अग्निशमन अधिकारी  
महाराष्ट्र

श्री जयवंत बंडू गोंजारी  
डिवीजनल अग्निशमन अधिकारी  
महाराष्ट्र

श्री शामराव हरीबा षिंदे  
सहायक डिवीजनल अग्निशमन अधिकारी  
महाराष्ट्र

श्री मारुती काशिनाथ सोरटे  
सब ऑफिसर  
महाराष्ट्र

श्री रविंद्र रामचंद्र महामूनकर  
लीडिंग फायरमैन  
महाराष्ट्र

श्री सदानंद लक्ष्मण भोसले  
लीडिंग फायरमैन  
महाराष्ट्र

श्री भिमराव एकनाथ पवार  
फायर इंजन ड्राईवर  
महाराष्ट्र

श्री राजेंद्र धोंडू भोसले  
फायरमैन  
महाराष्ट्र

श्री भाऊ तुकाराम शिंदे  
फायरमैन  
महाराष्ट्र

श्री थंगछवना  
सब स्टेशन ऑफिसर  
मिजोरम

श्री भाबग्राहि धडाई  
स्टेशन ऑफिसर  
उड़ीसा

श्री दुखीश्याम दास  
हवलदार मेजर  
उड़ीसा

श्री गंगाधर महान्ति (ए)  
ड्राईवर हवलदार  
उड़ीसा

श्री सुधाकर महान्ति  
ड्राईवर हवलदार  
उड़ीसा

श्री मथुरानन्द भद्रा  
लीडिंग फायरमैन  
उड़ीसा

श्री गौरांग चरण स्वाई  
फायरमैन 669  
उड़ीसा

श्री भिकारी दलाई  
फायरमैन-706  
उड़ीसा

श्री बुध्दीलाल सुब्बा  
लीडिंग फायरमैन  
सिक्किम

श्री रंगस्वामी गोविन्दराज  
सहायक डिवीजनल ऑफिसर  
तमिलनाडु

श्री परमशिवम बालासुब्रमनियम  
स्टेशन ऑफिसर  
तमिलनाडु

श्री अन्नथा पदमनभा राजामणि  
स्टेशन ऑफिसर-3005  
तमिलनाडु

श्री एस अर्जून बालारमण  
ड्राईवर मैकेनिक - 3103  
तमिलनाडु

श्री परशुरामण पंचातचरम  
लीडिंग फायरमैन-3470  
तमिलनाडु

श्री रामास्वामी वेंकटाचलम  
फायरमैन - 3516  
तमिलनाडु

श्री अचिंतय कुमार मुखोपाध्याय  
डिविजनल ऑफिसर  
पश्चिम बंगाल

श्री असीत कुमार सरकार  
मुख्य ईन्सट्रक्टर  
पश्चिम बंगाल

श्री कालीदास चक्रवर्ती  
स्टेशन ऑफिसर  
पश्चिम बंगाल

श्री चंचल कुमार सरकार  
स्टेशन ऑफिसर  
पश्चिम बंगाल

श्री कमल कान्ति सेन  
मोबिलाईजिंग ऑफिसर  
पश्चिम बंगाल

श्री दिलीप कुमार धोष  
लीडर .2666  
पश्चिम बंगाल

श्री असधर रहमान  
एफ0 ई0 ओ0 डी0  
पश्चिम बंगाल

श्री रामचन्द्र मंडल  
फायर ऑपरेटर  
पश्चिम बंगाल

श्री पतित पाबन रॉय चौधरी  
फायर ऑपरेटर  
पश्चिम बंगाल

श्री अशोक आशाराम हुड  
फायरमैन  
एन0एफ0एस0सी0  
गृह मंत्रालय

श्री पी0 हृशिकेसन  
सहायक कमांडेंट अग्नि  
सी0आई0एस0एफ0  
गृह मंत्रालय

श्री कुलदीप सिंह  
प्रधान आरक्षक अग्नि  
सी0आई0एस0एफ0  
गृह मंत्रालय

श्री के0 पी0 चंद्रन  
प्रधान आरक्षक अग्नि  
सी0आई0एस0एफ0  
गृह मंत्रालय

श्री देवेन्द्र सिंह चौहान  
स्टेशन फायर ऑफिसर बी  
डिपार्टमेंट ऑफ एटोमिक एनर्जी

2. यह पुरस्कार, सराहनीय सेवा के लिए अग्निशमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमों के नियम 3 (ii) के तहत प्रदान किया जाता है।

बरुण मित्रा  
संयुक्त सचिव

सं. 152-प्रेज/2007--राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2007 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:--

डा० एल. एस. प्रसाद  
कमांडेंट (हो.गा.)  
कर्नाटक

श्री एस.ए. वाहिद  
डिप्टी कमांडेंट (हो.गा.)  
कर्नाटक

श्री वी. पुरुषोत्तम  
डिप्टी कमांडेंट (हो.गा.)  
कर्नाटक

श्री अशोक बालप्पा वाजरे  
डिप्टी कमांडेंट (हो.गा.)  
कर्नाटक

श्री सी.आर. परमाशिवाह  
डिप्टी कमांडेंट (हो.गा.)  
कर्नाटक

श्री इरूध्यानाथन पिटचैयाह  
इंस्ट्रक्टर (हो.गा.)  
कर्नाटक

श्री राजेन्द्र सिंह खिची  
कंपनी कमांडर (हो.गा.)  
मध्य प्रदेश

श्री ए. पूर्ण चन्द्रा राव  
होम गार्ड  
आंध्र प्रदेश

श्री विनोद कुमार दूबे  
कंपनी कमांडर (हो.गा.)  
मध्य प्रदेश

श्री गंगा प्रसाद देशमुख  
प्लाटून कमांडर(हो.गा.)  
छत्तीसगढ़

श्री नाथू राम पचौरी  
कंपनी कमांडर (हो.गा.)  
मध्य प्रदेश

श्री कामता प्रसाद चौहान  
हवलदार इंस्ट्रक्टर(हो.गा.)  
छत्तीसगढ़

श्री मोती लाल रजक  
प्लाटून कमांडर (हो.गा.)  
मध्य प्रदेश

श्री लालू लक्ष्मण परमार  
सिविल डिफेंस वोलिन्टियर  
गोवा

श्री गुरशरण सिंह  
कंपनी कमांडर (हो.गा.)  
पंजाब

श्री सुरेश सानू प्रीयोलकर  
प्लाटून कमांडर(हो.गा.)  
गोवा

श्री नाथू राम बेरवाल  
बटालियन कमांडेंट (हो.गा.)  
राजस्थान

श्री अशोक दत्ताराम मंगेशकर  
प्लाटून कमांडर(हो.गा.)  
गोवा

2. यह पुरस्कार विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमों के नियम 3 (ii) के तहत प्रदान किये जाते हैं।

बरुण मित्रा  
संयुक्त सचिव

सं. 153-प्रेज/2007--राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2007 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी सराहनीय सेवा के लिए गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:--

श्री वी. नरसिम्हा राव  
कंपनी कमांडर(हो.गा.)  
आंध्र प्रदेश

श्री मदन लाल  
प्लाटून कमांडर(हो.गा.)  
हरियाणा

श्री कंवर पाल  
हवलदार इंस्ट्रक्टर(हो.गा.)  
हरियाणा

फ्लाईट लेफ. के.पी. नागेश  
कमांडेंट(हो.गा.)  
कर्नाटक

श्री बी. शिव कुमार  
कमांडेंट(हो.गा.)  
कर्नाटक

कु० फूलवती रजक  
सहायक उप-निरीक्षक(एम.)  
मध्य प्रदेश

श्री गिरिजा शंकर शेट्टी  
कमांडेंट(हो.गा.)  
कर्नाटक

श्री जय नारायण सिंह  
सहायक उप-निरीक्षक (एम.)  
मध्य प्रदेश

श्री के.एस. जयवित्तल  
सीनियर प्लाटून कमांडर(हो.गा.)  
कर्नाटक

श्री गोपाल सिंह सेंगर  
हवलदार चालक  
मध्य प्रदेश

डा० सुरेश दरवादकर  
यूनिट ऑफिसर(हो.गा.)  
कर्नाटक

श्री जंबेसवर प्रधान  
प्लाटून सरजेंट(हो.गा.)  
उड़ीसा

श्री रामचन्द्र बसप्पा दांदीनवर  
डिप्टी कमांडेंट(हो.गा.)  
कर्नाटक

श्री परशुराम मलिक  
कंपनी कमांडर(हो.गा.)  
उड़ीसा

श्री चिक्का बैकटप्पा  
इंस्ट्रक्टर(हो.गा.)  
कर्नाटक

श्रीमती सान्तिता साहू  
होम गार्ड  
उड़ीसा

श्री भानू शाह ध्रुव  
जिला कमांडेंट(हो.गा.)  
मध्य प्रदेश

श्री बिधू भूसन जेना  
सिविल डिफेंस वोलिन्टियर  
उड़ीसा

श्री नारायण सिंह यादव  
कंपनी कमांडर(हो.गा.)  
मध्य प्रदेश

श्री जया कृष्णा प्रधान  
सिविल डिफेंस वोलिन्टियर  
उड़ीसा

श्री मुकेश कुमार लशकारी  
कंपनी कमांडर(हो.गा.)  
मध्य प्रदेश

श्री चित्ता रंजन मोहंती  
सिविल डिफेंस वोलिन्टियर  
उड़ीसा

श्री गोरा हरी नंदा  
सिविल डिफेंस वोलिन्टियर  
उड़ीसा

श्री बादो राव मीणा  
प्लाटून कमांडर(हो.गा.)  
राजस्थान

श्री सुनकर शर्मा  
इंस्ट्रक्टर (सी.डी.)  
उड़ीसा

श्री अमृत लाल दहिया  
हेड कांस्टेबल(हो.गा.)  
राजस्थान

श्री फिरोज कुमार हियल  
सिविल डिफेंस वोलिन्टियर  
उड़ीसा

श्री नरेन्द्र कुमार पुरोहित  
ऑफिस सुपरिटेण्डेंट  
राजस्थान

श्री सुभेंदु पंडा  
सिविल डिफेंस वोलिन्टियर  
उड़ीसा

श्री जी. देवसेनाथीपथी  
डिविजनल कमांडर(हो.गा.)  
तमिलनाडू

श्री गुरचरण सिंह  
कंपनी कमांडर(हो.गा.)  
पंजाब

कु० आर. सरधामनी  
कंपनी कमांडर(हो.गा.)  
तमिलनाडू

श्री रविन्दर सिंह राणावत  
कंपनी कमांडर(हो.गा.)  
राजस्थान

श्री जी. एस. तेवरजी  
कंपनी कमांडर(हो.गा.)  
तमिलनाडू

कु० मातेशवरी आर्य  
डिप्टी कंट्रोलर (सी.डी.)  
राजस्थान

श्री एम. सेल वेक्कानू  
प्लाटून कमांडर(हो.गा.)  
तमिलनाडू

श्री रज्जक अली  
कंपनी कमांडर(हो.गा.)  
राजस्थान

श्री पी. वालासुब्रह्मनियन  
सहायक प्लाटून कमांडर(हो.गा.)  
तमिलनाडू

श्री तिलोक राम  
प्लाटून कमांडर(हो.गा.)  
राजस्थान

श्री ए. सेन्थामिज पांडियन  
सहायक प्लाटून कमांडर(हो.गा.)  
तमिलनाडू

श्री सी. गोपाल  
सहायक प्लाटून कमांडर(हो.गा.)  
तमिलनाडू

श्री रति रंजन राय  
होम गार्ड  
त्रिपुरा

श्री बिप्लब चौधरी  
सीनियर सिविल डिफेंस इंस्ट्रक्टर  
रेलवे

श्री नारायण दास गुरनानी  
इंचार्ज सिविल डिफेंस  
रेलवे

2. यह पुरस्कार, सहायनीय सेवा के लिए गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमों के नियम 3 (ii) के तहत प्रदान किये जाते हैं।

बरुण मित्रा  
संयुक्त सचिव

सं. 154-प्रेज/2007--राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2007 के अवसर पर निम्नलिखित जेल कार्मिकों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान करते हैं:--

श्री टी कुमारसामी  
उप महानिरीक्षक जेल  
जेल मुख्यालय, चेन्नई  
तमिलनाडु

श्रीमती पी.राजसौंदर्य  
अधीक्षक  
विशेष महिला जेल, वेल्लौर  
तमिलनाडु

2. ये पदक विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान किए जाने को शासित करने वाले नियमों के नियम 4 के तहत प्रदान किये जाते हैं।

बरुण मित्रा  
संयुक्त सचिव

सं. 155-प्रेज/2007--राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2007 के अवसर पर निम्नलिखित जेल कार्मिकों को सहायनीय सेवा के लिए सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान करते हैं:--

श्री शरीफ मोहम्मद  
हैड वार्डर  
केन्द्रीय जेल, चेरापल्ली  
आंध्र प्रदेश

श्री जे. कृष्णा राव  
वार्डर  
उप जेल, गन्नावरम्  
आंध्र प्रदेश

श्री प्रकाश चंद शर्मा  
हैड वार्डर  
केन्द्रीय जेल नं० 2, तिहाड़  
नई दिल्ली

श्री एम.ए. मारीगौडा  
जेलर  
तालुक उप-जेल; नानाजंगुड  
कर्नाटक

श्री जी. शंकरनारायण  
अधीक्षक  
केन्द्रीय जेल, अपर महानिदेशक जेल का कार्यालय  
बंगलौर, कर्नाटक

श्री जोसफ थॉमस  
उप महानिरीक्षक  
जेल, नार्थ जोन  
केरल

श्री राधेश्याम विजयवर्गीया  
उप महानिरीक्षक  
जेल (विधि), भोपाल  
मध्य प्रदेश

श्री रविन्द्र नाथ स्वैन  
जेलर  
सर्कल जेल, बारीपाड़ा  
उड़ीसा

श्री धर्मपाद धीर  
सहायक जेलर  
जिला जेल, बालासोर  
उड़ीसा



श्री टी. मोहनम  
ग्रेड II वार्डर  
उप-जेल, वंदावासी  
तमिलनाडु

श्री शरद  
वरिष्ठ अधीक्षक  
महानिदेशक जेल का कार्यालय, लखनऊ,  
उ०प्र०

श्री के. अशोकन  
ग्रेड II वार्डर  
केन्द्रीय जेल, सलेम  
तमिलनाडु

श्री जंग बहादुर पांडे  
उप महानिरीक्षक जेल  
लखनऊ रेंज  
उ०प्र०

श्री ए चिन्नासामी  
ग्रेड II वार्डर  
केन्द्रीय जेल, सलेम  
तमिलनाडु

2. ये पदक सराहनीय सेवा के लिए सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान किए जाने को शासित करने वाले नियमों के नियम 4 (iii) के तहत प्रदान किये जाते हैं।

बरुण मित्रा  
संयुक्त सचिव

सं. 156- प्रेज./2007- राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2007 के अवसर पर निम्नलिखित जेल कार्मिकों को शौर्य के लिए सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान करते हैं :

1. श्री अंबरीश गौड़, वरिष्ठ अधीक्षक, जिला जेल आगरा, उत्तर प्रदेश।
2. श्री सतेन्द्र सिंह, उप जेलर, जिला जेल आगरा, उत्तर प्रदेश।
3. श्री सिक्के हसन जाफरी, रिजर्व हैड वार्डर, आगरा, उत्तर प्रदेश।

#### सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया है:

प्रधान सचिव (जेल), उत्तर प्रदेश के निदेश पर, जिला जेल, मेरठ में तलाशी अभियान शुरू करने के लिए जेल उप महानिरीक्षक, आगरा की अध्यक्षता में एक कार्य बल गठित किया गया था। उपर्युक्त सभी अधिकारी इस कार्यबल के सदस्य थे। दिनांक 30-03-2007 को कार्य बल द्वारा जिला जेल, मेरठ में एक तलाशी अभियान चलाया गया और अनेक निषिद्ध वस्तुएं जैसे मोबाइल फोन, चाकू, देशी पिस्तौलें, नकदी आदि बरामद की गई। जब तलाशी अभियान चल रहा था, तब लगभग 1500 कैदी अपने बैरकों में से बाहर आ गए और कार्य बल के सदस्यों पर हमला कर उनको घायल कर दिया। चोटें लगने के बावजूद, उपर्युक्त सभी अधिकारियों ने अनुकरणीय साहस दिखाते हुए न केवल एल पी जी सिलिंडर, जिसे कैदी जेल की रसोई से लाए थे, से जेल के गेट को उड़ाने के कैदियों के प्रयास को विफल कर दिया, बल्कि उन्होंने कैदियों को अपने बैरकों में लौटने के लिए भी मजबूर कर दिया और सामान्य स्थिति बहाल करने में जिला प्रशासन की मदद की।

इस प्रकार उपर्युक्त सभी अधिकारियों ने अनुकरणीय वीरता, साहस और कर्तव्यपरायणता का प्रदर्शन किया है।

यह पदक विशिष्ट सेवा/शौर्य के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान किये

जाने को शासित करने वाले नियमों के नियम 4 (iv) के अंतर्गत प्रदान किया जाता है और इसके साथ दिनांक 30 मार्च, 2007 से नियम 4(क) के तहत यथा अनुमेय विशेष भत्ता भी दिया जाता है।

बरुण मित्रा  
संयुक्त सचिव

संख्या 157-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं—

श्री दादासाहब लक्ष्मण काले (मरणोपरांत)  
फायरमैन  
महाराष्ट्र

01.02.2006 को लगभग 1430 बजे महालक्ष्मी चॉल द्वारका सर्किल नासिक की झुग्गी झोंपड़ी में भयंकर आग लगी। झुग्गी झोंपड़ी अस्थाई बनावट की होती है जिसमें आग जल्दी पकड़ती है। जब तक आग बुझाने का दस्ता धटना स्थल पर पहुंचा तब तक आग पकड़ से बाहर हो चुकी थी। मुख्यालय से वाटर टेंडर वहाँ पहुंचे हुये थे परंतु आग बुझाने में और मदद की जरूरत हुई। फायरमैन श्री दादासाहब लक्ष्मण काले दूसरी गाड़ी के साथ धटनास्थल पर पहुंचे तब तक आग अपना विकराल रूप ले चुकी थी और चारों तरफ बढ़ रही थी। श्री दादासाहब लक्ष्मण काले तुरन्त अस्थाई ढाँचे की बनी टीन की छत पर चढ़ गये और आग बुझाने के लिए पानी फेंकना शुरू किया।

जब वह इस कार्य में व्यस्त थे तभी अस्थाई ढाँचा गिर गया और श्री काले ऊपर से नीचे गिर पड़े जिसकी वजह से उनके पैर में काफी चोट लगी और काफी मात्रा में खून बहने लगा। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुँचाया गया जहाँ उनकी मृत्यु हो गयी।

इस प्रकार श्री दादासाहब लक्ष्मण काले, फायरमैन ने उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, व्यावसायिक कुशलता और उच्च कोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया और अपने कर्तव्य के दौरान मृत्यु को प्राप्त हो गए।

यह पुरस्कार वीरता के लिए राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमों के नियम 3(i) के तहत प्रदान किया जाता है और परिणामतः नियम 5 (क) के तहत अनुमेय विशेष भत्ता 01.02.2006 से इसके साथ देय होगा।

बरुण मित्रा  
संयुक्त सचिव

संख्या 158-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं—

श्री सरवर गुलाम मोहम्मद  
सीनियर फायर ऑफिसर  
भिलाई स्टील प्लांट  
इस्पात मंत्रालय

21.11.2006 को लगभग 1704 बजे खुर्सीपार रेलवे गेट के पास 65000 लीटर क्षमता वाले कैरोसिन तेल के टैंकर में आग लगी। इस तरह के 40 टैंकर वहाँ पर आपस में जुड़े हुए थे जिसमें डीजल और कैरोसीन तेल था। सूचना प्राप्त होने पर श्री सरवर गुलाम मोहम्मद, सीनियर फायर ऑफिसर अपने दल के साथ धटनास्थल पर पहुँचे और देखा कि कैरोसीन तेल के टैंकर से आग 33000 हजार वोल्ट वाली विद्युत की तार को लगभग छु रही थी। दमकल की गाड़ियों को धटनास्थल तक पहुँचना नामुमकिन था क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई कच्चा और पक्का रास्ता नहीं था। श्री सरवर गुलाम मोहम्मद ने अपनी जान की परवाह न करते हुए बिना समय नष्ट करते हुए तत्काल ही टैंकर की छत पर पहुँच कर ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्युसर और एड-प्रो मशीन की मदद से आग पर काबू किया। यदि आग पर काबू नहीं किया जाता तो बहुत ही जान-माल और राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुँच सकता था।

इस प्रकार श्री सरवर गुलाम मोहम्मद, सीनियर फायर ऑफिसर ने उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, नेतृत्व, व्यावसायिक कुशलता और उच्च कोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार वीरता के लिए राष्ट्रपति के अग्नि शमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमों के नियम 3(i) के तहत प्रदान किया जाता है और परिणामतः नियम 5 (क) के तहत अनुमेय विषेष भत्ता दिनांक 21.11.2006 से इसके साथ देय होगा।

बरुण मित्रा  
संयुक्त सचिव

संख्या 159-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, उड़ीसा अग्निशमन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं—

श्री रबिन्द्र कुमार स्वाई  
स्टेशन ऑफिसर

श्री अशोक कुमार स्वाई  
फायरमैन-876

श्री विरंची कुमार मोहंती  
फायरमैन-275

दिनांक 26.02.2006 को लगभग 1315 बजे बाधटोंगी गॉव में आग लगने की सूचना खूर्दा दमकल केन्द्र में प्राप्त हुई। तुरंत ही दो दमकल वाहन श्री रबिन्द्र कुमार स्वाई स्टेशन ऑफिसर के नेतृत्व में घटना स्थल पर पहुँचे।

वहाँ पहुँचने पर अग्निशमन दल ने तुरंत ही आग बझाने का काम शुरू किया। श्री रबिन्द्र कुमार स्वाई, स्टेशन ऑफिसर ने आग बुझाते समय एक महिला को जलते हुए मकान में फंसा हुआ देखा। श्री स्वाई अपनी जान की परवाह न करते हुए तथा बिना अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए तत्काल ही जलते हुए मकान में घुस गए तथा आग में फंसी हुई महिला को सही सलामत बाहर ले आए। अग्निशमन दल को उसी महिला से सूचना मिली की इंदिरा आवास योजना के घर में जार जवान लड़कियाँ जलते मकान में फंसी हुई हैं। तुरंत ही फायरमैन-867 श्री अशोक कुमार स्वाई तथा फायरमैन श्री विरंची कुमार मोहंती वहाँ पहुँचे और अपने जान की परवाह न करते हुए बिना अग्नि सूट पहने तत्काल ही जलते हुए मकान में प्रवेश कर गए तथा फंसी हुई चारों लड़कियों को सही सलामत बाहर ले आए।

इस प्रकार श्री रबिन्द्र कुमार स्वाई, स्टेशन ऑफिसर, फायरमैन-876, श्री अशोक कुमार स्वाई तथा फायरमैन-275, श्री विरंची कुमार मोहंती ने उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, नेतृत्व, व्यावसायिक कुशलता और उच्च कोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार वीरता के लिए अग्नि शमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमों के नियम 3(i) के तहत प्रदान किया जाता है और परिणामतः नियम 5(क) के तहत अनुमेय विशेष भत्ता दिनांक 26.02.2006 से इसके साथ देय होगा।

बरुण मित्रा  
संयुक्त सचिव

## विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 मई 2007

संकल्प

सं. क्यू/हिंदी/621/89/2006--

विदेश मंत्रालय से संबंधित विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित पुरस्कार योजना एतद्वारा जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित की जाती है।

## 1. योजना का नाम

इस योजना का नाम "कौटिल्य पुरस्कार" योजना होगा।

## 2. योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य विदेश मंत्रालय से संबंधित विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लिखने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस प्रयोजन के लिए विदेश मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में आने वाले विषयों की सांकेतिक सूची अनुबंध-1 में दी गई है।

## 3. योजना अवधि

किसी वर्ष विशेष के लिए घोषित किए जाने वाले पुरस्कारों के लिए पूर्ववर्ती 3 वर्षों के दौरान प्रकाशित पुस्तकों अथवा पांडुलिपियों पर विचार किया जाएगा।

## 4. पुरस्कार का विवरण

इस योजना के अन्तर्गत पुरस्कारों के विवरण निम्नानुसार होंगे:-

- |     |                                |   |          |                           |
|-----|--------------------------------|---|----------|---------------------------|
| (क) | सर्वश्रेष्ठ चयनित लेखक         | : | 51,000/- | रुपए नकद और प्रशस्ति पत्र |
| (ख) | द्वितीय सर्वश्रेष्ठ चयनित लेखक | : | 31,000/. | रुपए नकद और प्रशस्ति पत्र |
| (ग) | तृतीय सर्वश्रेष्ठ चयनित लेखक   | : | 21,000/. | रुपए नकद और प्रशस्ति पत्र |

(घ) सांत्वना पुरस्कार (तीन) : 11,000/- प्रति पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र

## 5. पुरस्कार प्रायोजक

विदेश मंत्रालय इन पुरस्कारों को प्रायोजित करेगा तथा वित्तीय दायित्व वहन करेगा।

## 6. पात्रता

- (i) इस योजना में भारत सरकार/राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों सहित प्रत्येक भारतीय नागरिक भाग लेने के पात्र होंगे। इस योजना में मूल्यांकन समिति और पुरस्कार समिति के सदस्यों को छोड़कर विदेश मंत्रालय के सभी अधिकारी/कर्मचारी भी भाग लेने के पात्र होंगे।
- (ii) इस योजना के तहत विदेश मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में आने वाले विषयों पर लिखी पुस्तकें/पांडुलिपियां ही स्वीकार की जाएंगी। कथा साहित्य पुस्तकें इस योजना के तहत पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होंगी।
- (iii) पुस्तक/पांडुलिपि (सिंगल स्पेस में टंकित) का मुख्य भाग अनुबंधों, परिशिष्टों, अन्य संलग्नकों को छोड़कर, कम से कम 100 पृष्ठ (लगभग 30,000 शब्दों) का होना चाहिए।
- (iv) किसी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा शासकीय हैसियत या शासकीय कामकाज के रूप में लिखी कोई पुस्तक पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होगी।
- (v) केंद्र सरकार/राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासनों अथवा केंद्र सरकार/राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासनों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्तशासी निकायों की वित्तीय सहायता से लिखी गई अथवा प्रकाशित पुस्तकें पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होगी।
- (vi) इस योजना में पुरस्कार के लिए केवल मौलिक पुस्तकों पर विचार किया जाएगा और अनूदित रचना पर विचार नहीं किया जाएगा।

## 7. प्रविष्टियां भेजने की प्रक्रिया

- (i) लेखक/लेखिका को विधिवत भरा हुआ प्रविष्टि फार्म (अनुबंध-II के रूप में संलग्न) भेजना होगा।

- (ii) लेखक/ लेखिका को अपनी प्रविष्टि फार्म के साथ पांडुलिपि/ पुस्तक की पांच प्रतियों के साथ - साथ पांच प्रतियों में इसका संक्षिप्त सार भी भेजना होगा ।
- (iii) इस योजना के तहत प्राप्त पांडुलिपियां/ पुस्तकें लौटाई नहीं जाएंगी।
- (iv) कोई भी लेखक/ लेखिका इस योजना की अवधि विशेष की योजना के लिए एक ही प्रविष्टि भेज सकता/ सकती है ।
- (v) प्रविष्टि, विज्ञापन में उल्लिखित अंतिम तारीख को या उससे पहले इस विभाग में पहुंचानी चाहिए ।

## 8. मूल्यांकन समिति

(क) इस योजना के अंतर्गत प्राप्त पुस्तकों/पाण्डुलिपियों की जांच करने और पुरस्कारों की सिफारिश करने के लिए एक मूल्यांकन समिति गठित की जाएगी जिसमें तीन ऐसे गैर सरकारी सदस्यों को सहयोजित किया जाएगा जिनकी हिंदी भाषा और साहित्य में विशेषज्ञता हो ।

(ख) इस योजना के अधीन प्राप्त प्रविष्टियां मूल्यांकन समिति के सदस्यों को भेजी जाएंगी जो अपनी टिप्पणियाँ और विचार एक माह के भीतर मंत्रालय को भेजेंगे । मूल्यांकन समिति से प्राप्त सिफारिशों पर विचार करने के बाद मंत्रालय की पुरस्कार समिति द्वारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा सात्वना पुरस्कारों का निर्णय लिया जायेगा।

(ग) मूल्यांकन समिति के गैर सरकारी सदस्य, मूल्यांकन कार्य के लिए 5000/-रुपए प्रति सदस्य की दर से मानदेय के हकदार होंगे । इस संबंध में यदि कोई बैठक आयोजित करनी आवश्यक हुई तो ये सदस्य, नियमों के अंतर्गत अन्य स्वीकार्य भत्तों के भी हकदार होंगे ।

## 9. पुरस्कार समिति

मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर निर्णय लिए जाने के लिए पुरस्कार समिति गठित की जाएगी जिसमें तीन सरकारी सदस्य होंगे।

## 10. सामान्य शर्तें एवं नियम

योजना के प्रतिभागियों को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा और वे इनसे शासित होंगे :-

- (1) रोजगार समाचार (हिंदी संस्करण) सहित प्रमुख समाचार पत्रों/ पत्रिकाओं में विज्ञापन देकर लेखकों से प्रविष्टियां आमंत्रित की जाएंगी ।
- (2) इस योजना के अधीन निर्धारित योजना अवधि के दौरान लिखी/ प्रकाशित पुस्तकें और टंकित पांडुलिपियां ही विचारार्थ स्वीकार की जाएंगी ।
- (3) यह मंत्रालय पुस्तकों/पांडुलिपियों के डाक में खो जाने अथवा देर से प्राप्त होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा ।
- (4) नियत तारीख के बाद प्राप्त पुस्तकों/ पांडुलिपियों पर विचार नहीं किया जाएगा ।
- (5) लेखक/ लेखकों को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि यह पुस्तक उसकी / उनकी मौलिक रचना है और कॉपीराइट अधिनियम (समय-समय पर यथा संशोधित), 1997 के तहत किसी अन्य लेखक के कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं करती है । पुरस्कार प्राप्त होने के बाद भी पुस्तकों/ पांडुलिपियों पर लेखकों का कॉपीराइट अधिकार बना रहेगा ।
- (6) प्रविष्टि किसी अन्य भाषा में पहले लिखी या प्रकाशित पुस्तक का उसी लेखक द्वारा हिंदी अनुवाद नहीं होना चाहिए ।
- (7) ऐसी पुस्तक/ पाण्डुलिपि, जिसे पहले सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, पर विचार नहीं किया जाएगा ।
- (8) यदि पुस्तक/पांडुलिपि के एक से अधिक लेखक हैं तो पुरस्कार उनमें बराबर बाँट दिया जाएगा।
- (9) पुरस्कार के लिए किसी पुस्तक/पांडुलिपि को चुने जाने के बारे में कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा ।
- (10) पुरस्कार एक समारोह अथवा किसी उपयुक्त अवसर पर प्रदान किए जाएंगे जिसके बारे में पुरस्कार विजेताओं को विदेश मंत्रालय द्वारा सूचित किया जाएगा ।
- (11) दिल्ली से बाहर के पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार वितरण समारोह में भाग लेने के लिए आने जाने का निकटतम रेलवे स्टेशन से रेल का द्वितीय श्रेणी अथवा बस, जैसा भी मामला हो, का किराया दिया जाएगा ।
- (12) विदेश मंत्रालय को पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के चयन और इसकी चयन प्रक्रिया के संबंध में अनन्य अधिकार होगा ।
- (13) एक बार भेजी गई प्रविष्टि यदि किसी अन्य वर्ष के लिए दुबारा भेजी जाती है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा ।
- (14) पुरस्कार समिति का निर्णय अंतिम होगा और समिति के इस निर्णय के विरुद्ध किसी प्राधिकारी से कोई अनुरोध या अपील नहीं की जा सकेगी ।
- (15) यदि अपर्याप्त संख्या में प्रविष्टियां प्राप्त होती हैं, तो मंत्रालय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी प्रविष्टि को पुरस्कार के लिए नहीं चुने; इस संबंध में मंत्रालय का निर्णय अंतिम होगा।



### आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन साधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

वी.पी. हरन  
संयुक्त सचिव

**अनुबंध I****विदेश मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में आने वाले विषयों की  
सांकेतिक सूची**

1. भारत का सांस्कृतिक राजनय
2. भारत की मध्यपूर्व नीति
3. गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता
4. एक ध्रुवीय विश्व में भारत की भूमिका
5. ग्लोबल विलेज की संकल्पना
6. धार्मिक कट्टरवाद और आधुनिक विश्व
7. भारत की पारंपरिक विदेश नीति
8. भारत के पड़ोसी देश
9. दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत
10. पूर्वी एशिया
11. यूरेशिया
12. खाड़ी, पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका
13. अफ्रीका
14. यूरोप
15. अमरीका
16. संयुक्त राष्ट्र एवं अंतरराष्ट्रीय संगठन
17. बहुपक्षीय आर्थिक संबंध
18. विदेश प्रचार

**अनुबंध II**

विदेश मंत्रालय से संबंधित विषयों पर हिंदी में मौखिक पुस्तक लेखन  
के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार योजना ।

**प्रविष्टि प्रपत्र**

1. लेखक/लेखकों का पूरा नाम : .....
2. पिता/पति का नाम : .....
3. वर्तमान डाक पता : .....
4. पुस्तक/पांडुलिपि का शीर्षक : .....
5. प्रकाशित पुस्तक का प्रकाशन वर्ष
6. क्या आपने संलग्न घोषणा प्रपत्र पर विधिवत हस्ताक्षर किए हैं ?
7. क्या पुस्तक/टंकित पांडुलिपि की पांच प्रतियां संलग्न हैं?  
(भेजी गई प्रतियां लौटाई नहीं जाएंगी)
8. क्या पुस्तक/पांडुलिपि का सारांश संलग्न है ?
9. मैं/और हम प्रमाणित करता हूँ/ करते हैं कि
  - i) मैं/ हम भारतीय नागरिक हूँ/हैं ।
  - ii) यह पुस्तक मैंने/हमने मूल रूप से हिन्दी में लिखी है ।
  - iii) इस योजना में मेरी/या हमारी पुस्तक को शामिल करने से किसी अन्य व्यक्ति के कॉपी राइट अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है ।

मैं/हम विदेश मंत्रालय से संबंधित विषयों पर हिंदी में मूल पुस्तकें लिखने की योजना के प्रावधानों और विनियमनों का पालन करने की प्रतिज्ञा करता हूँ/करते हैं ।

हस्ताक्षर : .....

नाम : .....

पता : .....

स्थान:

दिनांक:

- टिप्पणी: 1) इस प्रपत्र को विधिवत भरकर पुस्तक/पांडुलिपि की पांच प्रतियों के साथ परिपत्र/विज्ञापन में दिए गए पते पर भेजें ।
- 2) लेखक/लेखिका द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित पुस्तक का सार भी पांच प्रतियों में संलग्न किया जाए।

## मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 सितम्बर 2007

सं. एफ. 9-33/2002-यू. 3--

जबकि केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर उच्चतर शिक्षण की किसी संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने का अधिकार प्राप्त है;

2. और जबकि शिक्षा ओ अनुसंधान, भुवनेश्वर, जिसके तहत 5 संघटक संस्थाएं हैं, को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत इस मंत्रालय की दिनांक 17 जुलाई, 2007 की समसंख्यक अधिसूचना द्वारा सम विश्वविद्यालय घोषित किया गया था और यह दर्जा उस तारीख से प्रभावी था जिस तारीख से निम्नलिखित संस्थाएं खुद को सम्बद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों अर्थात् बीजू पटनायक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राऊरकेला और उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर से असम्बद्ध कर लेगी और इन संस्थाओं की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति द्वारा 2 वर्ष के बाद समीक्षा की जाएगी :

- (i) तकनीकी शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान
- (ii) व्यवसाय तथा संगणक अध्ययन संस्थान
- (iii) होटल प्रबंधन स्कूल
- (iv) दंतचिकित्सा विज्ञान संस्थान
- (v) एस यू एम नर्सिंग कालेज

3. अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर एतद्वारा फार्मास्यूटीकल विज्ञान स्कूल, भुवनेश्वर को उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ शिक्षा ओ अनुसंधान, भुवनेश्वर की संघटक इकाई के रूप में घोषित करती है और यह उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख से उक्त संस्था खुद को सम्बद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों अर्थात् बीजू पटनायक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राऊरकेला और उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर से असम्बद्ध कर लेगी और इस संस्था की शिक्षा ओ अनुसंधान, भुवनेश्वर तथा इसकी 5 अन्य संघटक इकाईयों के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति द्वारा 2 वर्ष के बाद समीक्षा की जाएगी।

4 उपरोक्त पैरा 4 में की गई घोषणा इस मंत्रालय की दिनांक 17 जुलाई, 2007 की समसंख्यक अधिसूचना के पृष्ठांकन की क्रम संख्या 7 तथा इस अधिसूचना के पृष्ठांकन में उल्लिखित क्रम संख्या 6 की शर्तों के भी अधीन है।

5 मानव संसाधन विकास मंत्रालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षा ओ अनुसंधान अथवा इसकी संघटक शिक्षण इकाईयों को कोई योजनागत अथवा योजनेतर अनुदान नहीं देंगे।

सुनिल कुमार  
संयुक्त सचिव

#### युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 सितम्बर 2007

#### संकल्प

सं. ई. 11015/3/2007-हिं.ए.--भारत सरकार ने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के दिनांक 17 अगस्त, 2007 के संकल्प सं. 11015/3/2005 हिं.ए. में आंशिक संशोधन करते हुए, श्रीमती सावित्री शर्मा, 358/1, जे, सावित्री गली, मंडावली, फजलपुर दिल्ली-110092 को स्व. श्री कमलेश्वर के निधन हो जाने के कारण, गैर सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत करने का निर्णय लिया है।

शैलेश  
संयुक्त सचिव

## PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi-110 001, the 15th August 2007

No. 148-Pres/2007.—The President is pleased on the the occasion of the Independence Day, 2007 to award the President's Police Medal for Distinguished Service to the undermentioned officers :—

Shri K. R. Nandan  
Additional Director General of Police  
Hyderabad  
Andhra Pradesh

Shri A. K. Khan  
Director General, Fire Service  
Hyderabad  
Andhra Pradesh

Shri Jasti Venkata Ramudu  
Additional Director General of Police  
Hyderabad  
Andhra Pradesh

Shri Adharapurapu Ram Kishan Rao  
Deputy Superintendent of Police  
Anti-Corruption Bureau, Hyderabad  
Andhra Pradesh

Shri Rajkumar Rajendra Singh  
Deputy Superintendent of Police  
Police Headquarter  
Arunachal Pradesh

Shri Amrik Singh Nimbran  
Inspector General of Police  
Railways, Patna  
Bihar

Shri Suresh Kumar Bhardwaj  
Inspector General of Police  
Patna  
Bihar

Shri Giridhari Nayak  
Inspector General of Police  
CAF  
Chhattisgarh

Shri Pradeep Narayan Tiwari  
Deputy Inspector General of Police  
Police Headquarters, Raipur  
Chhattisgarh

Shri V. Renganathan  
Deputy Commissioner of Police  
Delhi

Shri Brijinder Singh Brar  
Director General of Police  
Panaji  
Goa

Shri P P Pande  
Inspector General of Police  
Vadodara  
Gujarat

Shri Gopal Bhimrao Hosur  
Joint Commissioner of Police  
Bangalore City  
Karnataka

Shri Sampath Thattai Ramesh  
Addl. DGP & Inspector General of Prisons  
Bangalore  
Karnataka

Shri Jeevan Kumar Venkatrao Gaonkar  
Inspector General of Police  
Karnataka

Shri K S Balasubramanian  
Additional Director General of Police  
Vigilance & Anti Corruption Bureau  
Thiruvananthapuram  
Kerala

Shri Rishi Kumar Shukla  
Inspector General of Police  
SBIEO, Bhopal  
Madhya Pradesh

Shri Anil Purushottam Dhere  
Commissioner & Additional Director General  
of Police  
SID, M. S. Mumbai  
Maharashtra

Shri Satish Khemchand Mathur  
Joint Commissioner of Police  
Traffic BR, Mumbai  
Maharashtra

Shri Sudhir Ganpat Dabhade  
Additional Superintendent of Police  
Khamgaon, Buldhana  
Maharashtra

Shri Y Joykumar Singh  
Director General of Police  
Imphal  
Manipur

Shri Sadasiba Rath  
Additional Superintendent of Police  
Vigilance Directorate, Cuttack  
Orissa

Shri Nagendra Prasad Nayak  
Inspector of Police  
Town PS, Bolangir  
Orissa

Shri Shashi Kant  
Additional Director General of Police  
Chandigarh  
Punjab

Shri Jagdish Singh Kahlon  
Superintendent of Police  
Ferozpur  
Punjab

Shri Kanhaiya Lal Bairwa  
Additional Director General of Police  
Jaipur  
Rajasthan

Shri Jaswant Sampatram  
Additional Director General of Police  
Anti Corruption Bureau, Jaipur  
Rajasthan

Shri Umesh Joshi  
Deputy Inspector General of Police  
Anti Corruption Bureau  
Rajasthan

Dr. Mahboob Alam  
Inspector General of Police  
Tamil Nadu

Shri Himmat Singh  
Inspector General of Police  
Lucknow  
Uttar Pradesh

Shri Raghvendra Singh  
Deputy Superintendent of Police  
Distt. Kanpur City  
Uttar Pradesh

Shri Karunakar Rao  
Deputy Superintendent of Police  
Distt. Siddharth Nagar  
Uttar Pradesh

Shri Surendra Singh Negi  
Commandant  
48 BN PAC Haridwar  
Uttarakhand

Shri Vemmelil Varkey Thambi  
Additional Director General of Police  
Pollution Control Board, Kolkata  
West Bengal

Shri Paramjit Singh Dhillon  
Deputy Inspector General  
FHQ Delhi  
Border Security Force

Shri Ravindra Singh Panwar  
Deputy Inspector General  
FHQ, New Delhi  
Border Security Force

Shri Y Y Handral  
Deputy Inspector General  
SHQ Srinagar, (J & K)  
Border Security Force

Shri Chander Mohan Bakshi  
Deputy Inspector General  
Talegaon, Pune  
Central Reserve Police Force

Shri Subhas Goswami  
Inspector General of Police  
E/S Salt Lake Kolkata (WB)  
Central Reserve Police Force

Shri Syed Sirajuddin Ali Khan  
Additional Deputy Inspector General  
Hyderabad (AP)  
Central Reserve Police Force

Shri Sukhdev Singh Cheema  
Subedar Major  
20 BN, Kathura, Jammu  
Central Reserve Police Force

Shri Dharamveer Singh Yadav  
Additional Deputy Inspector General  
FHQ, New Delhi  
Indo-Tibet Border Police

Shri Nand Lal  
Additional Deputy Inspector General  
FHQ, New Delhi  
Indo-Tibet Border Police

Shri Anurag Sharma  
Inspector General & Director  
NISA Hyderabad  
Central Industrial Security Force

Shri Sudhir Pratap Singh  
Inspector General  
North Sector, New Delhi  
Central Industrial Security Force

Shri E. Narayanan  
Superintendent of Police  
BS & FC Mumbai

Shri Rajani Ranjan Sahay  
Superintendent of Police  
SCR-II/New Delhi  
Central Bureau of Investigation

Shri Thomas John  
Additional Superintendent of Police  
BS&FC Bangalore  
Central Bureau of Investigation

Shri Chattar Singh Paarcha  
Joint Director  
Ministry of Home Affairs

Shri Nand Kishore Das  
Assistant Director  
Ministry of Home Affairs

Shri Srinivasan Ramadoss  
Assistant Director  
Ministry of Home Affairs

Shri Daljit Singh Bindra  
Assistant Director  
Ministry of Home Affairs

Shri Ashok Kumar Braroo  
Deputy Central Intelligence Officer  
Ministry of Home Affairs

Shri Avtar Singh  
Deputy Central Intelligence Officer  
Ministry of Home Affairs

Shri Satya Narain Sharma  
Deputy Central Intelligence Officer  
Ministry of Home Affairs

Shri Partap Singh Thakur  
Assistant Commandant  
24th BN Gangtok  
Sashastra Seema Bal

Shri Prabhu Saran Singh  
Sub-Inspector  
6BN/RPSF  
Ministry of Railways

2. These awards are made under rule 4 (ii) of the rules governing the grant of President's Police Medal for Distinguished Service.

BARUN MITRA, Jt. Secy.

No. 149-Pres/2007.—The President is pleased on the the occasion of the Independence Day, 2007 to award the President's Police Medal for Meritorious Service to the undermentioned officers :—

Shri C V Anand  
Commissioner of Police  
Vijayawada  
Andhra Pradesh

Shri Mohd. Ahsan Reza  
Deputy Inspector General of Police  
Eluru Range  
Andhra Pradesh

Shri Aravelli Venkateshwar Rao  
Additional Superintendent of Police  
Nalgonda  
Andhra Pradesh

Shri Shaik Mahaboob Basha  
Deputy Superintendent of Police  
Anantapur Zone  
Andhra Pradesh

Shri Kotti Venkata Satyanarayana  
Assault Commander/Deputy  
Superintendent of Police  
Greyhounds, Hyderabad  
Andhra Pradesh

Shri Yenamadala Tulasi Ram Prasad  
Inspector  
Central Crime Station, Hyderabad  
Andhra Pradesh

Shri Potlolla Ugender Reddy  
Dy. Assault Commander/Inspector  
Greyhounds  
Andhra Pradesh

Shri J. Bhaskara Rao  
Circle Inspector  
Hyderabad  
Andhra Pradesh

Shri Karanam Mahendra Patrudu  
Chief Law Instructor  
Police Training College  
Andhra Pradesh

Shri Kovvuri Surya Bhaskar Reddy  
Inspector  
ACB Head Office Hyderabad  
Andhra Pradesh

Shri Bandla Janardhana  
Assistant Sub-Inspector  
DCRB, CTR  
Andhra Pradesh

Shri Syed Ajaz Ahmed  
Armed Reserve Sub-Inspector  
Special Duty, Hyderabad  
Andhra Pradesh

Shri Kante Raja  
Head Constable  
DSB Karimngar  
Andhra Pradesh

Shri Ananda Mandal  
Sub-Inspector  
Lumla Police Station  
Arunachal Pradesh

Shri Shahjahan Ali  
Sub-Inspector  
PTC Signal Trg. Center  
Arunachal Pradesh

Shri Dilip Kumar Borah  
Inspector General of Police  
Guwahati  
Assam



Shri Prabin Chandra Saikia  
Commandant, 2nd APTF BN  
Lumding, Nagaon  
Assam

Shri Subra Jyoti Hazarika  
Commandant  
Makum, Tinsukia  
Assam

Shri Prasanna Medhi  
Assistant Sub-Inspector  
Vigilance & Anti-Corruption  
Guwahati, Assam

Shri Sanjoy Kumar Das  
Havildar  
6th A P BN  
Assam

Shri Nazif Ahmed  
Havildar  
Khajuaheel, Darrang  
Assam

Shri Lakhidhar Bordoloi  
Havildar  
Assam Commando BN Hq, Mandakata,  
Guwahati  
Assam

Shri Balindra Kumar Nath  
Constable (Operator)  
APRO, Hq, Ulubari, Guwahati  
Assam

Shri Bhaben Gogoi  
Constable (Operator)  
APRO Hq, Ulubari, Guwahati  
Assam

Shri Phanidhar Barman  
Constable  
City Police Reserve, Guwahati  
Assam

Smt. Manju Jha  
Superintendent of Police  
Vigilance Department,  
Investigation Bureau, Patna  
Bihar

Shri Gopal Paswan  
Deputy Superintendent of Police  
Patna  
Bihar

Shri Bashir Ahmad Khan  
Havildar  
CID, Patna  
Bihar

Shri Mohamad Ibrar  
Constable  
RO Special Branch, Patna  
Bihar

Shri Ratan Prasad Karn  
Constable  
CID, Patna,  
Bihar

Shri Amar Nath Upadhyay  
Inspector General of Police  
Sarguja Range, Ambikapur  
Chhattisgarh

Shri Parasnath  
Company Commander  
3rd BN. CAF, Raipur  
Chhattisgarh

Shri Thanu Ram Banjara  
Head Constable  
Kanker  
Chhattisgarh

Shri Daljeet Singh  
Head Constable  
10th BN CAF, Surguja  
Chhattisgarh

Shri Sudarshan Sahu  
Armed Police Constable  
9th BN DWA  
Chhattisgarh

Shri Harish Chandra Joshi  
Assistant Commissioner of Police  
Lajpat Nagar  
Delhi

Smt. Indra Sharma  
Women Inspector (Executive)  
C.A.W. Cell, Nanakpura,  
Delhi

Shri Jaspal Singh  
Inspector (Executive)  
Security Unit  
Delhi

Shri Surender Kumar  
Inspector (Executive)  
SHO/Rohini, North West Distt.  
Delhi

Shri Himmat Ram  
Sub-Inspector  
Police Control Room  
Delhi

Shri Ramesh Chand  
Sub Inspector  
8th BN, DAP  
Delhi

Shri Chandra Narain Jha  
Security Unit  
Delhi

Shri Azad Singh Dahiya  
Sub Inspector  
Crime & Railways  
Delhi

Shri Ramji Lal Sharma  
Sub-Inspector  
Special Cell (SB)  
Delhi

Shri Ram Niwas  
Assistant Sub-Inspector  
Police Control Room  
Delhi

Shri Ikpai Singh  
Assistant Sub-Inspector  
South Distt.,  
Delhi

Shri Ved Pal Singh  
Assistant Sub-Inspector  
Security Unit  
Delhi

Shri Virshinhbhai Kalubhai Amaliyar  
Deputy Superintendent of Police  
Asstt. Commr. of Police, "F" Dn.,  
Ahmedabad City  
Gujarat

Shri Subhash Chandra  
Gunvantray Raval  
Inspector  
L. C. B. Junagadh Distt  
Gujarat

Shri Dilip Kumar Kapilrai Vaishnav  
Inspector  
Maninagar Police Station  
Ahmedabad City  
Gujarat

Shri Baldevsinh  
Chandansinh Solanki  
Inspector  
Sardarnagar Police Station  
Ahmedabad City  
Gujarat

Shri Karamshibhai Harjibhai Desai  
Inspector  
Sarkhej Police Station  
Ahmedabad Rural District  
Gujarat

Shri Deepak Kumar Shantilal Vyas  
Inspector  
ACB (Field) Hq, Ahmedabad  
Gujarat

Shri Karsanbhai Jivanbhai Jadav  
Inspector  
Anti-Corruption Bureau, Bhuj  
Gujarat

Shri Suganchand Raghunathji Kalal  
Assistant Sub-Inspector  
S R P Gr-IX  
Gujarat

Shri Bhailalbhai Vitthalbhai Jadav  
Assistant Sub-Inspector  
Reader Branch, Office of Supdt. of Police  
W. Rly Vadodara  
Gujarat

Shri Shamjibhai Kalabhai Chauhan  
Assistant Sub-Inspector  
Police Headquarter  
Gujarat

Shri Bajrangdas Surajdas Gondalia  
Assistant Sub-Inspector  
SRPF Gr. 11, VAV (Surat)  
Gujarat

Shri Chanduji Gulabji Solanki  
Head Constable  
ECO Call Mehsana  
Gujarat

Shri Liyakat Ali Khan  
Kamukhan Pathan  
Head Constable  
Vasad Police Station, Dist. Anand  
Gujarat

Shri Rameshchandra Manilal Patel  
Head Constable  
Vadodara  
Gujarat

Shri Mukhtiyar Husain Ismail Shaikh  
Constable  
SRPF, Gr. 11, VAV (Surat)  
Gujarat

Shri Rajendra Kumar Keshrisinh Rathod  
Constable  
SRPFGR XI, VAV (Gujarat)  
Gujarat

Shri Kanjibhai Ratnabhai Parmar  
Constable  
SRPF Gr. X, Valia (Bharuch)  
Gujarat

Shri Anil Kumar  
Deputy Superintendent of Police  
Telecom Panchkula  
Haryana

Shri Jaivir Singh  
Sub-Inspector  
HPA MBN  
Haryana

Shri Lekh Ram  
Sub-Inspector  
HPA MBN  
Haryana

Shri Sajjan Pal Singh  
Assistant Sub-Inspector  
Haryana

Shri Rajinder Kumar  
Assistant Sub-Inspector  
SVB Ambala

Shri Sohan Lal  
Assistant Sub-Inspector  
Hissar  
Haryana

Shri Raghubir Singh  
Assistant Sub-Inspector  
Hissar  
Haryana

Shri Satbir Singh  
Head Constable  
Haryana

Shri Vipul Shukla  
Deputy Superintendent of Police  
Koelkaro  
Jharkhand

Shri Ganesh Bahadur Gurung  
Havildar  
JAP (1) Doranda, Ranchi  
Jharkhand

Shri Naresh Kumar Pradhan  
Havildar  
J. A. P. (1) Doranda, Ranchi  
Jharkhand

Shri Gorakh Bahadur Giri  
Havildar  
J. A. P. (1) Doranda, Ranchi  
Jharkhand

Shri Shyam Bhagat Negi  
Deputy Inspector General of Police  
Shimla  
Himachal Pradesh

Shri Kesho Ram  
Inspector  
PS SV&ACB Shimla  
Himachal Pradesh

Shri Ramesh Chand Chauhan  
Inspector  
CID Unit Shimla  
Himachal Pradesh

Shri Ram Dev  
Assistant Sub-Inspector  
Mandi Distt.  
Himachal Pradesh

Shri Mushtaq Mohd Sadiq Sheikh  
Commandant  
JKAP 11th Sec BN., APC Humhama  
Jammu and Kashmir

Shri Abdul Hamid Sheikh  
Senior Superintendent of Police  
Commandant IR-9th APC Batmaloo  
Jammu and Kashmir

Shri Manohar Singh  
Senior Superintendent of Police  
Distt. Doda  
Jammu and Kashmir

Shri Abdul Hamid Bhat  
Superintendent of Police  
Kashmir  
Jammu and Kashmir

Shri Aijaz Rasool Ganaie  
Inspector  
SSG(HQ)  
Jammu and Kashmir

Shri Radha Sham Abrol  
Director Prosecution  
PHQ  
Jammu and Kashmir

Shri Bashir Ahmed  
Inspector  
SKPA Udhampur  
Jammu and Kashmir

Shri Farooq Ahmad Kathwari  
Deputy Director Prosecution  
Jammu and Kashmir

Shri Dinesh Kumar  
Sub-Inspector  
J&K CID Cell,  
Jammu and Kashmir

Dr. Rajvir Pratap Sharma  
Inspector General of Police  
Southern Range  
Karnataka

Shri Ratnakar Salunke  
Superintendent of Police  
State Intelligence, Bangalore  
Karnataka

Shri S. Rangaswamy Naik  
Superintendent of Police  
KLA  
Karnataka

Shri Kanagalu Nanjappa Yogappa  
Superintendent of Police  
COD Bangalore  
Karnataka

Shri Dommasandra Muniyappa  
Kririomraju  
Additional Superintendent of Police  
Mandya  
Karnataka

Shri Somanahalli Ramasingaiah  
Phanindrasingh  
Additional Superintendent of Police  
Chikmagalur  
Karnataka

Shri Ambanna Hanumanappa  
Chippar  
Deputy Superintendent of Police  
DCRB  
Karnataka

Shri M B Mallikarjuna Swamy  
Asstt. Commissioner of Police  
East Traffic, Sub Division  
Bangalore City  
Karnataka

Shri Siddaramappa Veerabhadrapa Guled  
Assistant Commissioner of Police  
South Sub Division, Hubli  
Karnataka

Shri Krishnadas Ravindra Prasad  
Assistant Commissioner of Police  
Audugodi Sub Division, Bangalore City  
Karnataka

Dr. D. Narayanaswamy  
Assistant Commissioner of Police  
Jayanagar Sub Division, Bangalore City  
Karnataka

Shri Gowda Basavanna Manjunath  
Circle Police Inspector  
Tiptur Rural Circle, Tumkur District  
Karnataka

Shri Ayapana Hally Beera Gowda  
Rajendra Kumar  
Police Inspector  
Banasawadi Police Station  
Bangalore City  
Karnataka

Shri C Devi Dasan  
Police Sub-Inspector  
Karnataka

Shri Narasaiah Narasimhamurthy  
Head Constable  
BDA Vigilance, Bangalore  
Karnataka

Shri Kaekana Bopaiah Nanjappa  
Police Constable  
IST BN, KSRP, Bangalore

Shri Anil Kant  
Inspector General of Police  
SCRB, Triruvananthapuram  
Kerala

Shri Nitin Agrawal  
Deputy Inspector General of Police  
Thiruvananthapuram Range  
Kerala

Shri S. Anantha Krishnan  
Deputy Inspector General of Police  
Kannur Range  
Kerala

Shri K Padmakumar  
Deputy Inspector General of Police  
Thiruvananthapuram City  
Kerala

Shri M. Padmanabhan  
Superintendent of Police  
Ernakulam Rural  
Kerala

Shri V Sunil Kumar  
Deputy Commandant  
Kerala Armed Police 2nd Battalion,  
Kerala

Shri A. K. Venugopal  
Deputy Superintendent of Police  
DCRB Railways Thiruvananthapuram  
Kerala

Shri P N Unnirajan  
Deputy Superintendent of Police  
Special Branch, Thrissur  
Kerala

Shri M V Sukumaran  
Circle Inspector  
Payyanur, Kannur  
Kerala

Shri Purushottam Sharma  
Inspector General of Police  
Bhopal  
Madhya Pradesh

Shri Milind Kanaskar  
Deputy Inspector General of Police  
Madhya Pradesh

Shri K T Vaiphei  
Deputy Inspector General of Police  
Indore  
Madhya Pradesh

Shri Dilip Kumar Singh  
Superintendent of Police  
SPE, Lokayukt, Rewa  
Madhya Pradesh

Shri Vijay Kumar Mishra  
Investigation Officer  
Special Branch  
Bhopal  
Madhya Pradesh

Shri Sanjeev Deshpandey  
Company Commander  
32nd Bn SAF, Ujjain  
Madhya Pradesh

Shri Vijay Singh Pawar  
Reserve Inspector  
Bhopal  
Madhya Pradesh

Shri Abdul Hamid  
Head Constable  
Bhopal  
Madhya Pradesh

Shri Alois Ekka  
Head Constable  
SPE, Hqrs., Lokayukta  
Bhopal  
Madhya Pradesh

Shri Hira Lal Vaishya  
Head Constable  
SBIEO Bhopal  
Madhya Pradesh

Shri Raj Dev Dwivedi  
Head Constable  
8th BN, S. A. F. Chhindwara  
Madhya Pradesh

Shri Bhagwati Prasad Sharma  
Head Constable  
Gwalior  
Madhya Pradesh

Shri Lalji Mishra  
Constable  
P. S. Gohalpur, Jabalpur  
Madhya Pradesh

Shri Safuddin Farrukhi  
Constable  
Shivpuri  
Madhya Pradesh

Shri Rajveer Singh Yadav  
Constable  
P. S. Madhoganj Gwalior  
Madhya Pradesh

Smt. Shobha Ohatkar  
Superintendent of Police  
E. O. W., CID, Pune  
Maharashtra

Shri Balasaheb Genbhau Shekhar  
Superintendent of Police  
ACB, Nashik  
Maharashtra

Shri Sadashiv Laxman Patil  
Assistant Commissioner of Police  
ATS, Mumbai  
Maharashtra

Shri Gambaji Patilbuwa Dabhade  
Police Inspector  
Shahupuri Police Station, Kolhapur  
Maharashtra

Shri Bharat Ramrao Patil  
Police Inspector  
Deccan Police Station, Pune City  
Maharashtra

Shri Shashikant Dattatray Surve  
Police Inspector  
Goregaon Police Station, Mumbai City  
Maharashtra

Shri Bhimdeo Bhalchandra Rathod  
Police Inspector  
Charkop Police Station, Mumbai City  
Maharashtra

Shri Dashrath Dattatray Khule  
Armed Police Sub-Inspector  
SRPF GR XI, Navi Mumbai  
Maharashtra

Shri Pratap Muralidhar Pawar  
Police Sub-Inspector  
Hinjawadi Police Station, Pune City  
Maharashtra

Shri Ayub Usman Sayyad  
Asstt. Sub-Inspector  
Police HQ., Solapur City  
Maharashtra

Shri Balkrishna Dharma Sonawane  
Armed Assistant Sub-Inspector  
SRPF GR VI Dhule  
Maharashtra

Shri Pralhad Kaduba Chaudhari  
Armed Assistant Sub-Inspector  
SRPF GR VI Dhule  
Maharashtra

Shri Bhagwat Trimbak Ingle  
Armed Assistant Sub-Inspector  
SRPF XI Navi Mumbai  
Maharashtra

Shri Bapu Appa Kardage  
Police Head Constable  
LCB Kolhapur  
Maharashtra

Shri Popat Vitthal Kalamkar  
Police Head Constable  
Yerwada Police Station, Pune City  
Maharashtra

Shri Sambhaji Ananda Jadhav  
Police Head Constable  
C. R. Kalyan Thane City  
Maharashtra

Shri Suryakant Balu Tatkare  
Police Head Constable  
SPL Branch, CID Mumbai City  
Maharashtra

Shri Anil Yakoba Makasare  
Police Head Constable  
SPL Branch, Nashik City  
Maharashtra

Shri Shivram Shankar Kadam  
Police Head Constable  
Kothrud Police Station, Pune City  
Maharashtra

Shri Kishor Bhivaji Vele  
Police Head Constable  
Kolshrwadi Police Station, Thane City  
Maharashtra

Shri Jagdish Ganpatrao Dharme  
Police Head Constable  
Ashta Police Station, Sangli  
Maharashtra

Shri Uday Sitaram More  
Police Head Constable  
Ghatkopar Police Station, Mumbai City  
Maharashtra

Shri Anna Gangaram Gore  
Police Head Constable  
Vashi Railway Police Station  
Mumbai  
Maharashtra

Shri Prakash Eknath Jadhav  
Police Head Constable  
SRPF GR. II Pune  
Maharashtra

Shri Chandrakant Nivruttirao Kadam  
Police Head Constable  
Police Hq., Nanded  
Maharashtra

Shri Kailash Ramchandra Khadse  
Police Head Constable  
MT Akola  
Maharashtra

Shri Dattatray Janardan Pawar  
Police Head Constable  
SRPF GR. V Daund  
Maharashtra

Shri Subhash Baburao Patil  
Police Head Constable  
Ramdaspath Police Station Akola  
Maharashtra

Shri Pradip Dhanajirao Jadhav  
Police Head Constable  
Ambemath Police Station, Thane City  
Maharashtra

Shri Anandrao Giridhar Patil  
Police Head Constable  
Crime Branch, Thane City  
Maharashtra

Shri Vishnu Shankar Ekwade  
Police Naik  
LCB Sindhudurg  
Maharashtra

Shri Dilawar Gulab Shaikh  
Police Naik  
Panhala Police Station, Kolhapur  
Maharashtra

Shri P. Dhanakumar Singh  
Superintendent of Police  
CID (SB) Imphal  
Manipur

Shri Thokchom Krishnatombi Singh  
Inspector  
O/c CDO Imphal East Distt.  
Manipur

Shri Ningambam Singh Subhash  
Armed Branch Inspector  
IST MLP BN, Training Centre,  
Hq. Mawiong  
Meghalaya

Shri Someswar Basumatary  
Havildar  
PTS, Shillong  
Meghalaya

Shri Joseph Lal Chhuana  
Principal  
PTC, Lungverh  
Mizoram

Shri Laldula Pachuau  
Chief Drill Instructor  
1st Bn, MAP, Aizawl  
Mizoram

Shri Pulemzung  
Jongpongungsang AO  
Superintendent of Police  
Kohima  
Nagaland

Shri Zekotso Mero  
Commandant, 4th NAP  
Thizama  
Nagaland

Shri Debasis Panigrahi  
Deputy Inspector General of Police  
Cuttack  
Orissa

Shri Pramod Kumar Mohanty  
Deputy Superintendent of Police  
CID, CB, Cuttack  
Orissa

Shri Sarat Kumar Mohapatra  
Inspector of Police  
Vigilance Cell, Unit Office, BJB Nagar  
Bhubneshwar  
Orissa

Shri Khageswar Gauda  
Assistant Commandant  
OSAP 6th Battalion, Cuttack  
Orissa

Shri Dilip Kumar Das  
Inspector In-Charge  
Town PS Balasore  
Orissa

Shri Bishnu Pada Das  
Reserve Inspector,  
Puri  
Orissa

Shri Pramod Kumar Rath  
Inspector of Police  
Nalgodown PS, Cuttack  
Orissa

Shri Krushna Chadra Mishra  
Assistant Sub-Inspector  
Vigilance Division Office, Sambalpur  
At-Tumesingha, PO-Sindurpank, SBP  
Orissa

Shri Samir Kumar Mohanty  
Constable  
CID, CB, Cuttack  
Orissa

Shri Gurudev Singh Sahota  
Inspector General of Police  
Jalandhar  
Punjab

Shri Parampal Singh Sidhu  
Deputy Inspector General of Police  
Jalandhar  
Punjab

Shri Gurdip Singh  
Inspector  
Amritsar  
Punjab

Shri Dharam Singh  
Sub-Inspector  
MTO, CPO, Chandigarh  
Punjab

Shri Sewak Singh  
Sub-Inspector  
PAP, Phillaur  
Punjab

Shri Sukhwinder Singh  
Sub-Inspector  
1st CDO BN, Patiala  
Punjab

Shri Vijay Pal  
Assistant Sub-Inspector  
PAP, Phillaur  
Punjab

Shri Daljit Singh  
Assistant Sub-Inspector  
Oasi, SAS Nagar  
Punjab

Smt. Rajwinder Kaur  
Assistant Sub-Inspector  
Police Line, Amritsar  
Punjab

Shri Sukhwinder Singh  
Assistant Sub-Inspector  
CID Unit, Amritsar  
Punjab

Shri Karaj Singh  
Head Constable  
Police Station Gidderbaha  
Punjab

Shri Buta Singh  
Head Constable  
82 BN PAP, Chandigarh  
Punjab

Shri Joginder Pal  
Head Constable  
Police Line, Batala  
Punjab

Shri Umesh Mishra  
Inspector General of Police  
Anti Corruption Bureau  
Jaipur  
Rajasthan

Shri Mangi Lal Jat  
Additional Superintendent of Police  
Commandant, 1st Bn RAC, Jodhpur  
Rajasthan ✓

Shri Sanjay Kumar Shrotriya  
Additional Superintendent of Police  
East Jaipur City  
Rajasthan

Shri Om Prakash Jangid  
Deputy Superintendent of Police  
Circle Officer Nainwa, Distt. Bundi  
Rajasthan

Shri Sangram Singh  
Deputy Superintendent of Police  
Circle Officer, Ajmer North  
Distt. Ajmer  
Rajasthan

Shri Shanti Lal Hingar  
Sub-Inspector (Operator)  
Police Tele Communication, Udaipur  
Rajasthan

Shri Jagdish Singh Naruka  
Assistant Sub-Inspector  
Crime Branch, Distt. Karauli  
Rajasthan

Shri Hindu Singh Rajput  
Assistant Sub-Inspector  
Police Line, Jodhpur City  
Rajasthan

Shri Hukum Chand Sharma  
Assistant Sub-Inspector  
OP Jheel, PS-Bayana, Distt. Bharatpur  
Rajasthan ✓

Shri Subh Ram Yadav  
Head Constable  
4th Bn RAC, Chilpura, Jaipur ✓  
Rajasthan

Shri Bajrang Singh  
Head Constable  
2nd Bn RAC, Kota  
Rajasthan

Shri Karna Ram Jat  
Head Constable  
RPTC, Jodhpur  
Rajasthan

Shri Gokul Lal Dangi ✓  
Head Constable  
PS-Pratapnagar, Distt. Udaipur  
Rajasthan

Shri Amar Dev Meena  
Head Constable  
MBC Kherwara, Udaipur  
Rajasthan

Shri Uttam Singh  
Constable  
4th Bn RAC, Chainpura, Jaipur  
Rajasthan

Shri M. Chidambarasamy  
Inspector General of Police  
Civil Supplies CID  
Chennai  
Tamil Nadu

Shri Pramod Kumar  
Deputy Inspector General of Police  
Railways Chennai  
Tamil Nadu

Shri Abhash Kumar  
Deputy Inspector General of Police  
Thanjavur  
Tamil Nadu

Shri M Ravi  
Deputy Inspector General/Joint Commissioner  
of Police  
North Zone, Chennai City  
Tamil Nadu

Shri Karunasagar  
Deputy Inspector General of Police  
Training-II Chennai  
Tamil Nadu

Shri R S Nallasivam  
Deputy Commissioner of Police  
Chennai  
Tamil Nadu

Shri Y John Nicholson  
Superintendent of Police  
Thoothukudi District  
Tamil Nadu

Shri Thirumoorthy Sundaresan  
Superintendent of Police  
Coimbatore, V&AC, Western Range  
Tamil Nadu

Shri A Chockalingam  
Deputy Superintendent of Police  
Tirunelveli City  
Tamil Nadu

Shri P Jacob Manickaraj  
Deputy Superintendent of Police  
V&AC, Dharampuri  
Tamil Nadu



Smt. B Banumathi  
Women Inspector of Police  
Police Training College, Chennai  
Tamil Nadu

Shri K Rajamani  
Inspector of Police  
Thirupaparankundram, Madurai District  
Tamil Nadu

Shri Pethu Vijayan  
Inspector of Police  
SB CID Hqrs, Chennai  
Tamil Nadu

Shri N Balakrishnan  
Inspector of Police  
TSP VIth BN, Madurai  
Tamil Nadu

Shri C Raja  
Inspector of Police  
V&AC, Erode  
Tamil Nadu

Shri R Vedarathinam  
Inspector of Police  
V&AC, Chennai City-II  
Tamil Nadu

Shri G Sambandam  
Inspector of Police V&AC, SIC, Chennai  
Tamil Nadu

Shri Bishnu Kishore Debbarna  
Inspector General of Police  
(TSR&OPS) Agartala  
Tripura

Shri Sishir Kumar Saha  
Head Constable, Driver Gr-I  
O/o The S. P. Proc.  
Tripura

Shri Gur Bachan Lal  
Inspector General of Police  
Bareilly Zone  
Uttar Pradesh

Shri Bijaya Kumar Maurya  
Deputy Inspector General of Police  
DGP Hqrs., Lucknow  
Uttar Pradesh

Shri Prashant Kumar-I  
Deputy Inspector General of Police  
Meerut Range, Meerut  
Uttar Pradesh

Shri Monmchan Kumar Bashal  
Deputy Inspector General of Police  
Saharanpur Range  
Uttar Pradesh

Shri Rajiv Ranjan Verma  
Deputy Inspector General of Police  
Allahabad Range  
Uttar Pradesh

Shri Alok Sharma  
Senior Superintendent of Police  
Nainital (Uttarakhand)  
Uttar Pradesh

Shri Braj Bhushan  
Senior Superintendent of Police  
Allahabad  
Uttar Pradesh

Shri Rajeev Krishna  
Commandant  
35 Bn, Lucknow  
Uttar Pradesh

Shri Sandeep Salunke  
Director (Security)  
Lok Sabha  
Uttar Pradesh

Shri Sadafal Yadav  
Deputy Superintendent of Police  
Distt. Ghazipur  
Uttar Pradesh

Shri Ashok Kumar Raghav  
Additional Superintendent of Police  
Distt. Meerut  
Uttar Pradesh

Shri Hemant Kumar Mishra  
Deputy Superintendent of Police  
Gautam Buddha Nagar  
Uttar Pradesh

Shri Harchand Singh  
Deputy Superintendent of Police  
Lucknow  
Uttar Pradesh

Shri Kamal Narayan Pandey  
Deputy Superintendent of Police  
Int. Hq., Lucknow  
Uttar Pradesh

Shri Mohd. Ishtiyag  
Deputy Superintendent of Police  
Distt. Gorakhpur  
Uttar Pradesh

Shri Dinesh Kumar Sisodia  
Deputy Superintendent of Police  
Distt. Mathura  
Uttar Pradesh

Shri Rajpal Singh Sirohi  
Deputy Superintendent of Police  
Distt. Sravasti  
Uttar Pradesh

Shri Kailash Nath Singh  
Deputy Superintendent of Police  
Distt. Meerut  
Uttar Pradesh

Shri Doodh Nath Ram  
Assistant Commandant  
02 Bn Sitapur  
Uttar Pradesh

Shri Munni Lal Ram  
Deputy Superintendent of Police  
Distt. Hardoi  
Uttar Pradesh

Shri Jograj Singh  
Deputy Superintendent of Police  
Distt. Barabanki  
Uttar Pradesh

Shri Gyan Singh Bhadoria  
Reserve Inspector  
Jaluan  
Uttar Pradesh

Shri Ram Chet Yadav  
Platoon Commander  
35 Bn, PAC, Lucknow  
Uttar Pradesh

Shri Bharat Singh  
Sub-Inspector  
Firozabad  
Uttar Pradesh

Shri Virendra Nath Singh  
Sub-Inspector  
Lucknow  
Uttar Pradesh

Shri Kaushalendra Nath Sharma  
Sub-Inspector  
Raibareilly  
Uttar Pradesh

Shri Kaushal Kumar  
Assistant Sub-Inspector  
UPPCS, Kanpur  
Uttar Pradesh

Shri Pooran Chand  
Head Constable  
Agra  
Uttar Pradesh

Shri Mahendra Pratap Sharma  
Head Constable  
Ghaziabad  
Uttar Pradesh

Shri Dev Narain  
Constable  
Lucknow  
Uttar Pradesh

Shri Nikka Ram  
Constable  
23 Bn PAC Moradabad  
Uttar Pradesh

Shri Krishna Bahadur Singh  
Constable  
Lucknow  
Uttar Pradesh

Shri Sant Ram  
Constable  
30 Bn PAC, Gonda  
Uttar Pradesh

Shri Thakur Singh Adhikari  
Constable  
27 Bn PAC Sitapur  
Uttar Pradesh

Shri Bharat Singh Bhandari  
Deputy Superintendent of Police  
Deharadun  
Uttarakhand

Shri Jagatnath Prasad Joshi  
Company Commander  
Udham Singh Nagar  
Uttarakhand

Smt. Shakuntala Hotiyal  
Inspector  
Intelligence, Hqrs., Deharadun  
Uttarakhand

Shri Anuj Sharma  
Deputy Inspector General of Police  
Burdwan Range, Chinsurah,  
Hooghly  
West Bengal

Shri Achintya Kumar Bandyopadhyay  
Deputy Superintendent of Police  
CID  
West Bengal

Shri Debasis Dutta  
Deputy Superintendent of Police  
Hooghly  
West Bengal

Shri Sunil Kumar Halder  
Inspector of Police  
West Bengal

Shri Dilip Kumar Hazari  
Inspector (AB)  
State Armed Police 6th Bn  
Barrackpore, North 24 Parganas  
West Bengal

Shri Susanta Kumar Ghosh  
Supervisor, Operational-II  
Police Telecommunication Hqrs  
Tollygunge, Kolkata  
West Bengal

Shri Hukum Chand Roka  
Assistant Sub-Inspector  
SAP 10th Bn, Bebgram, Jalpaiguri  
West Bengal

Shri Ram Bahadur Gurung  
Armed Reserve Assistant Sub-Inspector  
DAP(S)  
West Bengal

Shri Subrata Mukherjee  
Constable  
Hasnabad PS  
West Bengal

Shri Sakti Pada Sidhanta  
Constable  
Enforcement Branch, Bhabani Bhaban,  
Alipore, Kolkata-27  
West Bengal

Shri Netai Chandra Dalui  
Constable  
Alipore Sadar Court  
West Bengal

Shri Prasanta Kumar Dutta  
Police Driver Grade-I  
Police Telecommunication Hqrs  
Tollygunge, Kolkata  
West Bengal

Shri Pradip Kumar Chattopadhyay  
Deputy Commissioner of Police  
Lalbazar, Kolkata  
West Bengal

Shri Upendra Prasad Singh  
Assistant Commissioner of Police Force Hq.  
Kolkata  
West Bengal

Shri Sobhan Kumar Tewary  
Inspector of Police  
Reserve Force, Kolkata  
West Bengal

Shri S. K. Abdur Razzak  
Inspector of Police  
Chitpur PS, N D Kolkata  
West Bengal

Shri Subinoy Dasgupta  
Inspector of Police  
Special Banch, Kolkata  
West Bengal

Shri Swapan Kumar Bandyopadhyay  
Sub-Inspector  
Police Training School, Kolkata  
West Bengal

Shri Asit Baran Das  
Sub-Inspector  
Vigilance Commission, Kolkata  
West Bengal

Shri Raj Kumar Chatterjee  
Constable  
Vigilance Commission, Kolkata  
West Bengal

Shri Teginder Singh  
Assistant Sub-Inspector  
M. T. Section  
Chandigarh

Shri K. Divakaran  
Head Constable  
PHQ Kavaratti  
Lakshadweep

Shri P. Unni  
Head Constable  
PHQ Kavaratti  
Lakshadweep

Shri Thiruvengadam Raman  
Inspector  
Police Training School  
Puducherry

Shri Arumugam Subramanian  
Driver Gr.-I  
M. T. Section  
Puducherry

Shri Manoj Kumar Chhabra  
Deputy Inspector General  
Airwing  
Border Security Force

Shri Rajesh Kumar Bhargava  
Additional Deputy Inspector General (G)  
FHQ New Delhi  
Border Security Force

Shri Rominder Pratap Singh  
Additional Deputy Inspector General  
Hq Punjab FTR, Jalandhar Cantt  
Punjab  
Border Security Force

Shri Praveen Rathore  
Commandant  
70 Bn, PO-Ramgarh, Distt. Jaisalmer  
Rajasthan  
Border Security Force

Shri Jitendra Kumar Singh  
Commandant  
25 Bn, Chawla Camp, New Delhi  
Border Security Force

Shri Lakhwinder Singh Bal  
Commandant  
BSF Academy, Distt. Gwalior, MP  
Border Security Force

Shri Ravendra Pal Singh Malik  
Commandant  
57 Bn, South Dinajpur, West Bengal  
Border Security Force

Dr. Ripu Daman Chauhan  
Commandant (Medical)  
Medical DTE, FHQ, New Delhi  
Border Security Force

Dr. Ashok Kumar Das  
Commandant (Medical)  
Distt. Gandhinagar  
Border Security Force

Shri Ashok Kumar  
Commandant  
120 Bn Barmer, Rajasthan  
Border Security Force

Shri Sham Lal Sharma  
Commandant  
162 Bn Ferozpur, Punjab  
Border Security Force

Shri Sunil Kapur  
Commandant  
99 Bn Ferozpur, Punjab  
Border Security Force

Shri Jaikrit Singh Rawat  
Commandant (G)  
FHQ New Delhi  
Border Security Force

Shri Virender Vaid  
Commandant  
FHQ, New Delhi  
Border Security Force

Shri Anurudh Asthana  
Commandant  
34 Bn, Tripura West Distt, Tripura  
Border Security Force

Shri Rajeshwar Singh  
Second-in-Command  
Rajouri, (J&K)  
Border Security Force

Shri Chandra Keshav Mishra  
Second-in-Command  
63 Bn, C/o 56 APO  
Border Security Force

Shri Surendra Singh Shekhawat  
Second-in-Command  
Murshidabad, West Bengal  
Border Security Force

Shri Hameer Singh Bhati  
Second-in-Command  
Srinagar (J&K)  
Border Security Force

Shri Dharampal Tokas  
Second-in-Command  
138 Bn Jalpaiguri, West Bengal  
Border Security Force

Shri Terrence Ashley Gabriel  
Deputy Commandant  
162 Bn Ferozpur, Punjab  
Border Security Force

Shri Nil Kanta Mandal  
Deputy Commandant  
02 Bn Alambazar, Kolkata-35  
Border Security Force

Shri Jagir Singh Kahlon  
Deputy Commandant  
FHQ, New Delhi  
Border Security Force

Shri Ram Swaroop Joshi  
Assistant Commandant  
FHQ, New Delhi  
Border Security Force

Shri Kundan Singh Rawat  
Assistant Commandant  
09 Bn, New Delhi  
Border Security Force

Shri N S Satish Chander  
Assistant Commandant  
FHQ, New Delhi  
Border Security Force

Shri Keshar Singh  
Inspector  
26 Bn, C/o 56 APO  
Border Security Force

Shri Ajit Singh  
Inspector  
22 Bn Tripura (West)  
Border Security Force

Shri Kashmir Singh  
Inspector  
137 Bn Sriganganagar, Rajasthan  
Border Security Force

Shri Sunil Mohan  
Inspector  
88 Bn Dhubri Distt, Assam  
Border Security Force

Shri Kunchandy Babu  
Inspector (PA)  
FHQ New Delhi  
Border Security Force

Shri Puthiyakunnel John Thampi  
Inspector (PA)  
FHQ, New Delhi  
Border Security Force

Shri Chhabi Lal Thapa  
Sub-Inspector  
93 Bn, Karimganj, Assam  
Border Security Force

Shri Puran Chandra Pant  
Sub-Inspector  
FHQ, New Delhi  
Border Security Force

Shri K Kuttan  
Head Constable  
64 Bn, Distt, Chhachar (Assam)  
Border Security Force

Shri Keshav Singh  
Head Constable  
84 Bn, Jaisalmer, Rajasthan  
Border Security Force

Shri Kedar Nath Sharma  
Head Constable  
59 Bn, Tripura West  
Border Security Force

Shri Dharmu Mishra  
Head Constable  
84 Bn Jaisalmer, Rajasthan  
Border Security Force

Shri Baskara Vijay Kumar  
Head Constable  
56 Bn, New Tura Distt, Meghalaya  
Border Security Force

Shri Bhagirath Singh  
Head Constable  
17 Bn, Tura Distt, Meghalaya  
Border Security Force

Shri Poonama Ram Chaudhary  
Head Constable  
38 Bn, Tura, Meghalaya  
Border Security Force

Shri Ram Mehar  
Safai Karamchari  
31 Bn, East Khasi Hills, Meghalaya  
Border Security Force

Shri Brij Mohan  
Cook  
52 Bn, C/o 56 APO  
Border Security Force

Shri Pundi Mallana Goud  
Inspector General of Police  
S/Sector, Hyderabad (AP)  
Central Reserve Police Force

Dr. Mohd. Saquib  
Deputy Inspector General (Medical) CH, Bhopal  
Central Reserve Police Force

Shri Krishna Murthi Iyer  
Additional Deputy Inspector General  
Srinagar (J&K)  
Central Reserve Police Force

Shri Satendra Pal Singh  
Additional Deputy Inspector General  
M&N Sec Hqrs Imphal (Manipur)  
Central Reserve Police Force

Shri Gurenderjit Singh  
Additional Deputy Inspector  
General, Srinagar  
Central Reserve Police Force

Shri Yogendera Kumar Mathur  
Additional Deputy Inspector General  
GC, Bantlab  
Central Reserve Police Force

Shri Shailenda Kumar  
Additional Deputy Inspector General  
FHQ, New Delhi  
Central Reserve Police Force

Shri Daleep Singh  
Commandant  
129 Bn, Jammu  
Central Reserve Police Force

Shri Pratap Rai Sabherwal  
Commandant  
63 Bn, Chhattisgarh  
Central Reserve Police Force

Shri Balbir Singh Sangwan  
Commandant  
91 Bn, Doda (J&K)  
Central Reserve Police Force

Shri Ajay Kumar Zaidu  
Commandant  
24 Bn, Budgam, Srinagar  
Central Reserve Police Force

Shri Arjun Singh Jhala  
Deputy Commandant  
135 Bn, Gandhinagar  
Central Reserve Police Force

Shri Maya Ram Chahar  
Deputy Commandant  
172 Bn, Srinagar (J&K)  
Central Reserve Police Force

Shri Jagdish Prasad Panghal  
Deputy Commandant  
GC, Pune, Maharashtra  
Central Reserve Police Force

Smt Krishna Devi  
Assistant Commandant  
111 Bn, Chandigarh  
Central Reserve Police Force

Shri Ashok Kumar Dash  
Assistant Commandant  
4th Bn, Smailpur Jammu  
Central Reserve Police Force

Shri Shiv Singh Jhala  
Assistant Commandant  
68 Bn, Jammu  
Central Reserve Police Force

Shri Joginder Singh Rana  
Inspector  
20 Bn,  
Central Reserve Police Force

Shri M. K. Govindan Nair  
Inspector/Cry  
3rd Sig Bn  
Central Reserve Police Force

Shri M. Soman  
Inspector  
3 Sig Bn, Kolkata (WB)  
Central Reserve Police Force

Shri C. D. Thomas  
Inspector/Cry  
4th Sig, Neemuch (MP)  
Central Reserve Police Force

Shri Gurmit Singh  
Inspector/Cry  
3rd Bn, Kolkata  
Central Reserve Police Force

Shri Babu Lal  
Inspector  
122 Bn, Srinagar  
Central Reserve Police Force

Shri Sri Ram Singh  
Inspector  
RTC-V, Solan (HP)  
Central Reserve Police Force

Shri Surender Singh  
Inspector  
Ranchi (Jharkhand)  
Central Reserve Police Force

Shri Amar Singh  
Inspector  
105 Bn, Coimbatore (TN)  
Central Reserve Police Force

Shri Rimal Singh  
Sub-Inspector  
26 Bn, Bokaro (Jharkhand)  
Central Reserve Police Force

Shri Jai Singh  
Sub Inspector  
76 Bn, Jammu  
Central Reserve Police Force

Shri Aziz Mohammed  
Sub-Inspector  
163 Bn, Srinagar  
Central Reserve Police Force

Shri Mathura Singh  
Sub-Inspector  
ISA, Mount Abu (Rajasthan)  
Central Reserve Police Force

Shri Kunhi Raman T. V.  
Sub-Inspector  
RTC-II, Avadi, (TN)  
Central Reserve Police Force

Shri Mahabir Singh  
Sub-Inspector  
158 Bn, Srinagar (J&K)  
Central Reserve Police Force

Shri K Raman Kutty  
Sub-Inspector  
30 Bn, Bijapur (CG)  
Central Reserve Police Force

Shri Chandrika Giri  
Sub-Inspector  
12 Bn, Uchathal (Manipur)  
Central Reserve Police Force

Shri Jagjit Singh  
Sub-Inspector  
GC, Secunderabad, Andhra Pradaesh  
Central Reserve Police Force

Shri Satya Narain Ram  
Head Constable  
GC, Jalandhar (Punjab)  
Central Reserve Police Force

Shri Ram Singh  
Head Constable  
127 Bn, Bawana, New Delhi  
Central Reserve Police Force

Shri Mohd Rashid  
Head Constable  
Group Centre, Bantalab  
Central Reserve Police Force

Shri S Thangamani  
Head Constable  
CTC-2, Coimbatore (Tamil Nadu)  
Central Reserve Police Force

Shri Dilip Kumar Rai  
Head Constable  
RTC-III, Pallipuram, (Kerala)  
Central Reserve Police Force

Shri Jangsher Singh  
Head Constable  
119 Bn, Srinagar (J&K)  
Central Reserve Police Force

Shri Baliram Singh  
Head Constable  
Hyderabad, (AP)  
Central Reserve Police Force

Shri Salauddin Khan  
Head Constable  
45 Bn, Motihari, Bihar  
Central Reserve Police Force

Shri Roop Ram  
Head Constable  
81 Bn, Jammu  
Central Reserve Police Force

Shri Jameet Singh  
Head Constable  
128 Bn, Imphal, Manipur  
Central Reserve Police Force

Shri Manjit Singh  
Head Constable  
50 Bn, Srinagar (J&K)  
Central Reserve Police Force

Shri Devi Prasad Rai  
Constable  
21 Bn, Patna (Bihar)  
Central Reserve Police Force

Shri Nandu Prasad  
Cook  
GC-II, Ajmer (Rajasthan)  
Central Reserve Police Force

Shri Ramesh  
Safai Karamchari  
GC, Gwalior (MP)  
Central Reserve Police Force

Shri K. Premarajan  
Subedar Major  
FHQ, New Delhi  
Central Reserve Police Force

Shri Chandra Sekharan Nair  
Subedar Major  
FHQ, New Delhi  
Central Reserve Police Force

Shri K. Sashidharan Pillai  
Joint Assistant Director  
FHQ, New Delhi  
Central Reserve Police Force

Shri Parso Pahilajani  
Account Officer  
GC-1, Ajmer (Rajasthan)  
Central Reserve Police Force

Shri Satpal  
Commandant  
SPT Bn,  
Indo-Tibet Border Police

Shri Austine Eapen  
Commandant  
22 Bn,  
Indo-Tibet Border Police

Shri Narendra Kumar Yadhuvanshi  
Chief Medical Officer (SG)  
SS Bn,  
Indo-Tibet Border Police

Shri Rajendra Prasad Joshi  
Commandant  
FHQ, New Delhi  
Indo-Tibet Border Police

Shri Deo Sharma  
Deputy Commandant  
FHQ, New Delhi  
Indo-Tibet Border Police

Shri Krishan Murari Mangal  
Assistant Commandant  
6th Bn, Ramgarh, Haryana  
Indo-Tibet Border Police

Shri Ved Prakash  
Assistant Commandant  
SHQ, Shimla  
Indo-Tibet Border Police

Shri Gian Chand  
Inspector  
SHQ, Bareilly  
Indo-Tibet Border Police

Shri Anil Kumar  
Additional Deputy Inspector General  
Airport Sector Delhi  
Central Industrial Security Force

Shri Deb Das Saha  
Senior Commandant  
MPT, Goa  
Central Industrial Security Force

Shri K Chandra Kumar  
Commandant  
BTPS, Bokaro  
Central Industrial Security Force

Shri Mohammad Younus Khan  
Assistant Commandant  
FHQ, New Delhi  
Central Industrial Security Force

Shri Ramsukh  
Inspector  
NSCBIA, Kolkata  
Central Industrial Security Force

Shri Gaut Ram Morghade  
Inspector  
Mumbai Airport  
Central Industrial Security Force

Shri Tamal Bandyopadhyay  
Inspector  
New Delhi  
Central Industrial Security Force

Shri Medhapati Narasimha Murthy  
Inspector  
KRTC, Mundali  
Central Industrial Security Force

Shri Janak Singh  
Inspector  
RTC, Barwaha  
Central Industrial Security Force

Shri Rajesh Kumar  
Inspector  
FHQ, New Delhi  
Central Industrial Security Force

Shri Madan Mohan Mukhopadhyay  
Sub-Inspector  
NES Hqrs, Kolkata  
Central Industrial Security Force

Shri Ram Lal Rana  
Head Constable  
Unit RCFL, Thal  
Central Industrial Security Force

Shri Raghu Nath Singh  
Head Constable  
ONGC, Nazira  
Central Industrial Security Force

Shri B. Sivasankara Raju  
Head Constable  
VPT, Vizag  
Central Industrial Security Force

Shri Sindhi Tamilarasan  
Head Constable  
KRTC, Mundali  
Central Industrial Security Force

Shri Soban Singh Bora  
Head Constable  
G. P. Hq, Mumbai  
Central Industrial Security Force

Shri Bhupal Ram  
Constable  
PTPS, Panki  
Central Industrial Security Force

Shri Balwant Singh  
Subedar  
Tripura  
Assam Rifles

Shri Pall Singh  
Subedar/Clerk  
Betbagan Distt-Dhalai (Tripura)  
Assam Rifles

Shri Shiv Ram Singh Yadav  
Subedar  
Kanchanpur (Tripura)  
Assam Rifles

Shri Bishan Dass  
Subedar  
Jairampur  
Assam Rifles

Shri Vivekananda Chowdhury  
Superintendent  
Shillong  
Assam Rifles

Shri Balwant Singh Khati  
Subedar  
Manipur  
Assam Rifles

Shri Tarani Deb Barma  
Subedar  
Manipur  
Assam Rifles

Shri Bhakta Bahadur Rana  
Subedar  
Thoubal (Manipur)  
Assam Rifles

Shri Ram Bahadur Gurung  
Subedar  
Kunjabon (Agartala)  
Assam Rifles

Shri Anil Palta  
Deputy Inspector General  
ACR, Kolkata  
Central Bureau of Investigation

Shri Dharam Chand Jain  
Deputy Inspector General  
AC-I, New Delhi  
Central Bureau of Investigation

Shri Saravanasamy Jagannathan  
Deputy Inspector General  
BS&FC, Mumbai  
Central Bureau of Investigation

Shri Piyush Anand  
Deputy Inspector General  
EO-III, New Delhi  
Central Bureau of Investigation



Shri Subramony Bala Seshan  
Deputy Superintendent of Police  
EOU-IX, New Delhi  
Central Bureau of Investigation

Shri Sankar Bharadwaja Sankisa  
Deputy Superintendent of Police  
ACB, Chennai  
Central Bureau of Investigation

Shri Nalini Kant Pathak  
Deputy Superintendent of Police  
MDMA, Delhi  
Central Bureau of Investigation

Shri Rajeev Kumar Chadha  
Deputy Superintendent of Police  
Interpol Wing, New Delhi  
Central Bureau of Investigation

Shri Vijay Kumar Shukla  
Inspector  
EOU-V, New Delhi  
Central Bureau of Investigation

Shri Kishan Singh Negi  
Inspector  
SCB, Delhi  
Central Bureau of Investigation

Shri Ayyaswamy Jothi Ramalingam  
Inspector  
EOW, Chennai  
Central Bureau of Investigation

Shri Puthiyaveetil Ibrahim Abdul Aziz  
Sub-Inspector  
ACB, Cochin  
Central Bureau of Investigation

Shri Mohd. Samiullah  
Assistant Sub-Inspector  
ACU-II, Delhi  
Central Bureau of Investigation

Shri Ramji Singh Yadav  
Assistant Sub-Inspector  
ACU-I, Delhi  
Central Bureau of Investigation

Shri Binyananda Jha  
Deputy Director  
Ministry of Home Affairs

Shri A. Sunil Achaya  
Deputy Director  
Ministry of Home Affairs

Shri Amaresh Pujari  
Deputy Director  
Ministry of Home Affairs

Shri Madhusudan Prasad  
Assistant Director  
Ministry of Home Affairs

Shri Nawal Kishore Kapoor  
Assistant Director  
Ministry of Home Affairs

Shri Dilip Kumar Raut  
Assistant Director  
Ministry of Home Affairs

Shri Radha Ballabh  
Section Officer  
Ministry of Home Affairs

Shri Nateri Sridhar  
Deputy Central Intelligence Officer (Technical)  
Ministry of Home Affairs

Shri Ajit Kumar Pandey  
Deputy Central Intelligence Officer  
Ministry of Home Affairs

Shri Namgya Sherpa  
Deputy Central Intelligence Officer  
Ministry of Home Affairs

Shri Vadakke Veetil Somashekaran  
Deputy Central Intelligence Officer  
Ministry of Home Affairs

Shri Sontak Henjamang Vaiphei  
Deputy Central Intelligence Officer  
Ministry of Home Affairs

Shri Girish Kumar Soni  
Deputy Central Intelligence Officer  
Ministry of Home Affairs

Shri Pramod Kumar Srivastava  
Assistant Central Intelligence Officer-I/G  
Ministry of Home Affairs

Shri Ishrat Ali Rizvi  
Assistant Central Intelligence Officer-I/G  
Ministry of Home Affairs

Shri Virendra Pratap Singh  
Assistant Central Intelligence Officer-I/G  
Ministry of Home Affairs

Shri Kunnel Baby Cherian  
Assistant Central Intelligence Officer-II/G  
Ministry of Home Affairs

Shri Gunwant Singh  
Assistant Central Intelligence Officer-II/G  
Ministry of Home Affairs

Shri Natarajan Kalidoss  
Junior Intelligence Officer-I/G  
Ministry of Home Affairs

Shri Mulakh Raj Dadwal  
Upper Division Clerk  
Ministry of Home Affairs

Shri Harish Chandra Pandey  
Deputy Inspector General  
SHQ, Ranidanga  
Sashastra Seema Bal

Shri Shashi Ranjan  
Chief Veterinary Officer (S. G.)  
FHQ, New Delhi  
Sashastra Seema Bal

Shri Sagolsem Yaiskul Singh  
Commandant  
37th Bn, Mangaldai  
Sashastra Seema Bal

Shri Lal Singh Thakur  
Second-in-Command  
14 Bn, Jayanagar  
Sashastra Seema Bal

Shri Dhan Singh  
Assistant Commandant  
11 Bn, Gorakhpur  
Sashastra Seema Bal

Shri Samar Kumar Nandy  
Assistant Field Officer (Med)  
A. O., Nanpara  
Sashastra Seema Bal

Shri Dipak Ranjan Chakraborty  
Section Officer  
FHQ, New Delhi  
Sashastra Seema Bal

Shri Deep Ram  
Field Officer (Armourer)  
TC CSD&W, Salonibari  
Sashastra Seema Bal

Shri Bimal Kumar Mishra  
Sub-Inspector  
30th Bn, Cooch Behar  
Sashastra Seema Bal

Shri Rajinder Kumar Bhumbra  
Group Commander  
13 SRG, Manesar  
National Security Guard

Shri A. Jayachandran Nair  
Assistant Commander-I  
Hq, DG, Sectt.  
National Security Guard

Shri Manidhar Jha  
Assistant Inspector General  
Special Protection Group

Shri Pankaj Kumar  
Assistant Inspector General  
Special Protection Group

Shri Bimlesh Kumar  
Senior Security Assistant  
Special Protection Group

Shri C. S. Surendra Babu  
Senior Security Assistant  
Special Protection Group

Shri Suresh Prasad Choudhary  
Senior Security Assistant  
Special Protection Group

Shri M K Sudarsanan  
Senior Private Secretary  
Bureau of Police Research & Development

Shri Dhani Ram  
Section Officer  
Bureau of Police Research & Development

Shri Puran Parkash Bhatia  
Extra Assistant Director (CIPHER)  
Directorate of Coordination Police Wireless

Shri Prem Chand Sharma  
Deputy Director  
Directorate of Coordination Police Wireless

Shri Bijender Singh  
Constable  
National Crime Record Bureau

Shri B. Ashokan  
Sub-Inspector  
Sardar Vallabhbhai Patel  
National Police Academy

Shri B. Bhaskar Reddy  
Head Constable  
Sardar Vallabhbhai Patel  
National Police Academy

Shri Sudhir Chowdhary  
Deputy Inspector General  
National Human Right Commission

Shri Anoop Srivastava  
Deputy Inspector General/RPF  
New Delhi  
Ministry of Railways

Shri Vinod Kumar Dhaka  
Chief Security Commissioner  
Konkan Rly. Crop. Ltd.  
Navi Mumbai  
Ministry of Railways

Shri Jai Naraian Maurya  
Assistant Sub-Inspector  
4th Bn, RPSF/NJP  
Ministry of Railways

2. These awards are made under Rule 4(ii) of the rules governing the grant of Police Medal for Meritorious Service.

BARUN MITRA  
Jt. Secy.

No. 150-Pers/2007.—The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2007 to award the President's Fire Service Medal for Distinguished Service to the under mentioned officers :—

Shri Jnanendra Nath Behera  
Asstt. Fire Officer  
Orissa

Shri Bhagya Dhar Mohapatra  
Station Officer  
Orissa

Shri Devi Prasad Shukla  
Chief Fire Officer  
Uttar Pradesh

Shri Shamim  
Director  
NFSC, MHA

Shri Babulal Maharajdeen Yadav  
Leading Fireman  
NFSC, MHA

2. These awards are made under Rule 3(ii) of the rules governing the award of President's Fire Service Medal for Distinguished Service.

BARUN MITRA  
Jt. Secy.

No. 151-Pers/2007.—The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2007 to award the President's Fire Service Medal for Meritorious Service to the under mentioned officers :—

Shri Nanjundappa, Mylavaram  
Leading Fireman  
Andhra Pradesh

Shri Munirathnam Murthiganur  
Fireman  
Andhra Pradesh

Shri Ghouse Mohammed  
Fireman  
Andhra Pradesh

Shri Vadana Balapitchaiah  
Driver Operator  
Andhra Pradesh

Shri Ghanashyam Choudhury  
Station Officer  
Assam

Shri Karuna Choudhury  
Sub Officer  
Assam

Shri Gautam Bhattacharjee  
Leading Fireman  
Assam

Shri Ramendra Singha  
Fireman  
Assam

Shri Hafizuddin Ahmed  
Driver  
Assam

Shri Vasudevan Kunhukrishnan  
Leading Fireman No. 2523  
Kerala

Shri Sathyavalsalan Ponnu Nadar  
Leading Fireman No. 2517  
Kerala

Shri Chandrashekhkar Madhukar More  
Superintendent  
Maharashtra

Shri Mohammed Munir Alias Yusuf Mohammed  
Ghori—Desai  
Divisional Fire Officer  
Maharashtra

Shri Jaiwant Bandu Gonjari  
Divisional Fire Officer  
Maharashtra

Shri Shamrao Hariba Shinde  
Asstt. Divisional Fire Officer  
Maharashtra

Shri Maruti Kashinath Sorte  
Sub Officer  
Maharashtra

Shri Rayindra Ramchandra Mhamunkar  
Leading Fireman  
Maharashtra

Shri Sadanand Laxman Bhosale  
Leading Fireman  
Maharashtra

Shri Bhimrao Eknath Pawar  
Fire Engine Driver  
Maharashtra

Shri Rajendra Dhondu Bhosale  
Fireman  
Maharashtra

Shri Bhau Tukaram Shinde  
Fireman  
Maharashtra

Shri Thangchhuana  
Sub Station Officer  
Mizoram

Shri Bhaba Grahi Ghadei  
Station Officer  
Orissa

Shri Dukhi Shyam Das  
Havildar Major  
Orissa

Shri Ganga Dhar Mohanty (A)  
Driver Havildar  
Orissa

Shri Sudhakar Mohanty  
Driver Havildar  
Orissa

Shri Mathura Nanda Bhadra  
Leading Fireman  
Orissa

Shri Gourang Charan Swain  
Fireman—669  
Orissa

Shri Bhikari Dalai  
Fireman—706  
Orissa

Shri Buddhi Lall Subba  
Leading Fireman  
Sikkim

Shri Rangasamy Govindaraj  
Asstt. Divisional Officer  
Tamil Nadu

Shri Paramasivam Balasubramanian  
Station Officer  
Tamil Nadu

Shri Anantha Padmanabha Rajamani  
Station Officer—3005  
Tamil Nadu

Shri S. Arjuna Balaraman  
Driver Mechanic—3103  
Tamil Nadu

Shri Parasuraman Panchatcharam  
Leading Fireman—3470  
Tamil Nadu

Shri Ramasamy Venkatachalam  
Fireman—3516  
Tamil Nadu

Shri Achintya Kumar Mukhopadhyaya  
Divisional Officer  
West Bengal

Shri Asit Kumar Sarkar  
Chief Instructor  
West Bengal

Shri Kali Das Chakraborty  
Station Officer  
West Bengal

Shri Chanchal Kumar Sarkar  
Station Officer  
West Bengal

Shri Kamal Kanti Sen  
Mobilizing Officer  
West Bengal

Shri Dilip Kumar Ghosh  
Leader—2666  
West Bengal

Shri Asder Rahaman  
FEOD  
West Bengal

Shri Ram Chandra Mondal  
Fire Operator  
West Bengal

Shri Patit Paban Roychowdhury  
Fire Operator  
West Bengal

Shri Ashok Asaram Hood  
Fireman  
NFSC, MHA

Shri P. Hrishikesan  
Asstt. Commandant (Fire)  
CISF, MHA

Shri Kuldeep Singh  
Head Constable (Fire)  
CISF, MHA

Shri K. P. Chandran  
Head Constable (Fire)  
CISF, MHA

Shri Devendra Singh Chauhan  
Station Fire Officer 'B'  
Deptt. of Atomic Energy

2. These awards are made under Rule 3(ii) of the rules governing the award of Fire Service Medal for Meritorious Service.

BARUN MITRA  
Jt. Secy.

No. 152-Pres/2007.—The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2007 to award

the President's Home Guard and Civil Defence Medal for Distinguished Service to the under mentioned officers :—

Dr. L. S. Prasad  
Commandant (HG)  
Karnataka

Shri S. A. Wahid  
Dy. Commandant (HG)  
Karnataka

Shri V. Purushothama  
Dy. Commandant (HG)  
Karnataka

Shri Ashok Balappa Wajare  
Dy. Commandant (HG)  
Karnataka

Shri C. R. Paramashivaiah  
Dy. Commandant (HG)  
Karnataka

Shri Irudhyanathan Pitchaiah  
Instructor (HG)  
Karnataka

Shri Rajendra Singh Khichi  
Coy. Commander (HG)  
Madhya Pradesh

Shri Vinod Kumar Dube  
Coy. Commander (HG)  
Madhya Pradesh

Shri Nathoo Ram Pachori  
Coy. Commander (HG)  
Madhya Pradesh

Shri Moti Lal Rajak  
Platoon Commander (HG)  
Madhya Pradesh

Shri Gursharan Singh  
Coy. Commander (HG)  
Punjab

Shri Nathu Ram Berwal  
BN Commandant (HG)  
Rajasthan

2. These awards are made under Rule 3(ii) of the rules governing the award of President's Home Guard and Civil Defence Medal for Distinguished Service.

BARUN MITRA  
Jt. Secy.

No. 153-Pres/2007.—The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2007 to award the Home

Guard and Civil Defence Medal for Meritorious Service to the undermentioned officers :—

Shri V. Narasimha Rao  
Coy. Commander (HG)  
Andhra Pradesh

Shri A. Poorna Chandra Rao  
Home Guard  
Andhra Pradesh

Shri Ganga Prasad Deshmugh  
Platoon Commander (HG)  
Chhatisgarh

Shri Kamta Prasad Chouhan  
Havildar Instructor (HG)  
Chhatisgarh

Shri Lalu Laxman Parmar  
Civil Defence Volunteer  
Goa

Shri Suresh Somu Priolkar  
Platoon Commander (HG)  
Goa

Shri Ashok Dattaram Mangueshkar  
Platoon Commander (HG)  
Goa

Shri Madan Lal  
Platoon Commander (HG)  
Haryana

Shri Kanwar Pal  
Havildar Instructor (HG)  
Haryana

Flt Lt. K. P. Nagesh  
Commandant (HG)  
Karnataka

Shri B. Shiva Kumar  
Commandant (HG)  
Karnataka

Shri Girija Shankar Shetty  
Commandant (HG)  
Karnataka

Shri K. S. Jaivittal  
Sr. PL. Codr. (HG)  
Karnataka

Dr. Suresh Darwadkar  
Unit Officer (HG)  
Karnataka

Shri Ramachandra Basappa Dandinavar  
Dy. Commandant (HG)  
Karnataka

Shri Chikka Venkatappa  
Instructor (HG)  
Karnataka

Shri Bhanu Shah Dhurve  
District Comdt. (HG)  
Madhya Pradesh

Shri Narayan Singh Yadav  
Coy. Commander (HG)  
Madhya Pradesh

Shri Mukesh Kumar Lashkari  
Coy. Commander (HG)  
Madhya Pradesh

Ms. Phoolwati Rajak  
Asstt. Sub-Inspector (M)  
Madhya Pradesh

Shri Jai Narayan Singh  
Asstt. Sub-Inspector (M)  
Madhya Pradesh

Shri Gopal Singh Sengar  
Havildar Driver  
Madhya Pradesh

Shri Jambeswar Pradhan  
PL. Sergeant (HG)  
Orissa

Shri Parsuram Mallik  
Coy. Commander (HG)  
Orissa

Smt. Santilata Sahoo  
Home Guard  
Orissa

Shri Bidhu Bhushan Jena  
C. D. Volunteer  
Orissa

Shri Jaya Krishna Pradhan  
C. D. Volunteer  
Orissa

Shri Chitra Ranjan Mohanty  
C. D. Volunteer  
Orissa

Shri Goura Hari Nanda  
C. D. Volunteer  
Orissa

Shri Sunakar Sharma  
Instructor (CD)  
Orissa

Shri Firoj Kumar Hial  
C. D. Volunteer  
Orissa

Shri Subhendu Panda  
C. D. Volunteer  
Orissa

Shri Gurcharan Singh  
Coy. Commander (HG)  
Punjab

Shri Ravinder Singh Ranawat  
Commandant (HG)  
Rajasthan

Ms. Mateshwari Arya  
Dy. Controller (CD)  
Rajasthan

Shri Rajjak Ali  
Coy. Commander (HG)  
Rajasthan

Shri Tilok Ram  
Platoon Commander (HG)  
Rajasthan

Shri Bado Rao Meena  
Platoon Commander (HG)  
Rajasthan

Shri Amrit Lal Dahiya  
Head Constable (HG)  
Rajasthan

Shri Narendra Kumar Purohit  
Office Superintendent  
Rajasthan

Shri G. Devasena Thipathy  
Divl. Commander (HG)  
Tamil Nadu

Ms. R. Sardhamani  
Coy. Commander (HG)  
Tamil Nadu

Shri G. S. Tevaraji  
Coy. Commander (HG)  
Tamil Nadu

Shi M. Selvakkannu  
Platoon Commander (HG)  
Tamil Nadu

Shri P. Balasubramanian  
Asstt. PL. Commander (HG)  
Tamil Nadu

Shri A. Senthamizh Pandian  
Asstt. PL. Commander (HG)  
Tamil Nadu

Shri C. Gopal  
Asstt. PL. Commander (HG)  
Tamil Nadu

Shri Rati Ranjan Roy  
Home Guard  
Tripura

Shri Biplab Chowdhury  
Sr. Civil Defence Instructor  
Railways

Shri Narayan Das Gurnani  
I/c, Civil Defence  
Railways

2. These awards are made under Rule 3(ii) of the rules governing the award of Home Guard and Civil Defence Medal for Meritorious Service.

BARUN MITRA  
Jt. Secy.

No. 155-Pres/2007.—The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2007 to award the Correctional Service Medal for Meritorious Service to the following prison personnel :—

Shri Shareef Mahmood  
Head Warder  
Central Jail, Cherlapalli  
Andhra Pradesh

Shri J. Krishna Rao  
Warder  
Sub-Jail, Gannavaram  
Andhra Pradesh

Shri Prakash Chand Sharma  
Head Warder  
Central Jail No. 2, Tihar  
New Delhi

Shri M. A. Marigowda  
Jailer  
Taluk Sub-Jail, Nanajangud  
Karnataka

Shri G. Sankaranarayana  
Superintendent  
Central Prison, Office of Additional Director  
General of Prisons Bangalore  
Karnataka

Shri Joseph Thomas  
Deputy Inspector General of Prisons  
North Zone  
Kerala

Shri Radhe Shyam Vijayvargiya  
Deputy Inspector General of Prisons (Law)  
Bhopal  
Madhya Pradesh

Shri Rabindra Nath Swain  
Jailor  
Circle Jail, Baripada  
Orissa

Shri Dharamapada Dhir  
Assistant Jailer  
District Jail, Balasore  
Orissa

Shri T. Mohanam  
Grade-II Warder  
Sub-Jail, Vandavasi  
Tamil Nadu

Shri K. Ashokan  
Grade-II Warder  
Central Prison, Salem  
Tamil Nadu

Shri A. Chinnasamy  
Grade-II Warder  
Central Prison, Salem  
Tamil Nadu

Shri Sharad  
Senior Superintendent  
Office of Director General of Prisons, Lucknow  
Uttar Pradesh

Shri Jang Bahadur Pandey  
Deputy Inspector General of Prisons  
Lucknow Range  
Uttar Pradesh

2. These awards are made under Rule 4(iii) of the Rules governing the grant of Correctional Service Medal for Meritorious Service.

BARUN MITRA  
Jt. Secy.

No. 154-Pres/2007.—The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2007 to award the President's Correctional Service Medal for Distinguished Service to the following prison personnel :—

Shri T. Kumarasamy  
Deputy Inspector General of Prisons  
Prisons Headquarter  
Chennai, Tamil Nadu

Smt. P. Rajasoundary  
Superintendent  
Special Prison for Women  
Vellore, Tamil Nadu

2. These awards are made under Rule 4 of the Rules governing the grant of President's Correctional Service Medal for Distinguished Service.

BARUN MITRA  
Jt. Secy.

No. 156-Pres./2007-The President is pleased to award the Correctional Service Medal for Gallantry to the following prison personnel on the occasion of Independence Day, 2007:

1. Shri Ambreesh Gaur  
Senior Superintendent  
District Jail, Agra  
Uttar Pradesh
2. Shri Satendra Singh  
Deputy Jailor  
District Jail, Agra  
Uttar Pradesh
3. Shri Sibtey Hasan Jafari,  
Reserve Head Warder, Agra,  
Uttar Pradesh

**Statement of services for which the decoration has been awarded:**

On the direction of the Principal Secretary (Jail), U.P., a Task Force headed by the Deputy Inspector General of Prisons, Agra was constituted for carrying out search operation in the District Jail Meerut. All the aforesaid officials were members of the Task Force. On 30.3.2007, a search operation was conducted by the Task Force in District Jail Meerut and many prohibitive items such as mobile phone, knife, country made pistols, cash etc were recovered. While the search operation was on, about 1500 prisoners came out of their barracks and attacked the members of the Task Force and injured them. Despite their injuries, all the aforesaid officials while showing exemplary courage had not only foiled the attempt of the prisoners to blast the gate of the jail by igniting the LPG cylinder which was brought by the prisoners from the kitchen of the jail, they forced them to go back to their barracks and helped the district administration in restoring the normalcy.

All the above mentioned officers have thus displayed exemplary gallantry, courage and devotion to duty.



This award is made under Rule 4(iv) of the Rules governing the grant of President's Correctional Service Medal for Distinguished Service/Gallantry and consequently carries with it the special allowance as is admissible under rule 4(a) with effect from the 30<sup>th</sup> March 2007.

BARUN MITRA  
Jt. Secy.

No. 157 -Pres/2007 - The President is pleased to award the President's Fire Service Medal for Gallantry to the under-mentioned Officer of Maharashtra Fire Service.

SHRI DADASAHEB LAXMAN KALE (POSTHUMOUS)  
FIREMAN

On 01.02.06 at 1430 a major fire broke out in a slum at Mahalaxmi Chawl, Dwarka Circle, Nashik. The slum mostly involved temporary structure made up of combustible material and the fire became violent in no time due to cross wind and tend to go beyond control. Fire Tender from Brigade Headquarter already on spot, then asked for reinforcement. Fireman Shri Dadasaheb Laxman Kale was a member of the reinforced team. By the time reinforcement arrived on the spot, the fire became devastating. To tame the fire, Shri Kale scaled up an adjoining tinned roofs building to apply water jet to the seat of fire from a height. While doing so, suddenly the tinned roof collapsed, grievously injuring Shri Kale which caused fracture of his leg and profuse bleeding. He was immediately hospitalized where he succumbed to injury.

Late Shri Dadasaheb Laxman Kale, Fireman thus displayed conspicuous gallantry, exemplary courage, professional expertise and devotion to duty of a very high order and died in harness while discharging his duties.

This award is made for gallantry under Rule 3(i) of the Rules governing the award of President's Fire Service Medal for Gallantry and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5(a) w.e.f 01.02.2006.

BARUN MITRA  
Jt. Secy.

No. 158-Pres/2007 - The President is pleased to award the President's Fire Service Medal for Gallantry to the under-mentioned Officer of Bhilai Steel Plant, Steel Authority of India.

SHRI SARWAR GULAM MOHAMMED  
SENIOR FIRE OFFICER  
BHILAI STEEL PLANT  
STEEL AUTHORITY OF INDIA

On 21.11.2006 at 1704 hrs, a serious fire broke out in a Kerosine tanker of 65,000 ltr capacity, which was a part of 40 such tankers of similar capacity containing high speed diesel and kerosene, near Khursipar Railway Gate. On reaching the site Senior Fire Officer Shri Sarwar Gulam Mohammed observed the flame was so vigorous that it was about to touch the 33000 volts, high tension wire above the railway track. It was difficult for fire tender to reach to the spot due to lack of approach road. Without wasting time and ignoring his personal safety, Shri Sarwar Gulam Mohammed, Senior Fire Officer, tamed the fire with portable dry powder extinguishers and ad-pro machine after climbing up the top of the burning tanker. Had this incidence not being controlled in time, there would have been colossal loss to the precious human lives and national property due to fire and explosion.

Shri Sarwar Gulam Mohammed, Senior Fire Officer thus displayed conspicuous gallantry, exemplary courage, leadership, professional expertise and devotion to duty of a very high order.

This award is made for gallantry under Rule 3(i) of the Rules governing the award of President's Fire Service Medal for Gallantry and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5(a) w.e.f 21<sup>st</sup> November, 2006.

BARUN MITRA  
Jt. Secy.

No. 159-Pres/2007 - The President is pleased to award the Fire Service Medal for Gallantry to the under-mentioned Officers of Orissa Fire Service.

SHRI RABINDRA KUMAR SWAIN  
STATION OFFICER

SHRI ASHOK KUMAR SWAIN  
FIREMAN – 867

SHRI BIRANCHI KUMAR MOHANTY  
FIREMAN – 275

On 26.02.2006 at 13.15 hrs a fire call was received at Khurda Fire Station about the fire in a thatched house at Baghatangi village. Immediately both the units of Khurda Fire Station rushed to the spot under the leadership of the Station Officer, Shri Rabindra Kumar Swain.

On reaching, they immediately started fire fighting. While fighting the fire, Station Officer Shri Rabindra Kumar Swain suddenly found that one injured woman trapped in burning room. Without wasting valuable time and also without caring for his personal safety, Shri Swain immediately jumped in to the burning house and rescued trapped injured woman to safety. Crew members came to know from the rescued lady that four young girls remained trapped in the half constructed Indira Awas Youjana house. Immediately, Fireman Shri Ashok Kumar Swain and Fireman Shri Biranchi Kumar Mohanty rushed to the spot without caring for their personal safety and jumped into the burning house and rescued all four girls to safety.

S/Shri Rabindra Kumar Swain, Station Officer, Ashok Kumar Swain, Fireman – 867 and Biranchi Kumar Mohanty, Fireman – 275 thus displayed conspicuous gallantry, exemplary courage, leadership, professional expertise and devotion to duty of a very high order.

These awards are made for gallantry under Rule 3(i) of the Rules governing the award of Fire Service Medal for Gallantry and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5(a) w.e.f 26.02.2006.

BARUN MITRA  
Jt. Secy.

## MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 7th May 2007

## RESOLUTION

No. Q/Hindi/629/89/2006.—The following Award Scheme for writing original books in Hindi on subjects pertaining to the Ministry of External Affairs is hereby published for general information.

**1. TITLE OF THE SCHEME**

The Scheme may be called '**Kautilya Award**' Yojana

**2. OBJECT OF THE SCHEME**

The main objective of the scheme is to encourage authors to write books originally in Hindi on subjects relating to the Ministry of External Affairs. For this purpose an indicative list of subjects pertaining to the Ministry of External Affairs is given at Annexure-I.

**3. PERIOD OF THE SCHEME**

For the awards to be pronounced for any particular year, books published or manuscripts prepared during the preceding 3 years shall be considered.

**4. THE AWARDS**

The details of awards under the Scheme shall be as follows:-

- |   |   |              |             |               |     |
|---|---|--------------|-------------|---------------|-----|
| (a) For the best adjudged author        | : | Rs.51,000/-  | in          | cash          | and |
|   |   | felicitation |             |               |     |
| (b) For the second best adjudged author | : | Rs.31,000/-  | in          | cash          | and |
|   |   | felicitation |             |               |     |
| (c) For the third best adjudged author  | : | Rs.21,000/-  | in cash and |               |     |
|   |   | felicitation |             |               |     |
| (d) Consolation Award (three)           | : | 11,000/-     | and         | felicitation. |     |

## **5. SPONSORSHIP OF THE AWARDS**

These awards shall be sponsored and financially supported by the Ministry of External Affairs.

## **6. ELIGIBILITY**

- (i) Every Indian citizen, including officers/employees of Government of India / State Governments/UTs, shall be eligible to participate in the Scheme. The employees/officers of the Ministry of External Affairs excluding the Members of Evaluation Committee and Award Committee shall also be eligible to participate in the Scheme.
- (ii) Only books/ manuscripts written on the subjects falling within the purview of Ministry of External Affairs will be accepted under the Scheme. Work of fiction shall not be eligible for any award under the Scheme.
- (iii) The main part of the book/manuscript (typed in single space) should run into a minimum 100 pages (30,000 words approximately) excluding the annexure, appendix and other attachments.
- (iv) Any book authored by any Government servant in his official capacity or as a part of his official duty shall not be eligible for the Award.
- (v) Any book authored by or published by or with the financial aid of the Central Government/State Governments/Union Territory Administrations or any Public Sector Undertaking or Autonomous Body of the Central Government/State Governments/Union Territory Administrations shall not be eligible for the Award.
- (vi) Only original books and not translation shall be eligible for the Award.

## **7. PROCEDURE FOR SUBMISSION OF THE ENTRIES**

- I. The author shall submit the entry form duly filled in (Annexure-II)
- II. The author shall submit his / her entry form with 5 copies of the book / manuscript along with five copies of short summary.
- III. The books/ manuscripts received under this Award Scheme shall not be returned.

- IV. An author may send only one entry under a particular period of the scheme
- V. The entries should reach on or before the last date indicated in the advertisement.

## **8. EVALUATION COMMITTEE**

a. An Evaluation Committee shall be constituted under the scheme to examine the entries and to recommend the awards. Three Non-Official Members as experts on the subject having knowledge of Hindi will be co-opted in the Evaluation Committee.

b. The entries received under the scheme shall be sent to the members of Evaluation Committee who will submit their views and comments to the Ministry within one month. The Award Committee of the Ministry shall decide First, Second, Third and Consolation prizes after considering the recommendations submitted by the Evaluation Committee.

c. Non- Official Members of the Evaluation Committee shall be entitled for honorarium at the rate of Rs. 5000/- per entry. They shall also be eligible for other allowances for attending the meetings, if necessary, as admissible under the rules.

## **9. AWARD COMMITTEE**

An Award Committee will be constituted for taking decision on the recommendations of the Evaluations Committee. The Award Committee will consist of three officials.

## **10. GENERAL TERMS AND CONDITIONS**

The participants of the scheme shall abide by and shall be governed by the following terms and conditions:-

1. The entries shall be invited from the authors through open advertisements in leading Newspapers/ Journals including the Employment News.
2. Manuscripts (typed)/ Books written/published during the prescribed period in which the scheme is in force shall only be accepted for consideration.
3. Ministry will not be responsible for late receipt or loss in transit of books/manuscripts.

4. Books/Manuscripts received after the due date shall not be considered
5. Author shall furnish a certificate to the effect that the work is his original and does not violate the copyright of any other author under the Copyright Act(As amended from time to time)1997. The authors shall continue to have the copyright of their books/manuscripts even after the receipt of awards.
6. The Book/Manuscript shall not be the Hindi version of a book already written or published in any other language by the same author.
7. A book/ manuscript which has already received an award under any other scheme of the Government shall not be eligible for consideration.
8. If there are more than one author of a book/manuscript, the award will be equally divided among them.
9. No correspondence shall be entertained regarding selection of a book/manuscript for award.
10. Award shall be given at a function or at any other appropriate occasion, information of which shall be given to the Award Winners by the Ministry of External Affairs.
11. Award winners shall be eligible for second class railway fare from the nearest railway station to the venue of the award ceremony and back or bus fare, as the case may be.
12. Ministry of External Affairs shall have exclusive right to select the recipients of the awards and as regards its selection procedure.
13. An entry sent earlier shall not be considered again if it is sent for consideration in subsequent years.
14. The decision of the Award Committee will be final and no request/appeal can be made to any authority against the decision of the Committee.
15. The Ministry shall have the right not to select any of the entries for the award in case the number of entries is insufficient on which the decision of the Ministry will be final.

**ORDER**

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments/Administrations of UTs, all Ministries/Departments of the Government of India, President Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Planning Commission, Office of the Comptroller and Auditor General of India, Union Public Service Commission, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

Ordered further that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

V. P. HARAN  
Jt. Secy. (AD)

---



**Annexure-I****Indicative list of subjects pertaining to the Ministry of External Affairs**

1. Cultural Diplomacy of India
2. Middle-East Policy of India
3. Relevance of Non-Aligned Movement
4. Role of India in Uni-Polar World
5. Concept of global village
6. Religious Fundamentalism and Modern World
7. India's Traditional Foreign Policy
8. India's Neighbours
9. South East Asia and the Pacific
10. East Asia
11. Eurasia
12. The Gulf, West Asia and North Africa
13. Africa
14. Europe
15. The Americas
16. United Nation & International Organizations
17. Multilateral Economic Relations.
18. External Publicity

**Annexure-II**

Award Scheme for Writing Original Books in Hindi on the subjects pertaining to the Ministry of External affairs.

**Entry Form**

1. Full Name of the author (s) -----
2. Name of Father/husband -----
3. Present Postal Address -----
4. Title of the Book/Manuscripts -----
5. Year of publishing in respect of published book-----
6. Is duly signed declaration Performa enclosed?-----
7. Are five copies of the book/typed manuscript enclosed?-----  
(Submitted copies will be non-returnable)
8. Is the gist of the book/manuscript enclosed?-----
9. I/We certify that:-
  - (i) I/We am/are Indian citizen(s)
  - (ii) The book has been written originally in Hindi by me/us
  - (iii) The copyright of any other person is not violated  
by entering my/our book in this Scheme

I/We promise to abide by the provisions of the regulations of the Scheme for Writing Original Books in Hindi on the subjects pertaining to Ministry of External Affairs.

Signature  
Name  
Address

Place:

Date:

Note:-

- (1) This form duly filled up and along with five copies of the book may be sent on the address mentioned in the circular/advertisement
- (2) The gist of the book duly signed by the author may also be enclosed in five copies.

**MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT  
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)**

New Delhi, the 17th September 2007

No. F. 9-33/2002-U. 3.—Whereas the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an institution of higher learning as a deemed-to-be-university for the purpose of said Act.

Whereas the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an institution of higher learning as a deemed-to-be-university for the purpose of said Act.

2. And whereas, Siksha 'O' Anusandhan (SOA), Bhubaneswar, comprising the following five constituent institutions, was declared deemed to be a university, under Section 3 of the UGC Act, 1956, vide this Ministry's notification of even number dated the 17<sup>th</sup> July, 2007, with effect from the date the following institutions are disaffiliated from their respective affiliating universities, namely, Biju Patnaik University of Technology, Rourkela and Utkal University, Bhubaneswar, subject to a review after two years by an Expert Committee of the UGC:

- (i) Institute of Technical Education & Research
- (ii) Institute of Business & Computer Studies
- (iii) School of Hotel Management
- (iv) Institute of Dental Sciences
- (v) SUM Nursing College.

3. Now, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, do hereby declare that the School of Pharmaceutical Sciences (SPS), Bhubaneswar, shall be a constituent unit under the ambit of Siksha 'O' Anusandhan, Bhubaneswar, for the purposes of the UGC Act, 1956, with effect from the date it is disaffiliated from the affiliating university, namely, Biju Patnaik University of Technology, Rourkela, subject to its review along with the SOA and its other 5 constituent institutions after two years.

4. The declaration made in the para 3 above will be governed by the conditions mentioned at Sr. No.7 of the endorsement of this Ministry's

notification of even number dated the 17<sup>th</sup> July, 2007 in addition to those mentioned at Sr. No.6 of the endorsement to this notification.

5. The Ministry of Human Resource Development or the University Grants Commission will not provide any Plan and Non-Plan grants either to the Siksha 'O' Anusandhan or any of its constituent units.

SUNIL KUMAR  
Jt. Secy.

---

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS

New Delhi, the 14th September 2007.

RESOLUTION

No. E-11015/3/2007-H. U.—In partial modification of resolution No. E-11015/3/2007-H. U. dated 17.08.2007, the Government of India has decided to nominate Smt. Savitri Sharma, 358/1, J. Savitri Gali, Mandawali, Fazalpur, Delhi as non-official member of Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Youth Affairs & Sports due to the death of Late Kamaleshwar.

SAILESH  
Jt. Secy.